

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

\* ओ३म् \*

# अथ वेदाङ्गप्रकाशः

LEADING TEXT BOOK  
तत्रत्य अष्टमो भागः

स्त्रैणताद्वितिः

पाणिनिमुनिप्रणीतायामप्याध्याच्यां पञ्चमो भागः

श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीद्वृतव्याख्यासाहितः

पठनपाठनव्यवस्थायां सप्तमं पुस्तकम्

अजमेरनगरे वैदिक-यन्त्रालये मुद्रितः

इस पुस्तक के द्वापने का अधिकार किसी को नहीं है  
क्योंकि, इसकी रजिस्ट्री कराई गई है।

सूचनाः १,६७,२६,४६,०४८

पांचवींवार

१०००

विक्रमीय संवत् २००४

मूल्य

१।।।।।

Herbert College Library

LENDING TEXT BOOKS  
KOTAH.

Class No.....S.415.....

Book No.....D. 273.....

Accession No.....132.49.....

K. P. P. 5000-2-48.

# भूमिका

Check



यह अप्याध्यारी का पांचवां भाग, और पठन पाठन में आठवां पुस्तक है। मैंने इसको बनाना आवश्यक इसलिये समझा है कि पढ़ने पढ़ानेवालों को 'ली' और 'तद्रित' प्रत्ययों का भी बोध होना आवश्य उचित है। इसके जाने विना अन्य शास्त्रों का पढ़ना भी सुनगम नहीं हो सकता। विशेष तो यह है कि संस्कृत में जैसा तद्रित प्रत्ययों से अधिक बोध होता है, वैसा अन्य से नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा तो लीप्रत्यय का प्रकरण है, वाकी दोनों अध्याय तद्रित के ही हैं। इन में से सुख्य र सूत्र, जो कि विशेष कर के वेदादि शास्त्रों और संस्कृत में उपयुक्त हैं, उन को लिख कर, भाष्य के वार्तिक, कारिका, उदाहरण, प्रयुदाहरण भी लिखे हैं, जिस से 'ली-प्रत्यय' और 'तद्रित' का भी यथावत् बोध हो।

इस में बहुत कर के 'उत्सर्ग' और 'अपवाद' के सूत्र हैं। जैसे—शैविक के अपवाद सब तद्रित सूत्र, और अरण् का अपवाद इज्, और इज् के अपवाद यज् आदि प्रत्यय हैं। जो अपवाद सूत्र हैं, वे उत्सर्ग के विषय ही में प्रवृत्त होते हैं, उन से जो वाकी विषय रहता है, सो उत्सर्ग का होता है। परन्तु अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र कमी प्रवृत्त नहीं होते। जैसे—चक्रवर्तीं राजा के राज्य में मारेडलिक राजा, और मारेडलिक के राज्य में कुछ योङ् आमदाले, उनके विषय में कुछ थोड़ी भूमि वाले अपवादवत्, और वहे राज्यवाले उत्सर्गवत् होते हैं, वैसे ही सूत्रों में भी समझना चाहिये।

कोटि २ धन्यवाद परमात्मा को देना चाहिये कि जिसने अपनी वेदविद्या को प्रसिद्ध कर के मनुष्यों का परमहित किया है, कि जिस को पढ़के महामुनि पाणिनि सदृश पुरुष हो गये। जिन्होंने हजार श्लोकयुक्त छोटे ही ग्रंथ अप्याध्यारी, और कुछ कम चौर्वीस हजार श्लोकों के बीच महाभाष्य ग्रंथ में समग्र वेद और लोकिक संस्कृत एवं रूपी महासमुद्र को भी यथायोग्य सिद्ध करके विद्रित करा दिया है, कि जिस से एक शब्द भी वाकी नहीं रह गया। उन को भी अनेक धन्यवाद देना चाहिये, कि जो हम लोगों पर वहा उपकार कर गये हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद देना चाहिये कि जो इन्हीं ग्रन्थों के पढ़ने पढ़ाने और प्रसिद्ध करके निष्कपट होकर तत मन धन से प्रवृत्त रहते हैं।

क्योंकि 'तदधीते तदैद्र' जो विद्वान् व्याकरण को पढ़ें और पढ़ावें उन्हीं को 'वैयाकरण' कहते हैं। और जो महायोगीप्रणीत संपूर्ण गुणयुक्त निर्दोष शास्त्र को छोड़ कर अपनी ज्ञान बुद्धि से प्रतिष्ठा के लिये अकिञ्चित्कर खेदविद्यारहित 'सारस्वत-चन्द्रिका' 'मुख्यबोध' 'कातन्त्र' और 'सिद्धान्तकौमुदी' आदि अयुक्त ग्रन्थ रच के परमपुनीत ग्रन्थों की प्रवृत्ति के प्रतिवन्धक हो गये हैं, उन को न 'वैयाकरण' और न हितकारी समझना चाहिये, प्रत्युत अहितकारी हैं। क्योंकि जो व्याकरण का संपूर्ण बोध तीन वर्षों में यथार्थ हो सकता है, उस को ऐसा कठिन और अव्यवस्थित किया है कि जिसको पचास वर्ष तक पढ़ के भी व्याकरण के पूर्ण विषय को यथार्थ नहीं जान सकते। उन के लिये धन्यवाद का विरुद्धार्थी शब्द देना ठीक है।

जो इस ग्रन्थ में सूत्र के आगे अङ्क है, सो इस की सूत्रसंख्या; और श्र० संकेत से अष्टाउद्धायी, एक ( १ ) से अध्याय; दो ( २ ) से पाद; तीन ( ३ ) से सूत्रसंख्या समझनी चाहिये ॥

इति भूमिका ॥



अथ स्वैराताद्वितः

卷之三

स्त्रियाम् ॥ १ ॥ अ० ४ । १ । ३ ॥

यह अधिकार सूत्र है। इस से आगे जो प्रत्यय विधान करेंगे, 'सो सद्गुरीप्रकरण में जानना चाहिये ॥ ६ ॥

अजायतष्टाप् ॥ २ ॥ अ० ४ । १ । ४ ॥

जो छीं अभिव्येद हो, तो अजादि गणपति और अकारान्त प्रातिपदिकों से  
टापू प्रस्तुत हो।

जैसे—अजादि—अजा; एडका; कोकिला; चटका इत्यादि। अदन्त—खट्टवा, देयदत्ता; शाला; माला इत्यादि।

अकारान्त शब्द जब व्यीलिङ्ग के बाचक होते हैं, तब सब से टाप् ही हो जाता है। अर्थात् व्यीलिङ्ग में अदन्त कोई शब्द नहीं रहता ॥ २ ॥

प्रत्ययस्थात्कात्पर्वस्याऽत इदाप्यसपः ॥ ३ ॥ अ० ७ । ३ । ४४ ॥

आप परे हो, तो प्रत्ययस्य कक्षार से पूर्व जो अत् उस को इकार आदेश हो, परन्तु जो वह आप सप से परे न हो तो।

जैसे—जटिलिका; मुरिड़ का; कारिका; द्वारिका; पाचिका; पाढिका इत्यादि।

‘प्रत्यय’ ग्रहण इसलिये है कि—शक्तोत्तिश क्षाका। ‘ककार से पूर्व’ इसलिये कहा है कि—नन्दना; रमणा। ‘पूर्व को इत्त्व’ इसलिये कहा है कि—कटुका, यहां पर को न हुआ। ‘अकार को इत्त्व’ इसलिये कहा है कि—गोका, यहां न हो। ‘तपरकरण’ इसलिये है कि—राका; धाका, यहां इत्त्व न हो। ‘आप् के परे’ इसलिये कहा है कि—कारकः; धारकः, यहां न हो। ‘असुप्’ इसलिये है कि—वहवः परिवाजका अस्यामिति वहृपरिवाजका वागालासी ॥ ३ ॥

वा०—सामकनरकथोहुपसंख्यानं कर्त्तव्यमप्रत्ययस्थत्वात् ॥ ४ ॥

सुपरहित आपू के परे मामक और नरक शङ्क के अत् को भी इकार आदेश हो।

जैसे—ममेयं मामिका; नरान् कायर्तीति नरिका ॥ ४ ॥

**वा०-प्रत्ययप्रतिषेधे त्यक्त्यपोश्चोपसंख्यानम् + ॥ ५ ॥**

खुप्रदित आप परे हो तो त्यक् और त्यप् प्रत्ययान्त को इत् आदेश हो ।

जैसे—दाक्षिणाल्यिका; इहत्यिका × इत्यादि ॥ ५ ॥

**न यासयोः ॥ ६ ॥ अ० ७ । ३ । ४५ ॥**

खीविषय में या और सा इनके ककार से पूर्व अत् को इत् आदेश न हो ।

जैसे—यका; सका । यहाँ ‘यत्; तत्’ शब्दों से ‘अकच्’ प्रत्यय हुआ है ॥ ६ ॥

**वा०-यत्तदोः प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम् ॥ ७ ॥**

यत् और तत् शब्दों को जो इत्त्व का निषेध किया है, वहाँ त्यकन् प्रत्ययान्त को भी इत्व न हो ।

जैसे—उपत्यका; अधित्यका × ॥ ७ ॥

**वा०-पावकादीनां छन्दस्युपसङ्ख्यानम् ॥ ८ ॥**

पावका आदि वैदिक शब्दों में इत्व न हो ।

जैसे—हिरण्यवरणः शुचयः पावकाः; यासु अलोमकाः ।

‘छन्द’ महण इसलिये है कि—पाविका; अलोमिका, यहाँ लोक में निषेध न हो जावे ॥ ८ ॥

**वा०-आशिषि चोपसङ्ख्यानम् ॥ ९ ॥**

आशीषोद अर्थ में वर्तमान शब्दों को इत्व न हो ।

जैसे—जीवतात्=जीवका; नन्दतात्=नन्दका; भवतात्=भवका इत्यादि ॥ ९ ॥

**वा०-उत्तरपदलोपे चोपसङ्ख्यानम् ॥ १० ॥**

उत्तरपद का जहाँ लोप हो वहाँ इत्य न हो ।

जैसे—देवदत्तिका=देवका; यज्ञदत्तिका=यज्ञका इत्यादि ॥ १० ॥

+ यह वार्तिक द्वस्तिये कहा है कि ( उदीचा० ) इस अगले सूत्र से य पूर्व होने से विकल्प करके हत्य प्राप्त है, सो नित्य ही हो जावे ॥

× यहाँ दक्षिणा शब्द से ( दक्षिणापश्चात्पुरस्त्यक् ) इस सूत्र से ‘त्यक्’ प्रत्यय, और हह अत्यय् शब्द से ( अत्ययात् त्यप् ) इस सूत्र करके ‘त्यप्’ प्रत्यय हुआ है ॥

× यहाँ भी य पूर्व के होने से ( उदीचा० ) इसी अगले सूत्र से विकल्प प्राप्त हैं, सो निषेध कर दिया ॥

**वा०-क्षिपकादीनां चोपसङ्ग्लव्यानम् ॥ ११ ॥**

क्षिपका आदि शब्दों में इत्व न हो ।

जैसे—क्षिपका; ध्रुवका इत्यादि ॥ ११ ॥

**वा०-तारका ज्योतिष्युपसङ्ग्लव्यानम् ॥ १२ ॥**

तारका शब्द जहाँ नक्षत्र का नाम हो, वहाँ उसको इकारादेश न हो ।

जैसे—तारका ।

‘ज्योति’ ग्रहण इसलिये है कि—तारिका दासी, यहाँ निषेध न हो ॥ १२ ॥

**वा०-वर्णका तान्तव उपसङ्ग्लव्यानम् ॥ १३ ॥**

तन्तुओं के समुदाय में वर्तमान वर्णका शब्द को इत्व न हो ।

जैसे—वर्णका प्रावरणभेदः ।

‘तान्तव’ इसलिये कहा है कि—वर्णिका भागुरी लोकायते, यहाँ न हो ॥ १३ ॥

**वा०-वर्त्तका शकुनौ प्राचासुपसङ्ग्लव्यानम् ॥ १४ ॥**

पक्षी का वाची जहाँ वर्त्तका शब्द हो, वहाँ उस को इकार आदेश न हो, प्राचीन आचार्यों के मत में ।

जैसे—वर्त्तका शकुनिः । अन्यत्र वर्त्तिका ।

‘शकुनि’ ग्रहण इसलिये है कि—वर्त्तिका भागुरी लोकायतस्य, यहाँ न हो ॥ १४ ॥

**वा०-अष्टका पितृदैवत्ये ॥ १५ ॥**

पितृ और देवताकर्म में वर्तमान अष्टका शब्द को इकार न हो ।

जैसे—अष्टका ।

‘पितृदैवत्य’ इसलिये है कि—अष्टिका स्थारी, यहाँ हो जावे ॥ १५ ॥

**वा०-वा सूतकापुत्रकाबृन्दारकाणामुपसङ्ग्लव्यानम् ॥ १६ ॥**

सूतका आदि शब्दों को विकल्प करके इकार हो ।

जैसे—सूतिका, सूतका; पुत्रिका, पुत्रका; बृन्दारिका, बृन्दारका ॥ १६ ॥

**उदीचामातः स्थाने यक्पूर्वायाः ॥ १७ ॥ अ०७ । ३ । ४६ ॥**

उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में जो छीविपयक यकार और ककार से पूर्व आकार के स्थान में श्रकार उस को इत् आदेश हो ।

जैसे—यकारपूर्व—इभ्यका, इभ्यिका; क्षत्रियका, क्षत्रियिका । ककारपूर्व—चटकका, चटकिका; मूपकका, मूपकिका ।

'आत्' ग्रहण इसलिये है कि—साङ्काश्ये भवा साङ्काश्यिका, यहां न हो। 'यकपूर्व' ग्रहण इसलिये है कि—अश्विका, यहां विकल्प न हो ॥ १७ ॥

### वा०—यकपूर्वत्वे धात्वन्तप्रतिषेधः ॥ १८ ॥

धातु के अन्त के यकार ककार जिस से पूर्व हों, ऐसे अकार को इकार हो। सूत्र से जो विकल्प प्राप्त है, उस का निषेध कर के नियम विधान किया है।

जैसे—सुनयिका; सुशयिका; सुपाकिका; अशोकिका इत्यादि ॥ १८ ॥

### भस्त्रैषाजाज्ञादास्वानञ्चपूर्वाणामपि ॥ १९ ॥ अ० ७ । ३ । ४७ ॥

खीविषय में जो भव्या, एषा, जा, षा, द्वा, स्या, ये शब्द नञ्चपूर्वक हों, तो भी आकार के अकार को इत् आदेश न हो, उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में।

जैसे—भस्त्रिका, भस्त्रिका; एषिका, एषिका; जका, जिका; षका, षिका; द्वके, द्विके; खका, खिका। नञ्चपूर्वक—अभस्त्रिका, अभस्त्रिका; अजका, अजिका; अज्ञका, अज्ञिका; अस्वका, अस्विका इत्यादि \* ॥ १९ ॥

### अभाषितपुंस्काच्च ॥ २० ॥ अ० ७ । ३ । ४८ ॥

जो अभाषितपुंस्किंग से परे, आत् के स्थान में अकार, उस को उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में इत् आदेश न हो।

जैसे—खट्टवका, खट्टविका; अखट्टवका, अखट्टविका; परमखट्टवका, परमखट्टविका इत्यादि ॥ २० ॥

### आदाचार्यणाम् + ॥ २१ ॥ अ० ७ । ३ । ४९ ॥

आचार्यों के मत में, खी विषय में अभाषितपुंस्क प्रातिपदिकों से परे जो आत् के स्थान में अकार, उस को आत् आदेश हो।

जैसे—खट्टवाका, अखट्टवाका; परमखट्टवाका इत्यादि ॥ २१ ॥

### ऋग्नेभ्यो डीप् ॥ २२ ॥ अ० ४ । १ । ५ ॥

खीविषय में ऋकारान्त और नकारान्त प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय हो।

जैसे—ऋकारान्त—कर्त्री; हर्त्री; पक्त्री इत्यादि। नकारान्त—इस्तिनी; मालिनी; वरिडनी; द्वित्रिणी इत्यादि ॥ २२ ॥

\* यहां एषा और द्वा हन दो नञ्चपूर्वक शब्दों को इकारादेश इसलिये नहीं होता, कि जो समास की प्रातिपदिक संज्ञा होके विभक्ति आती है, उसी से परे टाप् होता है, इस कारण सुप्रहित भाष् के न होने से प्राप्ति ही नहीं है ॥

+ यहां आचार्यं शब्द के वहुवचन निर्देश से पायिनि आचार्य का मत समझना चाहिये ॥

उगितश्च ॥ २३ ॥ अ० ४ । १ । ६ ॥

जैसे—भवती; अतिभवती; पचन्ती; यजन्ती इत्यादि ॥ २३ ॥

जैसे—भवती; अतिभवती; पचन्ती; यजन्ती इत्यादि ॥ २३ ॥

वा०—धातोरुगितः प्रतिषेधः ॥ २४ ॥

उक्त लिस का इत् गया हो, ऐसे किप् आदि अविद्यमान प्रत्ययान्त धातु प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय न हो ।

जैसे—उद्वान्तः पर्णव्यत् + ग्राहणी ॥ २४ ॥

वा०—अश्वतेश्चोपसङ्कृत्यानम् ॥ २५ ॥

उगित् धातु से जो डीप् का निषेध किया है, वहां अश्वत् का उपसङ्कृत्यान, अर्थात् उससे डीप् का निषेध न हो ।

जैसे—प्राची; प्रतीची; उदीची ॥ २५ ॥

वनो र च ॥ २६ ॥ अ० ४ । १ । ७ ॥

खीर्त्यिंग मैं वक्त्वान्त प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय हो, और उस वक्त्वान्त को रेफ अद्वेश हो जावे ।

जैसे—र्धीवर्ती; पीवर्ती; शर्वरी इत्यादि ॥ २६ ॥

वा०—वनो न हशः ॥ २७ ॥

हश् प्रत्याहार से परे जो वन्, तदन्त से डीप् न हो ।

जैसे—सद्युध्वा \* ग्राहणी ॥ २७ ॥

पादोऽन्यतरस्याम् ॥ २८ ॥ अ० ४ । १ । ८ ॥

खी अर्थ मैं पादशब्दान्त प्रातिपदिकों से विकल्प करके डीप् प्रत्यय हो ।

जैसे—द्विपदी, द्विपादः, त्रिपदी, त्रिपाद, चतुष्पदी, चतुष्पाद इत्यादि ॥ २८ ॥

टावृचि ॥ २९ ॥ अ० ५ । १ । ६ ॥

खीर्त्यिंग मैं वर्तमान ऋग्वेदविषयक पादशब्दान्त प्रातिपदिकों से टाप् प्रत्यय हो ।

+ यहां संसु और स्वंसु धातु से किप् प्रत्यय के परे सकार को पदान्त में दकार (वसुसं-सुवस्व) इससे दकारादेश हो गया है ॥

\* यहां सह उपपद युथ् धातु से क्षनिप् प्रत्यय (सहे च) इस सूत्र से हुआ है, और हश् प्रवाहार मैं धकार से परे वर् है ॥

जैसे—द्विपदा ऋक्; विपदा ऋक्; चतुष्पदा ऋक्।

‘ऋक्’ ग्रहण इसलिये है कि—द्विपदी वृपली, यहां टापू न हो ॥ २६ ॥

**न षट्स्वस्त्रादिभ्यः ॥ ३० ॥ अ० ४ । १ । १० ॥**

षट्संद्वक और स्वस् आदि गणपठित प्रातिपदिकों से खीप्रत्यय न हो ।

जैसे—पञ्च ब्राह्मणः, सप्त नव दश वां । स्वसा; दुहिता; ननान्दा; याता; माता; तिक्ष्णः; चतुर्थः; इत्यादि ।

यहां ऋकारान्त शब्दों से डीप्, और पञ्च आदि षट्संद्वकों के अन्त्य नकार का लोप होके अद्वतों से टापू प्रत्यय प्राप्त है, सो दोनों का निषेध समझना चाहिये ॥ ३० ॥

**मनः ॥ ३१ ॥ अ० ४ । १ । ११ ॥**

खीलिंग में वर्तमान मनप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय न हो ।

जैसे—दामा, दामानी, दामानः; पामा, पामानी, पामान; सीमा, सीमानी, सीमानः; अतिमहिमा, अतिमहिमानी, अतिमहिमानः इत्यादि ॥ ३१ ॥

**अनो बहुव्रीहेः ॥ ३२ ॥ अ० ४ । १ । १२ ॥**

खीलिंग में वर्तमान अनन्त बहुव्रीहि समास से डीप् प्रत्यय न हो ।

जैसे—सुपर्वा, सुपर्वाणी, सुपर्वाणः; सुशर्मा, सुशर्माणी, सुशर्माणः इत्यादि ।

‘बहुव्रीहि’ ग्रहण इसलिये है कि—अनिकान्त राजानमतिराजी, यहां एकविभक्ति-समास में निषेध न लगे ॥ ३२ ॥

**डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् ॥ ३३ ॥ अ० ४ । १ । १३ ॥**

जो मन्त्रन्त प्रातिपदिक और अन् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकान्त बहुव्रीहिसमास हो, तो उनसे खीलिंग में विकल्प करके डापू प्रत्यय होजाय ।

जैसे—मन्त्रन्त—पामा, पामे, पामाः; सीमा, सीमे, सीमाः । पक्ष में—पामा, पामानी, पामानः; सीमा, सीमानी, सीमानः । अन्तर्न्त बहुव्रीहिसमास—बहुवो राजानोऽस्यां नगर्यां सा बहुराजा नगरी, बहुराजे नगर्यां, बहुराजा नगर्याः; बहुतक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः । पक्ष में—बहुराजा, बहुराजानी, बहुराजानः; बहुतक्षा, बहुतक्षाणी, बहुतक्षाणः ।

यहां ‘अन्तरस्याम्’ ग्रहण इसलिये है कि—(वनो र च) इस सूचके विषय में भी विकल्प हो जावे । जैसे—बहुधीधा, बहुधीधरी; बहुपीवा, बहुपीवरी इत्यादि ॥ ३३ ॥

**अनुपसर्जनात् ॥ ३४ ॥ अ० ४ । १ । १४ ॥**

यहां से आगे जिस २ प्रत्यय का विधान करेंगे, सो २ अनुपसर्जन अर्थात् सार्थ में, मुख्य प्रातिपदिकों ही से होंगे । इसलिये यह अधिकार सूत्र है ॥ ३४ ॥

टिड्डाणभृद्यसज्जदधनज्ज्ञमात्रचूतयपृथक्कठज्जकरपः ॥ ३५ ॥

अ० ४ । १ । १५ ॥

यहाँ अदन्त की अनुवृत्ति सर्वत्र चली आती है। परन्तु जहाँ संभव होता है वहाँ विशेषण किया जाता है।

ढ़, अण्, अञ्, द्वयसच्, दध्नच्, मात्रच्, तयप्, ठक्, ठञ्, कञ् और करप् ये प्रत्यय जिनके अन्त में हों उन, और अदन्त अनुपसर्जन टित् प्रातिपदिकों से ढीप् प्रत्यय हो।

जैसे—टित्—कुरुचरी; मद्रचरी । ढ—आग्नेयी; सौपर्णेयी; वैनतेयी । अण्—ओपगवी; कुम्भकारी; नगरकारी । अञ्—ओत्सी; ओदपानी । द्वयसच्—उरुद्वयसी; जानुद्वयसी । दध्नच्—ऊरुदध्नी; जानुदध्नी । मात्रच्—ऊरुमात्री; जानुमात्री । तयप्—द्वितीयी; चतुष्पायी; पंचतीयी । ठक्—आक्षिकी; शालाक्षिकी । ठञ्—लावणिकी । कञ्—यादशी; तादशी । करप्—इत्वरी; नश्वरी ।

यहाँ 'अनुपसर्जन' ग्रहण इसलिये है कि—वहुकुरुचरा; वहुमद्रचरा मथुरा इत्यादि से ढीप् न हो। यहाँ टित् आदि अदन्त शब्दों से टाप् प्राप्त है, इसलिये उसका अपवाद यह सूत्र समझना चाहिये ॥ ३५ ॥

वा०—नञ्ज्ञनजीकवर्ख्युस्तरुणतलुनानामुपसङ्ख्यानम् ॥ ३६ ॥

नञ् सञ् ईकक् ख्युन् इन प्रत्ययान्त शब्दों, और तरुण तलुन शब्दों से खीविषय में ढीप् प्रत्यय होते। जैसे—नञ्—ख्येणी; सञ्—पौस्ती; ईकक्—शाक्तिकी, याष्ठिकी; ख्युन्—आढ़शङ्करणी, सुभगङ्करणी; तरुणी; तलुनी इत्यादि।

यहाँ भी तदंत प्रातिपदिकों से टाप् ही प्राप्त है, उसका अपवाद यह भी वार्तिक है ॥ ३६ ॥

यजश्च ॥ ३७ ॥ अ० ४ । १ । १६ ॥

खीलिङ्ग में वर्तमान यञ् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से ढीप् प्रत्यय हो। जैसे—गार्गी; वात्सी इत्यादि। यहाँ गर्ग और वत्स शब्दों से यञ् प्रत्यय हुआ है ॥ ३७ ॥

वा०—अपत्यग्रहणं कर्त्तव्यम् ॥ ३८ ॥

जिस यञ् प्रत्यय का पूर्व सूत्र में ग्रहण है, वह अपत्याधिकार का यञ् समझना। क्योंकि द्वैष्याः सिकताः ॥ इत्यादि, यहाँ ढीप् न हो जाते ॥ ३८ ॥

१० यहाँ शैविक यञ् प्रत्यय ( द्वीपादनुसमुद्रं यञ् ) इससे हुआ है, इसलिये ढीप् न हुआ, उत्सर्गं टाप् हो गया ॥

प्राचां षकस्तद्वितः ॥ ३६ ॥ अ० ४ । १ । १७ ॥

खीलिहृ में वर्तमान यज् प्रत्ययान्तं प्रातिपदिकों से प्रानीन आचार्यों के मत में तद्वितसंब्रक षक प्रत्यय हो । जैसे—गार्थायणी; वात्स्यायनी इत्यादि । औरों के मत में—गार्णी; वात्सी ॥ ३६ ॥

सर्वत्र लौहितादिकतन्तेभ्यः ॥ ४० ॥ अ० ४ । १ । १८ ॥

जो लौहित आदि कत पर्यन्त गर्गादिगणपठित अकारान्तं शब्द हैं, उन से तद्वित-संब्रक षक प्रत्यय होता है । जैसे—लौहितादि—लौहित्यायनी; शांशित्यायनी; वाभ्रव्यायणी । कतन्त—कात्यायनी इत्यादि ॥ ४० ॥

कौरव्यमाण्डूकाभ्याच्च ॥ ४१ ॥ अ० ४ । १ । १६ ॥

कौरव्य और माण्डूक प्रातिपदिकों से तद्वितसंब्रक षक प्रत्यय हो । जैसे—कौरव्यायणी; माण्डूकायनी इत्यादि ॥ ४१ ॥

वा०—आसुरेहुपसङ्ख्यानम् ॥ ४२ ॥

आसुरि शब्द से भी तद्वितसंब्रक षक प्रत्यय हो । जैसे—आसुरायणी ।

यहां आसुरि शब्द में अपत्यसंब्रक इज् प्रत्यय हुआ है । पूर्व (प्राचां षक०) इस सूत्र में 'तद्वित' ग्रहण का प्रयोजन भी यही है कि आसुरि शब्द के इकार का लोप होजावे ॥ ४२ ॥

वयसि प्रथमे ॥ ४३ ॥ अ० ४ । १ । २० ॥

जो प्रथम अवस्था विद्वित होती हो, तो अकारान्तं प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय हो । जैसे—कुमारी; निशोरी; कलभी; वर्करी ।

यहां 'प्रथम अवस्था' ग्रहण इसलिये है कि—स्थविरा; वृद्धा इत्यादि से डीप् न हो । 'अकारान्त' से इसलिये कहा है कि—शिशुः, यहां डीप् प्रत्यय न हो ॥ ४३ ॥

वा०—वयस्यचरम इति वक्तव्यम् ॥ ४४ ॥

सूत्र से प्रथमावस्था में जो डीप् कहा है, वहां चरम अर्थात् वृद्धाऽवस्था को छोड़ के कहना चाहिये । जैसे—ववृटी; चिरणटी । ये प्रात्ययोवन द्वितीय अवस्था के नाम हैं । प्रथमाऽवस्था के कहने से यहां प्राप्ति नहीं थी ॥ ४४ ॥

\* यहां षक प्रत्यय के पिन् होने से तदन्त से दीप् प्रत्यय हो जाता है ॥

द्विगोः ॥ ४५ ॥ अ० ४ । १ । २१ ॥

त्रीलिङ्ग में वर्तमान द्विगुसंज्ञक अदलत प्रातिपदिकों से ढीप् प्रत्यय हो ।  
जैसे—पञ्चमूर्ती; दशमूर्ती; अष्टाव्यार्या इत्यादि ।

यहां ‘अत्’ ग्रहण इसलिये है कि—पञ्चवलिः, यहां डीप् न हो ॥ ४५ ॥

अपरिमाणविस्ताचितकस्वल्येभ्यो न तद्वितलुकि ॥ ४६ ॥

अ० ४ । १ । २२ ॥

यहां तद्वित का लुक् हुआ हो, वहां त्रीलिङ्ग में वर्तमान अपरिमाणान्त विस्तान्त आचितान्त और कम्बल्यान्त द्विगु प्रातिपदिकों से ढीप् प्रत्यय न हो । जैसे—पञ्चमिरव्यैः  
क्रीता पञ्चाश्वा, दशाश्वा, द्विवर्षा, त्रिवर्षा, द्विशता, त्रिशता; द्विविस्ता, त्रिविस्ता;  
द्वयचिता, त्र्यचिता; द्विकम्बल्या, त्रिकम्बल्या ।

यहां ‘अपरिमाण’ ग्रहण इसलिये है कि—द्व्याढकी, त्र्याढकी, यहां निषेध न हो ।  
‘तद्वितलुक्’ इसलिये है कि—पञ्चाश्वी, यहां भी होजावे ॥ ४६ ॥

कापडान्तात्क्षेत्रे ॥ ४७ ॥ अ० ४ । १ । २३ ॥

तद्वित का लुक् हुआ हो, तो क्षेत्रवाची त्रीलिङ्ग में वर्तमान कारड शन्दान्त द्विगु  
प्रातिपदिक से ढीप् प्रत्यय न हो । जैसे द्वे कारडे प्रमाणमस्याः सा द्विकारडा ।

‘क्षेत्र’ इसलिये कहा है कि—द्विकारडी रज्जुः, यहां निषेध न हो । ‘कारड’ शब्द  
के अपरिमाणवाची होने से पूर्वसूत्र से ही निषेध हो जाता, फिर क्षेत्रग्रहण नियमार्थ  
है ॥ ४७ ॥

पुरुषात् प्रमाणेऽन्यतरस्याम् ॥ ४८ ॥ अ० ४ । १ । २४ ॥

जो तद्वित का लुक् हुआ हो, तो प्रमाण ऋर्थ में त्रीलिङ्ग में वर्तमान पुरुषान्त द्विगु  
प्रातिपदिक से ढीप् प्रत्यय चिकल्प करके होवे । जैसे—द्वौ पुरुषो प्रमाणमस्याः  
परिखायाः सा द्विपुरुषा, द्विपुरुषीः त्रिपुरुषा, त्रिपुरुषी ॥ ४८ ॥

यहां ‘प्रमाण’ ग्रहण इसलिये है कि—द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता द्विपुरुषा; त्रिपुरुषा,  
यहां चिकल्प करके डीप् न हो । और ‘तद्वितलुक्’ इसलिये है कि—द्विपुरुषी;  
त्रिपुरुषी, यहां समाहार में निषेध न होवे ॥ ४८ ॥

० यहां अपरिमाणान्त सुत्य शब्द से निय ही निषेध प्राप्त है, इसलिये यह अप्राप्त विमापा  
समझनी चाहिये ॥

वहुब्रीहेरूधसो डीषु ॥ ४६ ॥ अ० ४ । १ । २५ ॥

खीलिङ्ग में वर्तमान ऊधस् शब्दान्त वहुब्रीहि प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय हो । जैसे—घट इव ऊधो यस्याः सा घटोधीः कुण्डोधीः ।

यहां 'वहुब्रीहि' ग्रहण इसलिये है कि—प्राता ऊधः प्रासोधाः, यहां न हुआ ॥ ४६ ॥

सङ्ख्याऽव्ययादेर्भिप् ॥ ५० ॥ अ० ४ । १ । २६ ॥

संख्या और अव्यय जिस के आदि में हों, ऐसा जो खीलिङ्ग में वर्तमान ऊधस् शब्दान्त वहुब्रीहि प्रातिपदिक है, उस से डीप् प्रत्यय हो । जैसे—संख्या—द्वयभीः द्वयोधी । अव्यय—अत्यूधीः निस्तभी ।

यहां 'आदि' ग्रहण से द्विविधोधीः चिविधोधी इत्यादि से भी डीप् होजाता है ॥ ५० ॥

दामहायनान्ताच्च ॥ ५१ ॥ अ० ४ । १ । २७ ॥

संख्या जिस के आदि में, दामन तथा हायन अन्त में हों, ऐसे खीलिङ्ग में वर्तमान वहुब्रीहि प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय होते । जैसे—द्वेदाम्नी यस्याः सा द्विदाम्नी वडवाः चिदाम्नी । द्विहायनीः चिह्नायणीः चतुर्हायणी । इत्यादि ।

( कच्चिदेकदेशो० ) इस परिभाषा के प्रमाण से यहां अव्यय की अनुवृत्ति नहीं आती ॥ ५१ ॥

अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् ॥ ५२ ॥ अ० ४ । १ । २८ ॥

जो अन्नन्त उपधालोपी वहुब्रीहि प्रातिपदिक है, उससे खीलिङ्ग में विकल्प करके डीप् प्रत्यय हो । जैसे—यहुराजा, वहुराजी, वहुराजे; वहुतक्षा, वहुतक्षी, वहुतक्षे + ।

'अन्नन्त' ग्रहण इसलिये है कि—वहुमत्स्या, यहां डीप् न हो । और 'उपधालोपी' इसलिये है कि—सुपर्वा, सुपर्वाणी, सुपर्वाणः इत्यादि में न हो ॥ ५२ ॥

+ ऊधस् गाय आदि के ऐन को कहते हैं, कि जो दूध का स्थान है । इस ऊधस् शब्द से लब समासान्त 'नहू' प्रत्यय होने से अन्नन्त हो जाता है, तब ( अनो वहू० ) इस पूर्वलिखित सूत्र से ढाप् और निषेध प्राप्त होता है, उसका यह अपवाद है ॥

+ यहां हायन शब्द अवस्या अर्थ में समझना चाहिये, सो चेतन के साथ न्तस्वर्वत्य रखती है, इसीलिये द्विहायना शाला इत्यादि में दीप् नहीं होता ॥

+ यहां अन्नन्त वहुब्रीहि प्रातिपदिकों से पृष्ठ में ( इतुभान्या० ) इस उक्त सूत्र से ढाप् प्रत्यय विकल्प करके हो जाता है । इन दो विकल्पों के होने से तीन प्रयोग हो जाते हैं ॥

नित्यं संज्ञाद्वन्दसोः ॥ ५३ ॥ अ० ४ । १ । २६ ॥

खीलिङ्ग में वर्त्तमान अन्तन्त उपधालोपी वहुव्रीहि प्रातिपदिक से संज्ञा और वेद-विषय में डीप् प्रत्यय नित्य ही होवे । जैसे—संज्ञा में—सुराही; अतिराही नाम आमः । छन्द में—गौः पञ्चदास्त्री; द्विदास्त्री; एकदास्त्री; एकमूर्धी; समानमूर्धी ।

पूर्वसूत्र में जो विकल्प है, उसके नित्यविधान के लिये यह अपचाद सूत्र है । जहां संज्ञा और वैदिकप्रयोग न होवें, वहां डीप् न होगा । जैसे—सुराजा इत्यादि ॥ ५२ ॥

केवलमासकभागधेयपापापरसमानार्थ्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च ॥ ५४ ॥

अ० ४ । १ । ३० ॥

जो खीलिङ्ग में वर्त्तमान केवल मासक भागधेय पाप अपर समान आर्थकृत सुमङ्गल और भेषज शब्द हों, तो इन प्रातिपदिकों से संज्ञा और वेदविषय में डीप् प्रत्यय हो । जैसे—केवली; मासकी; मित्रावशण्योर्भिर्गधेयी; पापी; उताऽपरीभ्यो मन्त्रवा विजिये; समानी; आर्थकृती; सुमङ्गली; भेषजी ।

जहां संज्ञा और वेदविषय न हों, वहां टाप् होकर केवला इत्यादि प्रयोग होगे ॥ ५५ ॥

रात्रेश्वाजसौ ॥ ५५ ॥ अ० ४ । १ । ३१ ॥

जस् विभक्ति से अन्यत्र खीलिङ्ग में वर्त्तमान रात्रि शब्द से संज्ञा और वेदविषय में डीप् प्रत्यय हो । जैसे—या रात्री सृष्टा; रात्रीभिः ।

‘जस् में निषेध’ इसलिये है कि—यास्ता रात्रयः, यहां डीप् न होवे ॥ ५५ ॥

वा०—अजसादिष्विति वक्तव्यम् ॥ ५६ ॥

केवल जस् के परे जो डीप् का निषेध किया है, सो जस् आदि के परे निषेध करना चाहिये । जैसे—रात्रि सहोषित्वा इत्यादि से भी डीप् न होवे ॥ ५६ ॥

अन्तर्वृत्पतिवतोर्नुक् ॥ ५७ ॥ अ० ४ । १ । ३२ ॥

खीलिङ्ग में वर्त्तमान वैदिक प्रयोगों में अन्तर्वृत् और पतिवत् शब्द से डीप् और नुक् का आगम भी हो ॥ ५७ ॥

का०—अन्तर्वृत्पतिवतोस्तु मतुवृत्वे निपातनात् ।

गर्भिण्यां जीवत्पत्यां च वा छन्दसि तु नुग्भवेत् ॥ ५८ ॥

अन्तर्वर्त् शब्द में मतुप् और पतिवर्त् शब्द में मतुप् के मकार को नकारादेश निपातन किया है। तथा अन्तर्वर्त् शब्द से गर्भिणी अर्थ में, और पतिवर्त् शब्द से जिस का पति जीता हो, वहाँ वैदिक प्रयोग विषय में विकल्प करके नुक् और डीप् नित्य ही होवे। जैसे—सान्तर्वती देवानुपैत्, सान्तर्वती देवानुपैत्; पतिवती तरुणवत्सा, पतिवती तरुणवत्सा ॥ ५८ ॥

**पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ॥ ५६ ॥ अ० ४ । १ । ३३ ॥**

जो यह का संयोग हो, तो खीलिङ्ग में वर्तमान पति शब्द को नकारादेश और डीप् प्रत्यय हो। जैसे—यज्ञमानस्य पत्नी, पत्नि वाचं यच्छ्रु ।

यहाँ 'यज्ञसंयोग' इसलिये कहा है कि—ग्रामस्य पतिरियं ब्राह्मणी, यहाँ न हो ॥ ५६ ॥

**विभाषा सपूर्वस्य ॥ ६० ॥ अ० ४ । १ । ३४ ॥**

जो खीलिङ्ग में वर्तमान पूर्वपद सहित पति शब्द हो, तो उस को नकारादेश विकल्प करके हो। डीप् तो नकारान्त के होने से सिद्ध ही है। जैसे—वृद्धपतिः, वृद्धपत्नीः स्यूलपतिः, स्यूलपत्नी, जीवपतिः, जीवपत्नी ।

यहाँ 'सपूर्व' ग्रहण इसलिये है कि—पतिरियं ब्राह्मणी ग्रामस्य, यहाँ डीप् न हुआ ॥ ६० ॥

**नित्यं सपत्न्यादिषु ॥ ६१ ॥ अ० ४ । १ । ३५ ॥**

खीलिङ्ग में वर्तमान सपत्नी आदि प्रातिपदिकों में पति शब्द को नकारादेश नित्य ही निपातन किया है। जैसे—समानः पतिरस्याः सा सपत्नीः एकपत्नी, वीरपत्नी इत्यादि ॥ ६१ ॥

**पूतक्रतोरैच् ॥ ६२ ॥ अ० ४ । १ । ३६ ॥**

खीलिङ्ग में वर्तमान पूतकतु शब्द से डीप् और उस को ऐकारादेश भी होवे जैसे—पूतकतोः खी पूतकतायी ।

यहाँ से लेके तीन सूत्रों में जो प्रत्ययविधान है, सो पुंयोग अर्थात् उस खी के साथ पुष्पसंवन्ध की विवक्षा हो तो होवे। जैसे—यया हि पूतः क्रतवः पूतकतुः सा भवति यहाँ पुंयोग की विवक्षा नहीं, इस से डीप् न हुआ ॥ ६२ ॥

\* यह अप्राप्तविभापा इसलिये समझनी चाहिये कि यज्ञसंयोग की अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आती, अन्य किसी से नुक् पाता नहीं ॥

वृषाकथ्यस्मिन्नुसितकुर्सीदनामुदाच्चः ॥ ६३ ॥ अ० ४ । १ । ३७ ॥

ब्रीलिङ्ग और पुरुष के योन में वृषाकथ्य अस्मि नुसित और कुर्सीद शब्दों को ऐकारादेश, और इन से डीप् प्रत्यय हो, और वह डीप् प्रत्यय उदाच्च भी होवे। जैसे—वृषाकथ्यः ल्वी वृषाकथायी; अस्मः ल्वी अश्वायी; नुसितस्य ल्वी नुसितायी; कुर्सीदस्य ल्वी कुर्सीद्रायी।

यहां 'पुंयोग' इसलिये है कि—वृषाकथ्यः ल्वी इत्यादि में डीप् न हो ॥ ६३ ॥

मनोरौ वा ॥ ६४ ॥ अ० ४ । १ । ३८ ॥

पुंयोग में और ल्वीलिङ्ग में वर्चमान मनु प्रातिपदिक से विकल्प करके डीप् प्रत्यय होवे, और मनु शब्द को ओकार, और पक्ष में ऐकारादेश हो, और वह उदाच्च भी हो जावे। जैसे—मनोः ल्वी मनायी, मनावी, मनुः, वे तीन प्रयोग होते हैं ॥ ६४ ॥

वर्णादनुदाच्चतोपधात्तो नः ॥ ६५ ॥ अ० ४ । १ । ३९ ॥

जो ल्वीलिङ्ग में वर्चमान वर्णवाची अनुदाच्च तकारोपध प्रातिपदिक हैं, उन से विकल्प करके डीप्, और उन के तकार को नकारादेश भी होवे। जैसे—एता, एती, श्येता, श्येतीः द्विरिता, द्विरिती ।

यदां 'वर्णवाची से' इसलिये कहा है कि—प्रहृता, यदां डीप् और नकार न होवे। 'अनुदाच्च' इसलिये है कि—श्वेता, यदां न हो। 'तोपध' इसलिये है कि—अन्य प्रातिपदिक से डीप् न हो। उदन्त की अनुवृत्ति इसलिये आती है कि—शित्रिव्राह्मणी, यदां न हो ॥ ६५ ॥

वा०—पिशङ्गादुपसङ्ग्यानम् ॥ ६६ ॥

पिशङ्ग शब्द तोपध नहीं है, इस कारण डीप् नहीं पाता था, इसलिये इसका उपसङ्ग्यान है। पिशङ्ग शब्द से भी ल्वीलिङ्ग में डीप् होवे। जैसे—पिशङ्गी ॥ ६६ ॥

वा०—असितपलिनयोः प्रतिपेधः ॥ ६७ ॥

असित और पतित प्रातिपदिकों से डीप् और इनके तकार को नकारादेश न होवे। सूत्र से पाया था, उस का नियेधन्तप यह अपवाद है। जैसे—असिताः पलिता ॥ ६७ ॥

— यद अदासविभाग इन प्रकार है कि जो कार्य इन सूत्र से होते हैं, वे किसी से प्राप्त नहीं ॥

## वा०-छन्दसि क्रमेके ॥ ६८ ॥

वेद में अस्ति और पलिन शब्द के तकार के स्थान में क्रम् आदेश और ढीप् प्रत्यय हो, पेसी इच्छा कोई आचार्य करते हैं। जैसे—असिक्ती; पलिक्ती ॥ ६८ ॥

## अन्यतो डीप् ॥ ६९ ॥ अ० ४ । १ । ४० ॥

तोपध से भिन्न अनुदात्त वर्णवाची अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप् प्रत्यय हो। जैसे—सारङ्गी; कलमार्पी; शवली इत्यादि।

यहां 'अनुदात्त' ग्रहण इसलिये है कि—कृष्णः कपिला इत्यादि से न हो ॥ ६९ ॥

## षिद्गौगादिभ्यश्च ॥ ७० ॥ अ० ४ । १ । ४१ ॥

स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान अकारान्त पित् और गौर आदि प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय होते। जैसे—नर्तकी; स्तनकी; रजकी। गौरी; मत्सी; शृङ्गी इत्यादि ॥ ७० ॥

## जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककवराद् वृत्त्य- मत्राऽवपनाकृत्रिमाश्राणस्थौल्यवर्णानाच्छादनाऽयोविकारमैथु- नेच्छाकेशवेशेषु ॥ ७१ ॥ अ० ४ । १ । ४२ ॥

स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान अकारान्त जानपद आदि ११ न्यारह शब्दों से वृत्ति आदि न्यारह (११) अर्थों में यथासंख्य करके डीप् प्रत्यय होते।

जैसे—जानपदी वृत्तिः; जानपदी रीतिः (यहां डीप् होने से स्वर में भेद हो जाता है)। कुण्डी (अमृतपात्रम्) अन्यत्र कुण्डा। गोणी (आवपन अर्थात् माप हो तो) अन्यत्र गोणा। स्तली (अकृत्रिमा भूमि:) अन्यत्र स्तला। भाजी (श्राण=पकाने के योग्य शाक) अन्यत्र भाजा। नारी (स्थौल्यम्=अति मोटी हो तो) अन्यत्र नारा। काली (जो वर्षा हो) अन्यत्र काला। नीली (जो बल हो) नहीं तो नीला शाटी। कुरी (जो लोहे का कुछ विकार हो) नहीं तो कुशा। कामुकी (जो मैथुन की इच्छा रस्ती हो) नहीं तो कामुका। कवरी (जो वालों का सम्हालना हो) नहीं तो कवरा ॥ ७१ ॥

## वा०-नीलादोपधौ ॥ ७२ ॥

नील शब्द से ओपधि अर्थ में भी डीप् प्रत्यय होते। जैसे—नीली ओपधिः ॥ ७२ ॥

## वा०-प्राणिनि च ॥ ७३ ॥

प्राणी अर्थ में भी नील शब्द से डीप् प्रत्यय होते। जैसे—नीली गौः; नीली वडचा, नीली गवयी इत्यादि ॥ ७३ ॥

वा०—वा संज्ञायाम् ॥ ७४ ॥

संद्वा अर्थ में विकल्प करके डीप् प्रत्यय हो । जैसे—नीली, नीला इत्यादि ॥ ७४ ॥

शोणात्प्राचाम् ॥ ७५ ॥ अ० ४ । १ । ४३ ॥

प्राचीन आचार्यों के मत में श्रीलिङ्ग में वर्चमान शोण प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय होते, अन्य आचार्यों के मत में नहीं । जैसे—शोणी, शोणा वडवा ॥ ७५ ॥

बोतो गुणवचनात् ॥ ७६ ॥ अ० ४ । १ । ४४ ॥

छार्लिंग में वर्चमान गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय विकल्प करके होते जाते । जैसे—पट्टी, पट्टः, सूर्ढी, सृष्टुः इत्यादि ।

‘उद्’ ग्रहण इसलिये है कि—शुचि:, यदां डीप् न हो । ‘गुणवचन’ ग्रहण इसलिये है कि—आखु:, यदां न हो ॥ ७६ ॥

वा०—गुणवचनान्डीवायुदात्तार्थम् ॥ ७७ ॥

गुणवचन प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि डीप् के हीने से अन्तोदात्त सर प्रात है, सो आयुदात्त होते । जैसे—वसी; तन्वी इत्यादि ।

यह विधान सर्वत्र नहीं, किन्तु जहां आयुदात्त प्रयोग आवे थहाँ ॥ ७७ ॥

वा०—खरुसंयोगोपधानां प्रतिषेधः ॥ ७८ ॥

खह और संयोग जिस की उपधा में हो, ऐसे गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिकों से श्रीलिंग में डीप् प्रत्यय न हो । जैसे—खरुरियं व्राक्षरणी; पारङ्गुरियं व्राक्षरणी इत्यादि ॥ ७८ ॥

वह्नादिभ्यश्च ॥ ७९ ॥ अ० ४ । १ । ४५ ॥

श्रीलिंग में वर्चमान वह आदि प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे—वही, वहुः, पद्मती, पद्मतिः, अङ्गती, अङ्गतिः इत्यादि ॥ ७९ ॥

नित्यं छन्दसि ॥ ८० ॥ अ० ४ । १ । ४६ ॥

बेद में यह आदि शब्दों से डीप् प्रत्यय नित्य ही हो । जैसे—घर्वीपु हित्वा प्रपित्रन् । वही नाम ओपधी भवति ॥ ८० ॥

भुवश्च ॥ द९ ॥ अ० ४ । १ । २७ ॥

वेद में भू प्रतिपदिक से डीप् प्रत्यय हो । जैसे—विभवी चः प्रभवी चः सुभवी च इत्यादि ॥ ८६ ॥

पुंयोगादाख्यतायाम् ॥ द१ ॥ अ० ४ । १ । २८ ॥

पुंसा योगः पुंयोगः । श्लीलिंग में वर्चमान मुख्य के योग के कठन में प्रतिपदिकों से डीप् प्रत्यय हो । जैसे—गणकत्व र्हा गणकीः महामात्रीः प्रष्टीः प्रचरी इत्यादि ।

यहाँ ‘पुंयोग’ अहल इस्तिये है कि—इवदत्ता, यहाँ डीप् न हो ॥ ८७ ॥

वा०—गोपालिकादीनां प्रतिपेधः ॥ द३ ॥

पुंयोग के कथन में गोपालिका आदि शब्दों से डीप् प्रत्यय न हो । जैसे—गोपात्-कात्य खी गोपालिका; पशुपालिका इत्यादि ॥ ८८ ॥

वा०—सूर्यादेवतायां चाद् वर्तव्यः ॥ द४ ॥

सूर्य शब्द से देवता श्रद्धे में चाद् प्रत्यय हो । जैसे—सूर्यस्य खी देवता सूर्यो ।

यहाँ ‘देवता’ अहल इस्तिये है कि—सूरी, यहाँ न हो ॥ ८९ ॥

इन्द्रवरुणभवर्षरुद्रमृडहिमारण्यवयवनमातुलाऽचार्याणामातुक् ॥ द५ ॥ अ० ४ । १ । २३ ॥

श्लीलिंग में वर्चमान इन्द्रादि वारह ( १३ ) प्रतिपदिकों से डीप् प्रत्यय, और इन्द्र आदि शब्दों को आतुक् का आगम ना हो । जैसे—इन्द्रस्य खी इन्द्रारीः वरदानीः भवानीः श्वरीरीः रुद्रारीः चृदारीः चृदारी ॥ ९० ॥

वा०—हिमारण्ययोर्महत्वे ॥ द६ ॥

श्लीलिंग में वर्चमान हिम और अरण्य प्रतिपदिकों से नहत्व श्रद्धे में डीप् प्रत्यय और आतुक् का आगम हो । जैसे—महदिवं दिमानीः नहदरण्यमरण्यानी ॥ ९१ ॥

— यहाँ इन्द्रादि शब्दों से ईंधेन मैं टीप् प्रत्यय को दृढ़े दृढ़े से प्राप्त हो हूँ, केवल आतुक् का आगम होने हे रिये यह सत्र है । उस दृढ़े से जानान्य श्रद्धे से कल्पे दिवान है, इस्तिये दिम आदि एः शब्दों से किये अद्यों में आदिकों से दियान किया है ॥

## वा०-यवादोषे ॥ ८७ ॥

स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान यव प्रातिपदिक से दुष्टता अर्थ में डीप् प्रत्यय और आनुक् का आगम हो। जैसे—दुष्टो यवो यवानी ॥ ८७ ॥

## वा०-यवनाल्लिङ्घाम् ॥ ८८ ॥

स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान यवन प्रातिपदिक से लिपि अर्थ में डीप् प्रत्यय और आनुक् का आगम होवे। जैसे—यवनानी लिपि: ॥ ८८ ॥

## वा०-उपाध्यायमातुलाभ्यां वा ॥ ८९ ॥

स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान उपाध्याय और मातुल प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय और आनुक् का आगम विकल्प करके होवे। जैसे—उपाध्यायानी, उपाध्यायीः मातुलानी, मातुली ॥ ८९ ॥

## वा०-आचार्यादण्ठत्वं च ॥ ९० ॥

यहां पूर्व वार्त्तिक से विकल्प की अनुवृत्ति चली आती है। स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान आचार्य प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय और आनुक् का आगम भी विकल्प करके होवे, और आनुक् के नकार को एन्ड प्राप्त है सो न हो। जैसे—आचार्यानी, आचार्यी। यहां पज्ज में टाप् प्रत्यय हो जाता है ॥ ९० ॥

## वा०-अर्चर्यक्षत्रियाभ्यां वा ॥ ९१ ॥

यहां किरणिकल्प ग्रहण इसलिये है कि एन्ड की अनुवृत्ति न आवे।

स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान अर्चर्य और ज्ञात्रिय प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय और आनुक् का आगम विकल्प करके होवे। जैसे—अर्चर्याणी, अर्चर्या: ज्ञात्रियाणी, ज्ञात्रिया ॥ ९१ ॥

## वा०-सुद्धलाच्छब्दसि लिच्च ॥ ९२ ॥

स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान सुद्धल प्रातिपदिक से वैदिक प्रयोग विषय में डीप् प्रत्यय और आनुक् का आगम हो। और डीप् प्रत्यय लित् भी हो जावे। जैसे—रथीरभून्सुद्ध-गलानी गविष्टी ॥ ९२ ॥

## क्रीतात् करणपूर्वात् ॥ ९३ ॥ अ० ४ । १ । ५० ॥

स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान करणकारकवाची पूर्वपदयुक्त क्रीत शब्दान्त प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय ही। जैसे—चन्द्रेष्व क्रीता सा वस्त्रकीर्तः वसनकीर्तीः रथकीर्तीः इत्यादि।

\* इस वार्तिक में उपाध्याय शब्द से अपूर्व विधान और मातुल शब्द तो सूत्र में पढ़ा ही है ॥

† यहां से केवल दोनों वार्तिक अपूर्व विधायक इसलिये हैं कि अर्चर्यादि शब्द सूत्र में नहीं पढ़े हैं ॥

यहाँ 'करत्ता' कारक का ग्रहण इसत्तिये हैं कि—त्रैवदत्तकीता, इत्यादि से ढीप्त न हो। १३॥

कादृत्पास्वायाम् ॥ ६४ ॥ अ० ४ । १ । ५१ ॥

ब्रीतिक्ष में वर्तमान अल्पाल्पा अर्थे में करत्तकारक जिस के पूर्व हो ऐसे कान्त प्रातिपदिक से ढीप् प्रत्यय हो। जैसे—अभ्रविलिती थी; सूर्यविलिती स्याली इत्यादि।

यहाँ 'अल्पाल्पा' ग्रहण इसत्तिये हैं कि—चन्द्रनाऽनुलिप्ता ब्राह्मणी, इत्यादि से ढीप् न होवे। १४॥

वहुत्रीहेश्वान्तोदात्तात् ॥ ६५ ॥ अ० ४ । १ । ५२ ॥

ब्रीतिक्ष में वर्तमान वहुत्रीहि समात में अन्तोदात्त चान्त प्रातिपदिक से ढीप् प्रत्यय हो। जैसे—शंखो भिष्ठो यवासाशंखभिन्नी; ऊरुभिन्नी; गतोङ्कुर्ची; केशलूनी इत्यादि।

यहाँ 'वहुत्रीहि' ग्रहण इसत्तिये हैं कि—पद्म्यां परिवा पादपरिवा, यहाँ ढीप् प्रत्यय न होवे। १५॥

वा०—अन्तोदात्ताजातप्रतिषेधः ॥ ६६ ॥

अन्तोदात्त वहुत्रीहि प्रातिपदिकों से जो ढीप् कहा है, सो जात शब्द जिस के अन्त में उस प्रातिपदिक से न हो। यह चार्चिक स्वर का निषेषहृष्प अपवाद है। जैसे—दन्तजाता; स्वनजाता इत्यादि। १६॥

वा०—पाणिगृहीत्यादीनामर्थविशेषे ॥ ६७ ॥

विशेष अर्थात् वहाँ वेदोऽकर्त्ति से पाणिग्रहण अर्थात् विवाह किया जावे, वहाँ पाणिगृहीती आदि शब्दों में ढीप् प्रत्यय होवे। जैसे—पाणिगृहीती भाव्यो।

अंत वहाँ किसी प्रकार पाणिग्रहण करत्तेवे वहाँ पाणिगृहीताऽनन्त ही प्रयोग होवे। १७॥

वा०—अवहुनन्त्रसुकालसुम्ब्रादिपूर्वादिति वक्तव्यम् ॥ ६८ ॥

सुन् १५ में जो अन्तोदात्त वहुत्रीहि प्रातिपदिक से ढीप् कहा है, सो यदि वहु नन्त्र सुकाल और सुम्ब्रादि शब्द पूर्व हो तो न हो। जैसे—यह—वहुकृता। नन्त्र—अकृता। सु—सुकृता। काल—मासजाता; संवत्सरजाता। सुम्ब्रादि—सुम्ब्रजाता; दुम्ब्रजाता इत्यादि। १८॥

अस्वाहापूर्वपदाद्वा ॥ ६९ ॥ अ० ४ । १ । ५३ ॥

ब्रीतिक्ष में वर्तमान स्वांग पूर्वपद से भिन्न अन्तोदात्त कान्त वहुत्रीहि समाप्तयुक्त प्रातिपदिक से विकल्प करके ढीप् प्रत्यय होवे। जैसे—शार्ङ्गज्ञायो; शार्ङ्गज्ञाया; पलाशहु-भद्रिती; पलाशहुभद्रिता; सुरार्पीती; सुरार्पीता।

यहां 'अस्वांग' पूर्वपद इसलिये है कि—दन्तभिन्नी, यहां विकल्प न हो। और 'अन्तोदात्त' इसलिये है कि—वबृद्धव्याप्ता, यहां डीष् न हो ॥ ६६ ॥

### वा०—वहुलं संज्ञाक्षन्दसोः ॥ १०० ॥

संज्ञा और वैदिकप्रयोग विषय में वर्तमान क्षप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से वहुल करके डीष् प्रत्यय होते। जैसे—प्रवृद्धविलूप्ता, प्रवृद्धविलूप्ता। प्रवृद्धा चासौ विलूप्ता चेति नायं वहुव्रीहि। यहां वहुव्रीहि समाप्त नहों किन्तु कर्मधारय है ॥ १०० ॥

### स्वाङ्गच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् ॥ १०१ ॥ अ० ४ । १ । ५४ ॥

यहां वहुव्रीहि अन्तोदात्त चान्त ये तीन पद तो छूट नये, परन्तु एक विकल्प की अनुवृत्ति आती है।

त्रीलिङ्ग में वर्तमान जिस के स्वांगवाची उपसर्जन संयोगोपध से भिन्न प्रातिपदिक अन्त में हो उस से डीष् प्रत्यय विकल्प करके होते। जैसे—चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा; अतिकान्ता केशानिकेशी, अतिकेशा माला।

यहां 'स्वांग' अहरा इसलिये है कि—वहुयवा ॥। 'उपसर्जन' इसलिये है कि—अशिष्वा। और 'असंयोगोपध' ग्रहण इसलिये है कि—सुगुल्फः सुपाश्चां, यहां डीष् न हुआ ॥ १०१ ॥

### वा०—अङ्गान्तकरण्ठभ्य इति वक्तव्यम् ॥ १०२ ॥

पूर्व सूत्र से संयोगोपध के निषेध से अङ्ग आदि का निषेध प्राप्त है, उस का अपवादविधायक यह वार्त्तिक है।

हर्तिलिंग में वर्तमान जो स्वांगवाची उपसर्जन अंग गान्त और करण प्रातिपदिक हैं, उनसे डीष् प्रत्यय हो। जैसे—मृदंगी, मृदंगाः सुगान्ती, सुगान्ताः निर्गंधकरणी, निर्गंधकरणा इत्यादि ॥ १०२ ॥

### नासिकोदरौष्टजङ्घादन्तकरणशृङ्खाच्च ॥ १०३ ॥ अ० ४ । १ । ५५ ॥

विकल्प की अनुवृत्ति यहां भी आती है। त्रीलिंग में वर्तमान वहुव्रीहि समाप्त में जिस के अन्त में स्वांगसंहक उपसर्जन अर्थात् अप्रधानार्थवाची नासिका, उदर, ओष्ठ, जंगा, दन्त, कर्ण वा अङ्ग शब्द हो, उस प्रातिपदिक से डीष् प्रत्यय विकल्प करके होते।

\* यहां स्वांग उस को कहते हैं कि जिस समाप्त समुदाय प्रातिपदिक से प्रत्ययविधान हो उस के वाच्य अर्थ का लो गरीरावृप्त छोड़ देते। जैसे—विग्रोषी, विन्ध्य के समान जिस के श्रोष होते हैं। यहां ओष्ठ स्वांग है, हस्तका विशेष स्वाल्पान महानाम्य में है ॥

\* इस सूत्र में नासिका और उदर दो शब्दों से तो वहुत् के होने से अगले सूत्र से डीष् का निषेध प्राप्त और ओष्ठ आदि शब्दों से संयोगोपध के होने से डीष् का निषेध पाता है। उन दोनों का विधायक यह अपवाद सूत्र है ॥

जैसे—तुंगनासिकी, तुंगनासिका; कृशोदरी, कृशोदरा; विम्बोष्ट्री, विम्बोष्ट्रा; दीर्घ-जंघी, दीर्घजंघा; समदन्ती, समदन्ता; चारुकर्णी, चारुकर्णा; तीचणशृङ्खी, तीचणशृङ्खा। इत्यादि ॥ १०३ ॥

### वा०-पुच्छाच्च ॥ १०४ ॥

पुच्छ शब्द भी संयोगोपध स्वांगवाची है, इस कारण निषेध का वाधक यह शार्चिक है। पुच्छान्त स्वांगवाची प्रातिपदिक से विकल्प करके डीप् प्रत्यय होते। जैसे—कल्याणपुच्छी, कल्याणपुच्छा ॥ १०४ ॥

### वा०-कवरमणिविषशरेभ्यो नित्यम् ॥ १०५ ॥

कवर मणि विषे और शर शब्दों से परे जो स्वांगवाची पुच्छ प्रातिपदिक उस से खीलिङ्ग में नित्य ही डीप् प्रत्यय हो। जैसे—कवरपुच्छी, मणिपुच्छी; विषपुच्छी, शरपुच्छी। इत्यादि ॥ १०५ ॥

### वा०-उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च ॥ १०६ ॥

उपमानवाची शब्दों से परे जो स्वांगवाची पक्ष और पुच्छ प्रातिपदिक उन से नित्य ही डीप् प्रत्यय हो। जैसे—उलूकपक्षी सेना; उलूकपुच्छी शाला। इत्यादि ॥ १०६ ॥

### न क्रोडादिबहूचः ॥ १०७ ॥ अ० ४ । १ । ५६ ॥

कोड आदि प्रातिपदिक और बहुत अच् जिस में हों, ऐसे प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय न होते। जैसे—कल्याणकोड़ा; कल्याणखुरा; कल्याणशाला; कल्याणशफा। बहूच्—पृथुजग्ना. महाललाटा। इत्यादि ॥ १०७ ॥

### सहनञ्चविद्यमानपूर्वाच्च ॥ १०८ ॥ अ० ४ । १ । ५७ ॥

सह नञ्च विद्यमान ये हों पूर्व जिसके। उस स्वांगवाची खीलिङ्ग में वर्त्तमान प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय न हो ॥ जैसे—सकेशा; अकेशा. विद्यमानकेशा; सनासिका. अनासिका; विद्यमाननासिका। इत्यादि ॥ १०८ ॥

### नखमुखात्संज्ञायाम् ॥ १०९ ॥ अ० ४ । १ । ५८ ॥

खीलिंग में वर्त्तमान नखान्त और मुखान्त प्रातिपदिकों से डीप् प्रत्यय न हो। जैसे—शर्पणखा; घज्राखा; गोरमुखा; कालमुखा।

‘संज्ञा’ ग्रहण इसलिये है कि—ताम्रमुखी कन्या, यहाँ डीप् हो ॥ १०९ ॥

दीर्घजिह्वी च छन्दसि ॥ ११० ॥ अ० ४ । १ । ५६ ॥

वेद में 'दीर्घजिह्वी' निपातन किया है। जैसे—दीर्घजिह्वी वे देवानां हव्यमस्तेषु । 'दीर्घजिह्वी' शब्द नित्य डीप् होने के लिये निपातन किया है ॥ ११० ॥

दिक्पूर्वपदान्डोप् ॥ १११ ॥ अ० ४ । १ । ६० ॥

दिक् पूर्वपद हो जिस के उस स्वांगवाची स्त्रीलिंग में वर्तमान प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय हो। जैसे—प्राद्यमुखीः प्रत्यद्यमुखीः; प्राङ्मासिकी इत्यादि ॥ १११ ॥

वाहः ॥ ११२ ॥ अ० ४ । १ । ६१ ॥

वाहन्त प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय होते। जैसे—दित्योहीः प्रष्टोहीः विज्ञोही इत्यादि ॥ ११२ ॥

सख्याशश्वीति भाषायाम् ॥ ११३ ॥ अ० ४ । १ । ६२ ॥

भाषा अर्थात् लोकिकः प्रयोग विषय में सर्वी और अशिष्वी वे दोनों डीप् प्रत्ययान्त निपातन किये हैं। जैसे—सखीयं मे ब्राह्मणीः नास्याः शिशुरस्तीति अशिष्वी ।

यहाँ 'भाषा' ग्रहण इसलिये है कि—सखे सत्पर्दा भव, यहाँ न हो ॥ ११३ ॥

जातेरखीविषयाद्योपधात् ॥ ११४ ॥ अ० ४ । १ । ६३ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान जो यकारोपधवर्जित जातिवाची अकारान्त और नियत स्त्रीलिंग न हो, ऐसे प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय होते। जैसे—कुकुर्तीः सूकरीः ब्राह्मणीः बृपलीः; नाडायनीः चारायणीः वहवृची ।

यहाँ 'जाति' ग्रहण इसलिये है कि—मुरडा। 'अखीविषय' इसलिये है कि—मक्षिका। 'अयोपथ' इसलिये है कि—क्षत्रिया; वैश्या। 'अनुपसर्जन' ग्रहण इसलिये है कि—वहुकुकुटा; वहुसूकरा, इससे डीप् न हुआ ॥ ११४ ॥

वा०—यापधप्रतिषेधे हयगवयमुक्यमत्स्यमनुष्याणामप्रतिषेधः ॥ ११५ ॥

यकारोपध का निषेध जो सूत्र से किया है, वहाँ हय गवय मुक्य मत्स्य और मनुष्य प्रातिपदिकों का निषेध न होते, अर्थात् इनसे डीप् प्रत्यय हो। जैसे—हयी; गवर्णी; मुक्यी; मत्सी; मनुषी ॥ ११५ ॥

पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च ॥ ११६ ॥ अ० ४ । १ । ६४ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान जिस प्रातिपदिक के उत्तरपद पाक आदि शब्द हो, उससे डीप् प्रत्यय हो। जैसे—ओदनपाकीः सुद्गपर्णीः पट्पर्णीः शङ्खपुष्पीः वहुफली; इमेमूली; गोबाली ॥ ११६ ॥

**वा०-सद्चकारणप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात्प्रतिषेधः ॥ ११७ ॥**

सत् अंचु कारण प्रान्त शत एक इन प्रातिपदिकों से परे जो खीलिंग में वर्तमान पुष्प प्रातिपदिक उस से डीप् प्रत्यय न हो ।

सब ११६ से प्राप्त है, उसका विशेष शब्दों के योग में निषेध किया है । जैसे— सत्पुष्पा; प्राक्पुष्पा, प्रत्यक्पुष्पा; कारणपुष्पा; प्रान्तपुष्पा, शतपुष्पा; एकपुष्पा ॥११७॥

**वा०-सम्भव्याजिनशणपिण्डेभ्यः फलात् ॥ ११८ ॥**

सम् भव्य अजिन शण और पिण्ड शब्दों से परे जो फल प्रातिपदिक उस से डीप् प्रत्यय न हो । यहां सर्वत्र डीप् का निषेध होने से टाप् हो जाता है ।

जैसे—समफला; भव्यफला; अजिनफला, शणफला, पिण्डफला ॥ ११८ ॥

**वा०-श्वेताच्च ॥ ११९ ॥**

श्वेत शब्द से परे जो फल उससे भी डीप् न हो । जैसे—श्वेतफला ॥ ११९ ॥

**वा०-त्रेश्च ॥ १२० ॥**

त्रि शब्द से परे जो फल उससे भी डीप् न हो । जैसे—त्रिफला ॥ १२० ॥

**वा०-मूलान्नञ्जः ॥ १२१ ॥**

नञ्ज से परे जो मूल प्रातिपदिक उससे भी डीप् प्रत्यय न होते । जैसे—न मूल-मस्याः सा अमूला इत्यादि ॥ १२१ ॥

**‘इतो मनुष्यजातेः ॥ १२२ ॥ अ० ४ । १ । ६५ ॥**

खीलिङ्ग में वर्तमान मनुष्यजातिवाची इकारान्त प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय हो । जैसे—अवन्ती; कुन्ती; दाक्षी; साक्षी इत्यादि ।

यहां ‘इकारान्त’ ग्रहण इसलिये है कि—विद्व; दरत्, यहां डीप् न होते । ‘मनुष्य’ ग्रहण इसलिये है कि—तित्तिरिः, यहां न हो । और पूर्वसूत्र से जाति की अनुवृत्ति चली आती, फिर ‘जाति’ ग्रहण का प्रयोजन यह है कि—यकारोपध से भी डीप् प्रत्यय हो जावे, जैसे—ओदमेयी इत्यादि ॥ १२२ ॥

**वा०-इञ्ज उपसङ्ख्यानमजात्यर्थम् ॥ १२३ ॥**

जाति के न होने से खीलिंग में वर्तमान इञ्ज प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से डीप् प्रत्यय कहना चाहिये । जैसे—सौतङ्गी; मौनचित्ती \* इत्यादि ॥ १२३ ॥

\* सुतङ्गम आदि प्रातिपदिकों से चातुर्थिक प्रकरण का इञ्ज प्रत्यय है, इस कारण जाति नहीं ॥

ऊङ्गुतः ॥ १२४ ॥ अ० ४ । १ । ६६ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान मनुष्यजातिवाची उकारान्त प्रातिपदिक से ऊङ्गु प्रत्यय होवे । जैसे—कुरुः; व्रह्मवन्धूः; वीरवन्धूः ।

यकारोपथ के निषेध की अनुवृत्ति यहां आती है, इसी कारण अध्वर्द्युव्रद्धिरणी, इत्यादि में ऊङ्गु प्रत्यय नहीं होता ॥ १२४ ॥

वा०-अप्राणिजातेश्वारज्वादीनाम् ॥ १२५ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान अप्राणिजातिवाची [उकारान्त] प्रातिपदिक से ऊङ्गु प्रत्यय होवे, परन्तु रज्जु आदि प्रातिपदिकों से न हो । जैसे—अलावूः; कर्कन्धूः ।

यहां 'अप्राणि' ग्रहण इसलिये है कि—कुकवाकुः; यहां न हो । और 'श्वरज्वादि' ग्रहण इसलिये है कि—रज्जुः; हनुः; इत्यादि से ऊङ्गु न हो ॥ १२५ ॥

वाहून्तात्संज्ञायाम् ॥ १२६ ॥ अ० ४ । १ । ६७ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान वाहू शब्दान्त प्रातिपदिक से संज्ञाविषय में ऊङ्गु प्रत्यय होवे । जैसे—भद्रवाहूः; जालवाहूः ।

यहां 'संज्ञा' ग्रहण इसलिये है कि—वृत्तवाहूः; सुवाहूः; इत्यादि से न होवे ॥ १२६ ॥  
पङ्कोश्र ॥ १२७ ॥ अ० ४ । १ । ६८ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान पंगु प्रातिपदिक से ऊङ्गु प्रत्यय होवे । जैसे—पंगुः ॥ १२७ ॥

वा०-श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च वक्तव्यः ॥ १२८ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान श्वशुर शब्द से ऊङ्गु प्रत्यय और उस के उकार अकार का स्रोप हो जावे । जैसे—श्वश्रः ।

यहां किसी से ऊङ्गु प्राप्त नहीं, इसलिये यह वार्त्तिक अपूर्वविधायक है ॥ १२८ ॥

ऊरुन्तरपदादौपम्ये ॥ १२९ ॥ अ० ४ । १ । ६९ ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान ऊरु उच्चरपद में है जिस के, उस प्रातिपदिक से उपमान-अर्थ में ऊङ्गु प्रत्यय होवे । जैसे—कदलीस्तम्भ इबोरु अस्याः स्त्रियाः सा कदलीस्तम्भोरुः; नागनासोरुः ।

यहां 'ओपम्य' ग्रहण इसलिये है कि—वृत्तोरुः स्त्री, यहां न होवे ॥ १२९ ॥

संहितशफलक्षणवामादेश्च ॥ १३० ॥ अ० ४ । १ । ७० ॥

स्त्रीलिंग में वर्तमान संहित शफलक्षणवाम शब्द जिस के आदि में हो, ऐसे ऊरु-चर प्रातिपदिक से ऊङ्गु प्रत्यय होवे । जैसे—संहितोरुः; शफोरुः; लक्षणोरुः; वामोरुः ।

यहां उपमान अर्थ नहीं है, इसलिये इस सूत्र का पृथक् आरम्भ है, नहीं तो पूर्व सूत्र से ही हो जाता ॥ १३० ॥

**वा०-सहितसहाभ्यां च ॥ १३१ ॥**

खीलिंग में वर्त्तमान सहित और सह शब्द से परे जो ऊरु प्रातिपदिक उस से ऊरु प्रत्यय होते। जैसे—सहितोरुः; सहोरुः इत्यादि ॥ १३१ ॥

**कदुकमरण्डल्वोश्छन्दसि ॥ १३२ ॥ अ० ४ । १ । ७१ ॥**

खीलिंग में वर्त्तमान कदु और कमरण्डलु प्रातिपदिकों से वैदिक प्रयोग विषय में ऊरु प्रत्यय होते। जैसे—कद्रुञ्च वै सुपर्णी च; मा स्म कमरण्डलुं शदाय दद्यात् ।

यहां ‘छन्दो’ ग्रहण इसलिये है कि—कद्रुः; कमरण्डलुः; यद्यां न हो ॥ १३२ ॥

**वा०-गुगुलुमधुजतुपतयालूनामुपसङ्ख्यानम् ॥ १३३ ॥**

खीलिंग में वर्त्तमान वैदिक प्रयोगविषय में गुगुलु मधु जतु और पतयालु प्रातिपदिकों से ऊरु प्रत्यय होते। जैसे—गुगुलुः; मधूः; जतूः; पतयालुः ॥ १३३ ॥

**संज्ञायाम् ॥ १३४ ॥ अ० ४ । १ । ७२ ॥**

खीलिंग में वर्त्तमान संज्ञाविषय में कद्रु और कमरण्डलु प्रातिपदिकों से ऊरु प्रत्यय होते। जैसे—कद्रुः; कमरण्डलुः ।

यहां ‘संज्ञा’ इसलिये है कि—कद्रुः; कमरण्डलुः; यद्यां ऊरु न होते ॥ १३४ ॥

**शार्ङ्गरवाद्यज्ञो डीन् ॥ १३५ ॥ अ० ४ । १ । ७३ ॥**

खीलिंग में वर्त्तमान जाति अर्थ में शार्ङ्गरव आदि और अज् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीन् प्रत्यय होते। जैसे—शार्ङ्गरवी; कापटवी। अजन्त—वैदी; ओर्बी ।

यहां जाति की अनुच्छेदित आने से पुंयोग में प्रात डीप् का वाधक यह सूत्र नहीं होता। जैसे—वैदस्य खी वैदी, यहां डीप् होता ही है ॥ १३५ ॥

**यडश्चाप् ॥ १३६ ॥ अ० ४ । १ । ७४ ॥**

खीलिंग में वर्त्तमान जातिवाची यड् प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से चाप् प्रत्यय होते। जैसे—आम्रष्ट्या; सौवीर्या; कारीपगन्ध्या; वाराहा इत्यादि ॥ १३६ ॥

**वा०-षाच्च यजेष्वा ॥ १३७ ॥**

खीलिंग में वर्त्तमान जो पकार से परे यज् तदन्त प्रातिपदिक से चाप् प्रत्यय होते। जैसे—शार्कराद्या; पौतिमाप्या; गौकज्या इत्यादि ॥ १३७ ॥

आवद्याच्च ॥ १३८ ॥ अ० ४ । १ । ७५ ॥

द्वीपिंग में वर्तमान जातिवाची आवद्य शब्द से चाप प्रत्यय होवे । जैसे—  
आवद्या ॥ १३८ ॥

तद्विताः ॥ १३९ ॥ अ० ४ । १ । ७६ ॥

यह अधिकार सूत्र है । पञ्चमाऽध्याय पर्यन्त इसका अधिकार जायगा । इससे आगे  
जो २ प्रत्यय विद्यान करें, सो २ तद्वितसंब्रक जानने चाहियें ॥ १३९ ॥

चूनस्तिः ॥ १४० ॥ अ० ४ । १ । ७७ ॥

जो द्वीपिंग में वर्तमान युवन् शब्द से ति प्रत्यय होता है, वह तद्वितसंब्रक भी हो  
जावे । जैसे—युवतिः ॥ १४० ॥

अणिओरनार्पयोर्गुरुपोत्तसयोः ष्यड् गोत्रे ॥ १४१ ॥ अ० ४ । १ । ७८ ॥

जो द्वीपिंग में वर्तमान गोत्र अर्थ में विद्वित ऋषिभिन्न अणु और इन् हैं, ये  
जिनके अन्त में हों, ऐसे गुरुपोत्तम अर्थात् जो शूरीय आदि अन्त्यवर्ण के पूर्व गुरुसंब्रक  
र्खण्ड हों, उन प्रातिपदिकों के स्थान में ष्यड् आदेश हो, वह तद्वितसंब्रक भी हो जावे ।

जैसे—अणु—कर्णपत्न्येव गन्धोऽस्य स कर्णपगन्धिः; कुमुदगन्धिः । तस्य [अपत्यं]  
ली कारीपगन्ध्या; कोमुदगन्ध्या । इन्—वाराह्या; यालाक्ष्या ।

यद्यां 'अणु और इन्' इसलिये है कि—ऋतभागस्यापत्यं छी आर्तभारी, यद्यां  
विदादिकों से अन् हुआ है, इस कारण ष्यड् नहीं होता । 'अनार्प' इसलिये कहा है  
कि—वैशिष्ठी, वैश्वामित्री, यद्यां न हो । 'गुरुपोत्तम' ग्रहण इसलिये है कि—ओपगर्बी;  
कापटवी, यद्यां न हो । और 'गोत्र' इसलिये है कि—आहिच्छ्रव्नी, यद्यां न हो ॥ १४१ ॥

गोत्रावयवात् ॥ १४२ ॥ अ० ४ । १ । ७९ ॥

इस सूत्र का आरम्भ गुरुपोत्तम विशेषण न बढ़ने के लिये है ।

द्वीपिंग में वर्तमान गोत्र का अवयव अर्थात् गोत्राभिमतकुल में सुख्य पुणिक  
भुणिक और सुख्त आदि प्रातिपदिक से विद्वित जो गोत्र अर्थ में अणु और इन् हैं,

\* यह अवट शब्द गांडिकों में पड़ा है, इसलिये यन् प्रत्ययान्त से ढीप प्रत्यय (यनश्च) इस उक्त सूत्र  
से प्राप्त है उसका अवगाढ़ है । परन्तु ग्रन्थीन आचार्यों के मत में तो एक होता ही है । जैसे—आवद्यायनी ॥

१ यद्यां कर्णपत्न्येव शूरं कुमुदगन्धिय शब्दों से (तस्यापत्यन्) इस से अन् और वराह तथा  
वक्षका शब्दों से (अवहन्) इस आगामी सूत्र से इन् हुआ है ॥

उनके स्थान में घ्यङ् आदेश हो, वह तद्वितसंहक भी होवे । जैसे—पौरिक्ष्या; भौरिक्ष्या; मौखर्या इत्यादि ॥ १४२ ॥

**क्रौञ्ज्यादिभ्यश्च ॥ १४३ ॥ अ० ४ । १ । ८० ॥**

स्त्रीलिंग में वर्तमान क्रोडि आदि प्रातिपदिकों से घ्यङ् प्रत्यय, और उसकी तद्वित संज्ञा भी हो । जैसे—क्रोड्या; लाड्या; व्याड्या इत्यादि ॥ १४३ ॥

**दैवयज्ञशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाणठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् ॥ १४४ ॥**

अ० ४ । १ । ८१ ॥

गोष अर्थ में वर्तमान दैवयज्ञ शौचिवृक्षि सात्यमुग्रि और काणठेविद्धि प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में घ्यङ् प्रत्यय हो, उसकी तद्वितसंज्ञा भी हो ।

जैसे—दैवयज्ञा; शौचिवृक्ष्या; सात्यमुग्र्या; काणठेविद्ध्या ।

और पक्ष में ( इतो मनुष्यजातेः ) इस उक्त सूत्र से डीप् होता है । जैसे—दैवयज्ञी; शौचिवृक्षी; सात्यमुग्री; काणठेविद्धी इत्यादि ॥ १४४ ॥

इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् ॥

---+---+---+---+---

**समर्थनाम् प्रथमाद्वा ॥ १४५ ॥ अ० ४ । १ । ८२ ॥**

समर्थनाम् प्रथमात् वा इन तीन पदों का अधिकार करते हैं । इससे आगे जो २ प्रत्यय कहे हैं, वे समर्थीं की प्रथम प्रकृति से विकल्प करके होंगे, पक्ष में वाक्य भी बना रहे । यह अधिकार छः पाद अर्थात् पञ्चमाध्याय के द्वितीय पाद के अन्तपर्यन्त जावेगा । जैसे—उपगोरपत्यम् श्रौपगवः ।

यहाँ ‘समर्थनाम्’ इसलिये है कि—कम्बल उपगोरपत्य देवदत्तस्य, यद्यां उपगु शब्द से प्रत्यय नहीं होता । ‘प्रथमात्’ इसलिये है कि—पञ्चयन्त ही से होवे प्रथमान्त से नहीं हो । जैसे—उपगु से होता है, अपत्य से नहीं हो । ‘वा’ इसलिये है कि वाक्य भी बना रहे । जैसे—उपगोरपत्यम् ॥ १४५ ॥

**श्रागदीव्यतोऽण् ॥ १४६ ॥ अ० ४ । १ । ८३ ॥**

( तेन दीव्यतिं ) इस सूत्र पर्यन्त ‘अण्’ प्रत्यय का अधिकार करते हैं । यहाँ से आगे जो २ विद्यान करेंगे, वहाँ २ अपवाद विषयों को छोड़ के अण् ही प्रवृत्त होगा ।

जैसे—( वस्यापत्यम् ) यहां प्रत्यय विधाल किया है, सो अधिकार के होने से अलू ही होता है। जैसे—उपगोरपत्यम् औपगवः; कापटवः इत्यादि ॥ १४६ ॥

### अश्वपत्यादिभ्यश्च ॥ १४७ ॥ अ० ४ । १ । द४ ॥

प्रागदीव्यर्तीय अर्थों, अर्थात् ‘तेन दीव्यतिं’ इस सूत्र से पूर्व २ जो २ अर्थ विधान किये हैं, उन २ में अश्वपति आदि प्रातिपदिकों से अलू ही होते। जैसे—आश्वपतम्; शावपतम्; धानपतम्; गाणपतम् इत्यादि ॥ १४७ ॥

### दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्णग्यः ॥ १४८ ॥ अ० ४ । १ । द५ ॥

यहां भी प्रागदीव्यर्तीय की अनुबुचि आर्ती है। और यह सूत्र अलू का अपवाद है।

दिति अदिति आदित्य और पत्युत्तरपद प्रातिपदिक से प्रागदीव्यर्तीय अर्थों में तद्विवसंष्कक एव प्रत्यय होते। जैसे—दत्यः; आदित्यः; आदित्यम्। पत्युत्तरपद—प्राजा-पत्यम्; सैनापत्यम् इत्यादि ॥ १४८ ॥

### वा०—यमाच्च ॥ १४९ ॥

प्रागदीव्यर्तीय अर्थों में यम प्रातिपदिक से भी तद्विवसंष्कक एव प्रत्यय होते। जैसे—याम्यम् ॥ १४९ ॥

### वा०—वाङ्मतिपितृमर्ता छन्दस्युषसङ्ख्यानम् ॥ १५० ॥

प्रागदीव्यर्तीय अर्थों में वाङ् मति और पितृमत् प्रातिपदिकों से [ वैदिक प्रयोग विषय में ] तद्विवसंष्कक एव प्रत्यय होते। जैसे—वाच्यम्; मात्यम्; पैतृमत्यम् ॥ १५० ॥

### वा०—पृथिव्या जाजौ ॥ १५१ ॥

प्रागदीव्यर्तीय अर्थों में पृथिवी प्रातिपदिक से ज और अज् प्रत्यय होते। जैसे—पार्यिवा; पार्यिवी दे ॥ १५१ ॥

### वा०—देवाद्यजजौ ॥ १५२ ॥

प्रागदीव्यर्तीय अर्थों में देव प्रातिपदिक से यज् और अज् प्रत्यय होते। जैसे—देवम्; दैवम् ॥ १५२ ॥

\* पति जिनके उत्तरपद में हो उन प्रातिपदिकों से अगले सूत्र में एव प्रत्यय कहा है, उस का पुरस्ताद् अपवाद् यह सूत्र है।

\* यहां ज और अज् प्रत्ययों में दृवता ही भेद है कि वान्त से दीप् प्राप्त नहीं, और अनन्त से दौप् हो जाता है।

## वा०-वहिष्ठिलोपश्च ॥ १५३ ॥

प्रागदीव्यतीय अर्थों में वहिष् प्रातिपदिक से एव प्रत्यय और उस के टि का लोप भी होवे । जैसे—वहिर्भवो वाहाः ॥ १५३ ॥

## वा०-ईकक् च ॥ १५४ ॥

प्रागदीव्यतीय अर्थों में वहिष् प्रातिपदिक से ईकक् प्रत्यय और उसके टि का लोप भी होवे । जैसे—धाहीकः ॥ १५४ ॥

## वा०-ईकञ्ज् छन्दसि ॥ १५५ ॥

प्रागदीव्यतीय अर्थों में वैदिक प्रयोगविषयक वहिष् प्रातिपदिक से ईकञ्ज् प्रत्यय और उसके टि का लोप भी होवे । जैसे—वाहीकः \* ॥ १५५ ॥

## वा०-स्थान्नोऽकारः ॥ १५६ ॥

प्रागदीव्यतीय अर्थों में स्थान् शब्दान्त प्रातिपदिक से अकार प्रत्यय होवे । जैसे—अश्वत्यामः ॥ १५६ ॥

## वा०-लोम्नोऽपत्येषु वहुषु ॥ १५७ ॥

वहुत अपत्य वाच्य हों, तो लोमन् शब्दान्त प्रातिपदिक से अकार प्रत्यय हो जावे । जैसे—उडुलोम्नोऽपत्यानि उडुलोमाः; शरलोमाः इत्यादि ।

यहाँ ‘वहुत अपत्य’ ग्रहण इसलिये है कि—उडुलोम्नोऽपत्यम् औडुलोमिः; शारलोमिः यहाँ अकार प्रत्यय न होवे ॥ १५७ ॥

## वा०-सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत् ॥ १५८ ॥

सर्वत्र अर्थात् प्रागदीव्यतीय अर्थों में गो प्रातिपदिक से अण् आदि अजादि प्रत्यय की प्राप्ति में यत् प्रत्यय ही होवे । जैसे—गव्यम् ।

यहाँ ‘अजादिप्रसंग’ इसलिये कहा है कि—गोरूप्यम्; नोमयम्; इत्यादि में यत् न होवे ॥ १५८ ॥

## उत्सादिभ्योऽञ्ज् ॥ १५९ ॥ अ० ४ । १ । ८६ ॥

प्रागदीव्यतीय अर्थों में उत्स आदि प्रातिपदिकों से तद्वितर्णक अञ्ज् प्रत्यय होवे । जैसे—ओत्सः; ओदपानः; चंकरः इत्यादि ।

<sup>३०</sup> पूर्व चार्तिक में ईकक् और यहाँ ईकञ्ज् इन दो प्रस्तरों में केवल स्वर का ही भेद है । अर्थां लोक में अन्तोदात्त और चेद में आयुदात्त स्वर होता है ।

अग्नि और उस के अपवाहों का भी यह सूक्त अपवाह है ॥ १५६ ॥

**त्रिपुंसाभ्यां नयन्त्रवीं भवनात् ॥ १६० ॥ अ० ४ । १ । ८७ ॥**

( धान्यानां भवनेऽ ) इस सूक्त से पूर्व र सब अर्थों में वर्णी और पुंस् प्रातिपदिकों से वयस्संख्य करके तत्त्व और स्तन् प्रत्यय हों ।

जैसे—वर्णपुंसा भवम् व्यैषम्; पांस्तम् । वर्णभ्य आगतम् व्यैषम्; पांस्तम् । लिया प्रोक्तम् व्यैषम्; पांस्तम् । वर्णभ्यो द्वितम् व्यैषम्; पांस्तम् । इत्यादि ॥ १६० ॥

**द्विगोर्लुगनपत्ये ॥ १६१ ॥ अ० ४ । १ । ८८ ॥**

द्विगु का सम्बन्धी निमित्त, अर्थात् जिसको मानके द्विगु किया हो, उस अपत्यवर्जित प्राणदीन्यतीय वद्वितसंहक प्रत्यय का लुक् होते । जैसे—पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुणोडायः पञ्चकपालः; द्वौ वेदावर्धाते द्विवेदः; विवेदः ।

[यदां 'अतपत्य' प्रहर इसलिये है कि—द्वेष्वद्वचिः] इत्यादि में लुक् न हो ॥ १६१ ॥

**गोत्रेऽलुगचि ॥ १६२ ॥ अ० ४ । १ । ८९ ॥**

जो ( यस्कादिभ्यो गोत्रे ) इत्यादि सूक्तों से जित गोत्र प्रत्ययों का लुक् कह चुके हैं सो न हो, प्राणदीन्यतीय अजादिप्रत्यय परे हों तो । जैसे—गर्गाणां छात्राः गार्गायाः; चात्सीयाः; आत्रेयीयाः; चारपाचर्षीयाः ।

यदां 'गोत्र' [ प्रहर ] इसलिये है कि—कोवत्तम्; वादनम्; यदां निषेध न हो । और 'अत्रुं' प्रहर इसलिये है कि—गर्गेभ्य आगतं गर्गस्त्वम्; गर्गमयम्; यदां हलादि प्रत्ययों के परे लुक् होतावे ॥ १६२ ॥

**द्वनि लुक् ॥ १६३ ॥ अ० ४ । १ । ९० ॥**

जब प्राणदीन्यतीय अजादि प्रत्यय की विवज्ञा होते, तब युवापत्य अर्थ में विद्वित जो वद्वितसंहक प्रत्यय उसका लुक् हो, फिर जिस प्रछाति से जो प्रत्यय प्राप्त हो सो होते ।

जैसे—फाल्टाहृतस्यापत्यं फाल्टाहृतिः । तस्य युवापत्यम्, यदां ( फाल्टाहृतिनिम० ) इससे युवापत्य में न होकर=साल्टाहृतः । फाल्टाहृतस्य यूनश्वात्राः इस अर्थ की विवज्ञा होते हीं युवापत्य का लुक् होकर उस इत्य प्रत्ययान्त फाल्टाहृति प्रातिपदिक से ( इत्यत्र ) इस सूक्त से शैषिक अग्नि प्रत्यय हो जाता है=जैसे—फाल्टाहृतः ।

दधा मागविचस्यापत्यं भागविचिः, यदां प्रथम गोत्र में इत्र । तस्य मागविचरपत्यं सागवको भागविचिका, यदां युवापत्य में इत्र हुआ है । भागविचिकस्य यूनश्वात्राः, इस अर्थ की ओज्जा में यदां भी पूर्व के समान युव ग्रत्यय इत्र की जिवृत्ति होकर इत्यन्त

से अण् हो जाता है=जैसे—भागवित्ताः । [ तिकस्यापत्यं तैकायनिः । तस्य ] तैकायनेरपत्यं माणवकः तैकायनीयः । तैकायनीयस्य यूनशल्लाश्राः तैकायनीयाः, यहाँ युव प्रत्यय छ की निवृत्ति में फिज् प्रत्ययान्त तैकायनि ब्रुद्ध प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हुआ है, इत्यादि ।

यहाँ 'अजादि' के परे 'लोप' इसलिये कहा है कि—फारटाहतरूप्यम्; फारटाहतमयम्, यहाँ लुक् न हो । प्रादीव्यतीय अर्थों में लोप होता है, अन्यत्र नहीं—भागवित्तिकाय हितं भागवित्तिकीयम्, यहाँ न हो ॥ १६३ ॥

**फक्कफिजोरन्यतरस्याम् ॥ १६४ ॥ अ० ४ । १ । ६१ ॥**

जो प्रादीव्यतीय अर्थवाची अजादि प्रत्यय परे हों, तो फक्क और फिज् युवप्रत्ययों का लुक् विकल्प करके होवे ।

जैसे—गर्गस्यापत्यं गार्यः ( गर्ग शब्द से यन् ), तस्य युवापत्यम् ( तदन्त से फक् )=गार्यायणः, तस्य छात्राः, इस विवक्षा में फक् का लुक् गार्यायणः । और जिस पक्ष में लुक् न हुआ वहाँ गार्यायणीया; वात्सीयाः, वात्स्यायनीयाः इत्यादि । फिज्—यस्कस्पापत्यम् ( शिवादिकों से अण् ) यास्कः, तस्य युवापत्यम् ( अणन्त द्वयच् प्रातिपदिक से फिज् ) यास्कायनिस्तस्य छात्राः, इस विवक्षा में फिज् का विकल्प से लुक्=यास्कीयाः, यास्कायनीयाः इत्यादि ॥ १६४ ॥

**तस्यापत्यम् ॥ १६५ ॥ अ० ४ । १ । ६२ ॥**

समयों में प्रथम पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण् आदि प्रत्यय विकल्प करके होवें । जैसे—उपगोरपत्यम् औपगवः; आश्वपतः; देत्यः; श्रौत्सः; स्त्रैणः; पौस्तः इत्यादि ॥ १६५ ॥

**ओर्युणः ॥ १६६ ॥ अ० ६ । ४ । १४६ ॥**

जो तद्वितसंब्रक प्रत्यय परे हों, तो उवर्णान्त भसंब्रक अङ्ग को गुण हो । जैसे—उपगोरपत्यम् औपगवः इत्यादि ॥ १६६ ॥

**तद्वितेष्वचामादेः ॥ १६७ ॥ अ० ७ । २ । ११७ ॥**

जो त्रित् षित् और कित् तद्वितसंब्रक प्रत्यय परे हों, तो अचों के वीच में जो आदि अच् उसके स्थान में बृद्धि हो । जैसे—औपगवः; वाभ्रव्यः; मारुडव्यः इत्यादि ॥ १६७ ॥

**यस्येति च ॥ १६८ ॥ अ० ६ । ४ । १४८ ॥**

जो तद्वितसंब्रक प्रत्यय और ईकार परे हों, तो भसंब्रक इवर्ण और अवर्ण का लोप होवे । जैसे—ईकार—दाक्षी; साक्षी । तद्वित में इवर्ण का लोप—दौलेयः; धालेयः; आत्रेयः;

इत्यादिः अवर्ण का लोप—कुमारीः किशोरीः देव्यः आश्वपतःः श्रोत्सःः स्त्रैणःः पौस्त्न इत्यादि ॥ १६८ ॥

एक्षो गोत्रे ॥ १६६ ॥ अ० ४ । १ । ६३ ॥

तोत्र अर्थ में एक ही प्रत्यय होते, अर्थात् द्विर्तीय प्रत्यय न हो। तथा प्रकृति का नियम करना चाहिये कि जहाँ गोत्रापत्य की विवक्षा हो, वहाँ एक ही प्रथम सुख्य जिससे अपत्याधिकार में कोई प्रत्यय न हुआ हो, उससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो। जैसे—गार्यः नाडायनः इत्यादि ॥ १६६ ॥

गोत्राव्यून्यस्त्रियाम् ॥ १७० ॥ अ० ४ । १ । ९४ ॥

और जब युवापत्य की विवक्षा हो, तो गोत्रप्रत्ययान्त प्रकृति ही से दूसरा प्रत्यय होते। जैसे—गार्यस्य युवापत्यं नार्योयणः वान्स्यायनः दाक्षायणः साक्षायणः, यहाँ युवापत्य में ‘फक्त’ और औपनिधिः नाडायनिः, यहाँ युवापत्य में ‘इन्द्र’ हुआ है।

यहाँ ‘ली का नियेध’ इसलिये है कि—दाक्षी साक्षी, यहाँ गोत्रप्रत्ययान्त से लीप्रत्यय हुआ है ॥ १७० ॥

अत इन्द्र ॥ १७१ ॥ अ० ४ । १ । ९५ ॥

जो समर्थों का प्रथम पष्टीसमर्थ अकारान्त प्रातिपदिक है, उससे अपत्य अर्थ में इन् प्रत्यय विकल्प करके होते। जैसे—दक्षस्यापत्यं मालवको दाक्षिः दाशरथिः।

यह सूत्र अलू का अपवाद है। यहाँ ‘तपरकरण’ इसलिये है कि—शुभंयाः कीलालपाः, इत्यादि से ‘इन्द्र’ न हो, अर्थात् आकारान्त से नियेध हो जाय ॥ १७१ ॥

वाहादिभ्यश्च ॥ १७२ ॥ अ० ४ । १ । ९६ ॥

समर्थों के प्रथम पष्टी समर्थ वाहु आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में इन् प्रत्यय विकल्प करके होते। जैसे—वाहिः औपवाहिः इत्यादि ॥ १७२ ॥

सुधातुरकडुच ॥ १७३ ॥ अ० ४ । १ । ९७ ॥

समर्थों के प्रथम पष्टीसमर्थ सुधातुर प्रातिपदिक से इन् प्रत्यय विकल्प करके और उसको अकडु आदेश भी हो। जैसे—सुधातुरपत्पं सौधातकिः ॥ १७३ ॥

वा०-व्यासवरुडनिषादचण्डालविस्वानामिति वक्तव्यम् ॥ १७४ ॥

व्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल और विम्ब्र प्रातिपदिकों से इन् प्रत्यय होते। जैसे—

व्यासंस्यापत्यं माणवको वैयासकिः; वासुडकिः; नैपादकिः; चारडालकिः; वैम्बकिः \* इत्यादि ॥ १७४ ॥

**गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चकञ्ज् । ॥ १७५ ॥ अ० ४ । १ । ६८ ॥**

यह सूत्र इञ्ज् का अपवाद है। गोत्रसंब्रक अपत्य अर्थ में <sup>१</sup> प्रथम प्रकृति कुञ्ज आदि प्रातिपदिकों से चकञ्ज् प्रत्यय हो। जैसे—कुञ्जस्य गोत्रापत्यं कौञ्जायन्यः, कौञ्जायन्यौ, कौञ्जायनाः; व्राधनायन्यः, व्राधनायन्यौ, व्राधनायनाः इत्यादि।

यहां ‘गोत्र’ इसलिये कहा है कि—कुञ्जस्यानन्तरापत्यं कौञ्जिः, यहां अनन्तरापत्य में चकञ्ज् न हो। गोत्र का अधिकार ( शिवादिऽ ) इस सूत्रपर्यन्त जानना चाहिये ॥ १७५ ॥

**नडादिभ्यः फक् ॥ १७६ ॥ अ० ४ । १ । ६६ ॥**

यह सूत्र भी इञ्ज् का अपवाद है। नड आदि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य अर्थ में फक् प्रत्यय होते। जैसे—नडस्य गोत्रापत्यं ज्ञाडायनः; चारायणः इत्यादि।

यहां भी गोत्र की अनुवृत्ति आने से अनन्तरापत्य में नाडिः, [यहां] फक् नहीं होता, किन्तु इञ्ज् हो जाता है ॥ १७६ ॥

**हरितादिभ्योऽजः । + ॥ १७७ ॥ अ० ४ । १ । १०० ॥**

यह भी सूत्र इञ्ज् का ही अपवाद है, और जो शब्द हरितादिकों में अदन्त न हों उनसे अण् का अपवाद समझना चाहिये।

जो विदाद्यन्तर्गत अदन्त हरितादि प्रातिपदिक हैं, उनसे युवापत्य अर्थ में फक् प्रत्यय हो। जैसे—हरितस्य युवापत्यं हरितायनः; कैदासायनः इत्यादि ॥ १७७ ॥

\* इन व्यास आदि प्रातिपदिकों से अदन्तों के होने से इन् तो हो जाता, पर अकड़ आदेश होने के लिये यह वार्तिक पदा है ॥

+ यहां चकञ्ज् प्रत्यय में चकार का अनुवन्ध ( व्रातच्छलो० ) इस सूत्र में सम्बन्ध होने के और अकार वृद्धि के लिये है। और इन चकञ्ज् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ में यूप्रत्यय हो जाता है। उस यूप्रत्यय की तद्राजसंज्ञा होने से यहुवचन में लुक् हो जाता है।

+ विकल्प, समर्थों का प्रथम हन दो का अधिकार चृ. पाद में, और तद्वितसंज्ञा का अधिकार पंचमाद्याय पर्यन्त तथा पट्टीसमर्थ का अधिकार हसी पाद में जाता है। सो हन सब का प्रतिसूत्र में सम्बन्ध समझना चाहिये, अब बार २ नहीं लिखेंगे ॥

+ इस सूत्र में गोत्रापत्य की विवक्षा यों नहीं है कि हरितादिकों से प्रथम गोत्रापत्य में अण् विधान है, जिस दूसरा प्रत्यय गोत्रापत्य में नहीं हो सकता, किन्तु युवापत्य में ही होगा ॥

यजिजोश्च ॥ १७८ ॥ अ० ४ । १ । १०१ ॥

युवापत्य अर्थ में यजन्त और इजन्त प्रातिपदिकों से फक् प्रत्यय हो। जैसे—यजन्त—गार्यस्य युवापत्यं गार्यायणः; वात्स्यायनः। इजन्त से—दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि।

यह सूत्र यजन्त से इज् का और इजन्त से अण् का बाधक समझना चाहिये ॥ १७८ ॥

शारद्वच्छुनकदभाद् भृगुवत्साग्रायणेषु ॥ १७९ ॥ अ० ४ । १ । १०२ ॥

जो गोत्रापत्य अर्थ में भ्रगु, वत्स, आप्रायण ये अपत्य विशेष अर्थ वाच्य हों, तो यथा-संख्य करके शारद्वत् शुनक और दर्भ प्रातिपदिक से फक् प्रत्यय हो।

जैसे—शारद्वतायनः, जो भ्रगु का गोत्र हो, नहीं तो शारद्वतः। शौनकायनः, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो शौनकः। दार्भायणः, जो आप्रायण का गोत्र हो, नहीं तो दार्भः।

यह भी सूत्र अण् और इज् दोनों का अपवाद है ॥ १७९ ॥

द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् ॥ १८० ॥ अ० ४ । १ । १०३ ॥

द्रोण पर्वत और जीवन्त प्रातिपदिक से फक् प्रत्यय विकल्प करके होवे।

यह सूत्र इज् का ही अपवाद है। और एक विकल्प चला ही आता है, दूसरा ग्रहण इसलिये है कि—पक्ष में इज् प्रत्यय भी हो जावे। और यह अप्राप्त विभापा समझनी चाहिये। जैसे—द्रोणस्य गोत्रापत्यं द्रोणायनः, द्रौणिः; पार्वतायनः, पार्वतिः; जैवन्तायनः, जैवन्तिः ॥ १८० ॥

अनृष्ट्यानन्तर्ये विदादिभ्यो यज् \* ॥ १८१ ॥ अ० ४ । १ । १०४ ॥

गोत्रापत्य अर्थ में विद आदि प्रातिपदिकों से अन् प्रत्यय होवे। जैसे विदस्य गोत्रापत्यं वैदः; अौर्वः इत्यादि।

परन्तु विदादिगण में जो ऋषिवाची से भिन्न पुत्र आदि शब्द पढ़े हैं, उनसे अनन्त-रापत्य अर्थ ही में अन् प्रत्यय होवे। जैसे—पौत्रः; दोहित्रः; नानान्दः इत्यादि।

यह सूत्र भी इज् आदि प्रत्ययों का अपवाद है ॥ १८१ ॥

गर्गादिभ्यो यज् ॥ १८२ ॥ अ० ४ । १ । १०५ ॥

- यह सूत्र भी अण् आदि प्रत्ययों का ही अपवाद है।

\* इस प्रकरण में अपत्य तीन प्रकार के समझने चाहिये—अर्थात् गोत्रापत्य, युवापत्य और अनन्त-रापत्य। हन्में से गोत्रापत्य और युवापत्य का अन् हस्ती प्रकरण में व्याख्यान किया है। अनन्तरापत्य पिता की अपेक्षा में पुत्र को फहते हैं कि जिसमें कुछ अन्तर नहीं होता। सो इस विदादिगण में जो ऋषिवाची प्रातिपदिक हैं, उन्हीं से गोत्रापत्य में हो, अन्य प्रातिपदिकों से अनन्तरापत्य में अन् होता है॥

गोत्रापत्य अर्थ में गर्व आदि प्रातिपदिकों से यज् प्रत्यय होवे । जैसे—नार्यः; वात्स्यः; वैयाक्रपदः इसादि ॥ १८२ ॥

**मधुवभ्रोत्राह्वरणकौशिकयोः ॥ १८३ ॥ अ० ४ । १ । १०६ ॥**

ब्राह्मण और कौशिक गोत्रापत्य अर्थ बाच्य हों, तो मधु और वभ्रु प्रातिपदिकों से यज् प्रत्यय होवे । जैसे—मधोर्गोत्रापत्यं माधव्यः; जो ब्राह्मण होवे, नहीं तो माधवः । शार्वव्यः, जो कौशिक होवे, नहीं तो वाभ्रवः ॥ १८३ ॥

**कपिवोधादाङ्गिरसे ॥ १८४ ॥ अ० ४ । १ । १०७ ॥**

आङ्गिरस गोत्रापत्य विशेष अर्थ में कपि और दोध प्रातिपदिक से यज् प्रत्यय होवे । जैसे—कपयेगोत्रापत्यं काण्यः; वौध्यः, जो अङ्गिरा का गोत्र होवे । नहीं तो कापेयः; वौधिः, यहां ढक् और इज् प्रत्यय हो जाते हैं ।

और इन्हीं दोनों का यह अपवाद भी है ॥ १८४ ॥

**वतपडाच्च ॥ १८५ ॥ अ० ४ । १ । १०८ ॥**

आङ्गिरस गोत्रापत्य विशेष अर्थ में वतरड प्रातिपदिक से यज् प्रत्यय होवे । जैसे— वतरडस्य गोत्रापत्यं वातरव्यः, यहां भी जो अङ्गिरा का गोत्र होवे । नहीं तो वातरडः, यहां अलू हो जाता है ।

ओरु अलू का ही अपवाद यह सूत्र भी है ॥ १८५ ॥

**लुक् त्वियाम् ॥ १८६ ॥ अ० ४ । १ । १०९ ॥**

जहां अङ्गिरसी त्वीवाच्य रहे, वहां वतरड शब्द से विद्वित यज् प्रत्यय का लुक् होवे ।

जब लुक् हो जाता है, तब शार्ङ्गरवादि गति में पढ़ने से डीन प्रत्यय हो जाता है । जैसे—वतरडी, जो अङ्गिरा के गोत्र की त्वी होवे । नहीं तो वातरव्यायनी × यहां प्ल प्रत्यय हो जाता है ॥ १८६ ॥

**अश्वादिभ्यः फज् ॥ १८७ ॥ अ० ४ । १ । ११० ॥**

यह सूत्र अलू और इज् का ही वाधक है ।

इस यह सूत्र अर्थ का अपवाद है । और वभ्रु शब्द गरांडि के अन्तर्गत लोहितादिकों में पढ़ा है, यहां पढ़ने से इससे चौलिङ्ग में प्ल प्रत्यय हो जाता है । जैसे—दान्त्रव्यायामी । और इस सूत्र में इस वभ्रु शब्द का पाठ नियमार्थ है कि कौशिक गोत्र में ही यज् प्रत्यय हो, अन्यत्र नहीं ॥

× यह वतरड शब्द गरांडि के अन्तर्गत लोहितादिकों में पढ़ा है, इस वाच्य इससे छीगोत्र में प्ल प्रत्यय होके यह प्रयोग होता है । और वतरड शब्द यिवादिगाय में भी पढ़ा है, इससे चौलिङ्ग में वातरडी भी प्रयोग होता है ॥

गोचापत्य अर्थ में अन्न आदि प्रातिपदिकों से कज्ज् प्रत्यय होते । जैसे—अस्वस्य गोचापत्यम् आवायतः; आश्मायतः; शास्त्रायतः इत्यादि ॥ १८३ ॥

**भर्गात् चेगते ॥ १८८ ॥ अ० ४ । १ । १११ ॥**

यह केवल इन् का ही अपवाद है । भर्ग प्रातिपदिक से गोचापत्य चेगत्त अर्थ में कज्ज् प्रत्यय होते । जैसे—भर्गस्य गोचापत्य भारायणः, जो विनर्त्त का गोत्र हो । नहीं तो यार्णिः, [ यहाँ ] इन् प्रत्यय हो जाते ॥ १८८ ॥

**शिवादिभ्योऽण् ॥ १८९ ॥ अ० ४ । १ । ११२ ॥**

यहाँ से गोत्र की निवृत्ति होती है । अब सामान्यापत्य में प्रत्ययविधान करेंगे । यह सूत्र इन् आदि का अपवाद वयायोग्य समझना चाहिये ।

अपत्य अर्थ में शिव आदि प्रातिपदिकों से अन् प्रत्यय होते । जैसे—शिवस्य गोचापत्यं शैवः; प्रौष्ठः; प्रौष्ठिकः ॥ इत्यादि ॥ १८९ ॥

**अबृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तत्त्वामिकाभ्यः ॥ १९० ॥ अ० ४ । १ । ११३ ॥**

यह सूत्र इन् प्रत्यय का अपवाद है । अपत्य अर्थ में अबृद्ध नदी मानुषीवाचक तत्त्वामक प्रातिपदिकों से अन् प्रत्यय होते । जैसे—यमुनाया अपत्यं यमुनाः इरावत्या अपत्यम् एरावतः; वैतस्तः; नार्मदः इत्यादि ।

यहाँ ‘बृद्ध से निषेद्य’ इसलिये है कि—चान्द्रसामान्याया अपत्यं चान्द्रसामोयः; वासवदत्तेयः, इत्यादि में अन् न हुआ । ‘नदी मानुषी’ इसलिये कहा है कि—सौपर्णेयः; वैतत्तेयः, यहाँ अन् न होते । और ‘तत्त्वामिका’ ग्रहण इसलिये है कि—श्रीमन्नाया अपत्यं श्रीमन्नेयः, यहाँ भी न हो ॥ १९० ॥

**क्षुप्यन्धकबृष्णिकुरुस्यथ ॥ १९१ ॥ अ० ४ । १ । ११४ ॥**

यह सूत्र इन् का अपवाद है । अपत्य अर्थ में क्षुपिवाची वसिष्ठ आदि तथा अन्धक बृष्णि कुरुवंशवाची प्रातिपदिकों से अन् प्रत्यय हो ।

५० वडन् शब्द शिवादिगण में पढ़ा है, उससे ( उदीचामिल ) इस आगामी सूत्र से उत्तरदेशीय आचारों के नाम में इन् प्राप्त है, उसका वाधक होने के लिये । परन्तु यह प्रत्यय का वाधक नहीं होता । जैसे—ताच्छः; ताच्छेयः । और गहा यज्ञ इस गण में पढ़ा है, यहाँ उससे अन्, तिकादि होने से किंव आर शुश्राविगण में पढ़े से इन् प्रत्यय हो जाते हैं । इस प्रकार तीन प्रयोग होते हैं । जैसे—गाहूः; गाहूप्रयिः; गाहूदेयः । तथा दिवाया यज्ञ यहाँ और कृष्णादिगण में भी पढ़ा है, इससे उसके दो प्रयोग होते हैं । जैसे—वैपाशः; वैपाशायन्यः ॥

जैसे—[ ऋषि:— ] वसिष्ठस्थाऽपत्यं वासिष्ठः; वैश्वामिन्द्रः। अन्धकः—श्वाफलकः; रान्धसः। बृहस्पितिः—वासुदेवः; आनिरुद्धः। कुरु—नाकुलः; साहदेवः ॥१६३॥

**मातुरुत्संख्यासम्भद्रपूर्वायाः ॥ १६२ ॥ अ० ४ । १ । ११५ ॥**

इस मात्र प्रान्तिपदिक से अण् तो प्राप्त ही है, उकारादेश होने के लिये यह सूत्र है। अपत्य अर्थ में संख्या, सम् और भद्रपूर्वक मातृशब्द को उत् आदेश और अण् प्रत्यय भी हो। जैसे—द्वयोर्मात्रोरपत्यं द्वैमातुरः; त्रैमातुरः; पात्रमातुरः; साम्मातुरः; भाद्रमातुरः ॥

यहाँ 'संख्या आदि' का ग्रहण इसलिये है कि—सौमात्रः, यहाँ केवल अण् ही हुआ है ॥ १६२ ॥

**कन्यायाः कनीन च ॥ १६३ ॥ अ० ४ । १ । ११६ ॥**

यह सूत्र ढक् का अपवाद है। अपत्य अर्थ में कन्या शब्द से अण् प्रत्यय और उसको कनीन आदेश भी होते। जैसे—कन्याया अपत्यं कनीनः ॥ १६३ ॥

**विकर्णशुद्धच्छगलाद्वत्सभरद्वाजाऽत्रिषु ॥ १६४ ॥ अ० ४ । १ । ११७ ॥**

यह सूत्र इत्र् का अपवाद है। यथा संख्य करके वत्स भरद्वाज और अत्रि अपत्य घात्य हों, तो विकर्ण शुद्ध और छगल प्रान्तिपदिक से अण् प्रत्यय हो।

जैसे—विकर्णस्यापत्यं वै कर्णः, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो वैकर्णः। शौक्षः, जो भरद्वाज का गोत्र हो, नहीं तो शौक्षः। छगलः, जो आचेय गोत्र हो, नहीं तो छगलः। यहाँ सर्वत्र पक्ष में इत्र् प्रत्यय होता है ॥ १६४ ॥

**पीलाया वा ॥ १६५ ॥ अ० ४ । १ । ११८ ॥**

द्वयच् पीला प्रान्तिपदिक से ढक् प्राप्त है, उसका यह अपवाद है। और पक्ष में ढक् भी होता है। और इसको अप्राप्त विभाषा समझना चाहिये, क्योंकि अण् किसी से प्राप्त नहीं है। अपत्य अर्थ में पीला प्रान्तिपदिक से अण् प्रत्यय होते। जैसे—पीलाया अपत्यं पैलः; पक्ष में ढक्-पैलेयः ॥ १६५ ॥

\* यहाँ संशय होता है कि शब्द तो सब निय है, फिर अन्धक आदि वर्णों के आश्रय से इनका व्याख्यान कैसे बन सकता है, क्योंकि वंश तो अनिय है। ( उत्तर ) प्रवाहरूप से कृपकल्पान्त सहित भी निय है, और अन्धक आदि अधिकारी शब्द हैं कि इन प्रकार के कुल का नाम अन्धक होना चाहिये, सो अन्धक आदि वंश प्रतिकरूप में अनादि चर्ते आते हैं। इस प्रकार इन अन्धक आदि शब्दों का वर्णों के साथ अनादि सम्बन्ध बना हुआ है, कमी नर्वीन नहीं हुआ ॥

१ विमातु शृण्ड शुत्रादिगण में पढ़ा है, उससे तैमात्रेयः, यह भी प्रयोग होता है ॥

२ विचार यह है कि कन्या विसका विवाह न हो उसको कहते हैं, उसका अपत्य कैसे हो सकता है। महाभाष्य में इसका समाधान किया है कि जो विवाह होने से प्रथम ही प्रमत्त होकर किसी सुहृष्ट के साथ व्यमित्रावर से गर्भवती हो जावे, उसका जो पुत्र हो उसको 'कनीन' कहना चाहिये ॥

**ठक् च मण्डूकात् ॥ १६६ ॥ अ० ४ । १ । ११६ ॥**

यह सूत्र इति का अपवाद है। अपत्य अर्थ में मण्डूक प्रातिपादिक से ठक् प्रत्यय हो, और चकार से अण् विकल्प करके होवे, पक्ष में इति भी हो जावे। जैसे—मण्डूक-स्वाऽपत्यं माण्डूकेयः, माण्डूकः, माण्डूकिः ॥ १६६ ॥

**स्त्रीभ्यो ठक् ॥ १६७ ॥ अ० ४ । १ । १२० ॥**

यह सूत्र अण् और उसके अपवादों का भी अपवाद है। अपत्य अर्थ में टावादि श्वीप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय विकल्प करके होवे ॥ १६७ ॥

**आयनेयीनीयियः फटखद्धघां प्रत्ययार्दीनाम् ॥ ११९ ॥ अ० ७ । १ । २ ॥**

जो प्रत्यय के आदि फट ख छ और घ हैं, उनके स्थान में यथासंस्कृत्य करके आयन्, पट्य, ईन्, ईय् और ईय् आनेश हो। जैसे—फ—नाडायनः; घ—सौपर्णेयः, वैनतेयः; ख—कुर्लीनः; छ—शालीयः, पैतृस्वन्नीयः; प—शुक्रियम् इत्यादि ॥ १६८ ॥

**वा०—वडवाया वृषे क्षि वाच्ये ॥ १६८ ॥**

वडवा प्रातिपदिक से वैल अपत्य वाच्य हो, तो ठक् प्रत्यय होवे। जैसे—वडवाया अपत्यं वृषो वाडवेयः ॥ १६८ ॥

**वा०—अण् कुञ्चाकोकिलात्समृतः ॥ २०० ॥**

मामान्यपत्य में कुञ्चा और कोकिला शब्द से ठक् का वाधक अण् प्रत्यय होवे। जैसे—कुञ्चाया अपत्यं कौञ्चः; कोकिलाया अपत्यं कौकिलः ॥ २०० ॥

**द्वयचः ॥ २०१ ॥ अ० ४ । १ । १२१ ॥**

नदी और मानुषीचारी जो से अण् प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है।

अपत्यार्थ में टावादि श्वीप्रत्ययान्तं द्वयच् प्रातिपदिक से ठक् प्रत्यय होवे। जैसे—दत्ताया अपत्यं दाचेयः गोपेयः इत्यादि।

यहां ‘द्वयच्’ ग्रहण इसलिये है कि—यमुनाया अपत्यं यामुनः, यर्हाठक् न होवे ॥ २०१ ॥

१० यद्यपि वडवा शब्द घोड़ी का भी वाचक है, तथापि यहां वडवा शब्द से विकिट गो का ग्रहण होना है, क्योंकि वडवा शब्द केवल घोड़ी का ही वाचक नहीं, किन्तु वाहिणी श्रशा कुम्भदासी तथा अन्य भी व्योजाति का नाम है। तथाया—

रौत्वो नरके लोरे वडवा द्विजयेपिति ।

अश्वायां कुम्भदास्यां च नारीजात्यन्तरेपि च ॥ इति भाष्यप्रदीपकार कैर्यटः ॥

दृष्ट शब्द से वीर्येचान् अश्व का ग्रहण भी करते हैं। जैसे—वृषो वीजाश्वः। तेन च्यार्येन विग्रेषं विहितेनापन्यन्तर्योऽर्थो टको नाम्यते। तेनापत्ये वाहव इति भवति। उस पक्ष में वडवा शब्द से घोड़ी का ग्रहण कर दृष्ट शब्द से पूर्वोक्त प्रकार अश्व अपत्य समझना चाहिये ॥

इतश्चानिवः ॥ २०२ ॥ अ० ४ । १ । १२२ ॥

यह सूत्र सामान्य अणु का अपवाद है। अपत्यार्थ में इज् प्रत्ययान्तभिन्न इकारान्त प्रातिपदिक से ढक् प्रत्यय होते। जैसे—प्रत्येक्यं आवेद्यः; नैथेयः; वार्षेयः; कापेयः इत्यादि।

यहाँ 'इकारान्त' इसलिये कहा है कि—दाक्षिः; साक्षिः। 'इज्भिन्न' इसलिये कहा है कि—दाक्षायणः; साक्षायणः; यद्वा इजन्त से ढक् न होते। और 'द्वयन्' की अनुवृत्ति इसलिये है कि—मरीचेरपत्यं मारीचः; यहाँ ढक् को वाध के अणु हो जाते ॥ २०२ ॥

शुभ्रादिभ्यश्च \* ॥ २०३ ॥ अ० ४ । १ । १२३ ॥

यह सूत्र इज् आदि का यथायोग्य अपवाद समझना चाहिये। अपत्यार्थ में शुभ्र आदि प्रातिपदिकों से ढक् प्रत्यय होते। जैसे—शुभ्रस्यापत्यं शौधेयः; वैष्णुपुरेयः इत्यादि ॥ २०३ ॥

विकर्णकुपीतकात् काश्यपे ॥ २०४ ॥ अ० ४ । १ । १२४ ॥

यह सूत्र इज् का अपवाद है। [ काश्यप ] अपत्य अर्थ में विकर्ण और कुपीतक प्रातिपदिकों से ढक् प्रत्यय हो। जैसे—विकर्णस्यापत्यं वैकर्णेयः; कौपीतकेयः।

यहाँ 'काश्यप' ग्रहण इसलिये है कि—वैकर्णिः; कौपीतकिः; यहाँ ढक् न होते ॥ २०४ ॥

भ्रुवो बुक् च ॥ २०५ ॥ अ० ४ । १ । १२५ ॥

यह अणु का अपवाद है। अपत्य अर्थ में भ्रू प्रातिपदिक से ढक् प्रत्यय और इस को बुक् का आगम भी हो। जैसे—भ्रुवोऽपत्यं आवेद्यः ॥ २०५ ॥

कल्याण्यादीनामिनङ् च ॥ २०६ ॥ अ० ४ । १ । १२६ ॥

अपत्यार्थ में कल्याणी आदि प्रातिपदिकों से ढक् प्रत्यय और इनको इन्ह आवेदा भी होते। जैसे—कल्याण्या अपत्यं काल्याणिनेयः; ल्यैषिनेयः; कानिष्ठिनेयः × इत्यादि ॥ २०६ ॥

हृदभगसिंधवन्ते पूर्वपदस्थ च ॥ २०७ ॥ अ० ७ । ३ । १६ ॥

जो जित् शित् और कित् तद्वित प्रत्यय परे हों, तो हृद भग और सिन्धु जिनके अन्त हों, उन प्रातिपदिकों के पूर्व और उत्तरपदों में अचों के आदि अन्य को वृद्धि होते।

\* इस चकार से इस शुब्रादिगण को आहूतिगण समझना चाहिये, कि जिससे [ गाहेयः ] पारदेयः, द्यत्वा अपठित शब्दों में भी ढक् प्रत्यय हो जाते।

X यहाँ स्त्रीलिङ्ग प्रातिपदिकों से ढक् प्रत्यय तो हो ही जाता, परं यह सूत्र इन्ह आवेदा होने के क्रिये है।

जैसे—चुमनाया अपत्यं सौभागिनेयः; दीर्भागिनेयः; सौहर्दम्; दीहर्दम्; साकुसैन्धवः  
इत्यादि ॥ २०७ ॥

**कुलटाया वा ॥ २०८ ॥ अ० ४ । १ । १२७ ॥**

यहां इन्ह् आदेश की अनुवृत्ति चली आती है ।

अपत्यार्थ में कुलटा प्रातिपदिक से ढक् प्रत्यय और इसको [ विकल्प से ] इन्ह् आदेश होते । जैसे—कुलटाया अपत्यं कौलटिनेयः; कौलटेयः ॥ २०८ ॥

**चटकाया पेरक् ॥ २०९ ॥ अ० ४ । १ । १२८ ॥**

यह सूत्र ढक् का अपवाद है । अपत्य अर्थ में चटका शब्द से पेरक् प्रत्यय होते ।  
जैसे—चटकाया अपत्यं चाटकैरः ॥ २०९ ॥

**वा०-चटकाच्च ॥ २१० ॥**

यह वार्तिक इज् का अपवाद है । चटक प्रातिपदिक से पेरक् प्रत्यय होते ।  
जैसे—चटकस्याऽपत्यं चाटकैरः ॥ २१० ॥

**वा०-खियामपत्ये लुक् ॥ २११ ॥**

यह वार्तिक लुक् का अपवाद है । चटक प्रातिपदिक से लुक् प्रत्यय होते । जैसे—चटकाया अपत्यं लुकी  
चटका ॥ २११ ॥

**गोधाया ढूक् ॥ २१२ ॥ अ० ४ । १ । १२६ ॥**

यह भी ढक् का अपवाद है । अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से ढूक् प्रत्यय होते ।  
जैसे—गोधाया अपत्यं गोधेरः ।

शुभ्रादिग में गोधा शब्द पढ़ा है, इस कारण गोधेरः, यह भी प्रयोग होताता ॥ २१२ ॥

**आरगुदीचाम् ॥ २१३ ॥ अ० ४ । १ । १३० ॥**

गोधा की अनुवृत्ति आती है । अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से आरक् प्रत्यय  
होते, उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में : जैसे—गोधाया अपत्यं गोधारः \* ॥ २१३ ॥

**क्षुद्राभ्यो वा + ॥ २१४ ॥ अ० ४ । १ । १३१ ॥**

यह भी ढक् का अपवाद है । और पूर्वसूत्र से ढूक् की अनुवृत्ति आती है ।

अपत्य अर्थ में क्षुद्रा आदि प्रातिपदिकों से ढूक् प्रत्यय होते, पक्ष में ढक् हो ।  
जैसे—काणेरः; काणेयः; दासेरः; दासेयः इत्यादि ॥ २१४ ॥

\* रक् प्रत्यय के कहने से गोधारः प्रयोग बन ही जाता, फिर आकारप्रदाय से यह झापक होता है कि मन्य प्रातिपदिकों से भी 'आरक्' प्रत्यय होता है । जैसे—जादारः; पारदारः इत्यादि ॥

+ क्षुद्रा दन खियों को कहते हैं जो अङ्गों से, धर्म से और अन्द्रे स्वमात्र से रहित होते ॥

**पितृष्वसुश्छण् ॥ २१५ ॥ अ० ४ । १ । १३२ ॥**

यह सूत्र अण् प्रत्यय का वाधक है। अपत्य अर्थ में पितृष्वसु प्रातिपदिक से छण् प्रत्यय होवे। जैसे—पितृष्वसुरपत्यं पैतृष्वसीयः ॥ २१५ ॥

**ढकि लोपः ॥ २१६ ॥ अ० ४ । १ । १३३ ॥**

अपत्य अर्थ में जो ढक् प्रत्यय परे हो, तो पितृष्वसु शब्द के अन्त का लोप होवे। जैसे—पैतृष्वसेयः \* ॥ २१६ ॥

**मातृष्वसुश्च ॥ २१७ ॥ अ० ४ । १ । १३४ ॥**

यह भी अण् का अपवाद है।

अपत्य अर्थ में मातृष्वसु शब्द से छण् प्रत्यय और ढक् के परे मातृष्वसु शब्द के अन्त का लोप भी होवे। जैसे—मातृष्वसुरपत्यं मातृष्वसीयः, मातृष्वसेयः ॥ २१७ ॥

**चतुष्पादभ्यो ढञ् ॥ २१८ ॥ अ० ४ । १ । १३५ ॥**

यह अण् आदि का अपवाद है।

अपत्यार्थ में चतुष्पादवाची प्रातिपदिकों से ढञ् प्रत्यय होवे। जैसे—कामण्डलेयः; शोन्नितवाहेयः; यामेयः; माहिषेयः; शौरभेयः इत्यादि ॥ २१८ ॥

**गृष्ट्यादिभ्यश्च ॥ २१९ ॥ अ० ४ । १ । १३६ ॥**

यह सूत्र केवल अण् का ही अपवाद है।

अपत्य अर्थ में गृष्टि आदि प्रातिपदिकों से ढञ् प्रत्यय होवे। जैसे—गृष्ट्या अपत्यं गाण्डेयः; हाण्डेयः; हालेयः; वालेयः; वैश्रेयः इत्यादि ॥ २१९ ॥

**राजश्वशुराद्यत् ॥ २२० ॥ अ० ४ । १ । १३७ ॥**

यह अण् और इञ् दोनों का वाधक है। अपत्यार्थ में राजन् और श्वशुर प्रातिपदिकों से यद् प्रत्यय हो। जैसे—राजोऽपत्यं राजन्यः; श्वशुर्यः ॥ २२० ॥

**वा०-राजोऽपत्ये जातियहणम् ॥ २२१ ॥**

सूत्र में जो राजन् शब्द से यद् कहा है, सो जातिवाची राजन् शब्द का ग्रहण समझना चाहिये। जैसे—राजन्यः, जो ज्ञातिय होवे, नहीं तो राजनः ॥ २२१ ॥

\* यहां ढक् प्रत्यय के परे जो लोप कहा है, सो इसी ज्ञापक से पितृष्वसु शब्द से ढक् प्रत्यय होता है ॥

क्षत्राद् घः ॥ २२२ ॥ अ० ४ । १ । १३८ ॥

यह सूत्र इज् का वाधक है। अपत्यार्थ में क्षत्र प्रातिपदिक से व प्रत्यय होते। जैसे—क्षत्रियः, यहां भी जाति ही समझनी चाहिये, क्योंकि जहां जाति न हो वहां क्षात्रिः, इज्ञन्त प्रयोग होते ॥ २२२ ॥

कुलात् खः ॥ २२३ ॥ अ० ४ । १ । १३९ ॥

यह भी इज् का ही अपवाद है। अपत्य अर्थ में कुल शब्द से ख प्रत्यय होता। उत्तर-सूत्र में अपूर्वपद ग्रहण करने से इस सूत्र में पूर्वपदसहित और केवल का भी ग्रहण होता है। जैसे—श्रोत्रियकुलीनः; आदत्तकुलीनः; कुलीनः इत्यादि ॥ २२३ ॥

अपूर्वपदादन्यतरस्यां यद्गढकज्ञौ ॥ २२४ ॥ अ० ४ । १ । १४० ॥

अपत्यार्थ में पूर्वपदसहित कुल शब्द से यत् और ढकज् प्रत्यय विकल्प करके होते। जैसे—कुल्यः; कौलेयकः; कुलीनः।

यहां 'पद' ग्रहण इसलिये है कि वहुन् पूर्वपद हो तो भी ख प्रत्यय होता है। जैसे—वहुकुल्यः; वहुकौलेयकः; वहुकुलीनः ॥ २२४ ॥

महाकुलादभ्यज्ञौ ॥ २२५ ॥ अ० ४ । १ । १४१ ॥

यहां विकल्प की अनुवृत्ति आती है।

अपत्यार्थ में महाकुल प्रातिपदिक से अज् और खज् प्रत्यय विकल्प करके होते, पञ्च में ख होते। जैसे—मादाकुलः; मादाकुलीनः; महाकुलीनः ॥ २२५ ॥

दुष्कुलाद डक् ॥ २२६ ॥ अ० ४ । १ । १४२ ॥

अपत्यार्थ में दुष्कुल शब्द से डक् प्रत्यय विकल्प करके हो, पञ्च में ख हो जाते। जैसे—दोष्कुलेयः; दुष्कुलीनः ॥ २२६ ॥

स्वसुरक्षः ॥ २२७ ॥ अ० ४ । १ । १४३ ॥

अपत्य अर्थ में खस्त्र प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हो। जैसे—खसुरपत्यं खस्त्रीयः। यह अण का वाधक है ॥ २२७ ॥

भ्रातुर्व्यञ्च ॥ २२८ ॥ अ० ४ । १ । १४४ ॥

यह सूत्र भी अण का अपवाद है। अपत्यार्थ में भ्रातृ शब्द से व्यत् और त्रकार से छ प्रत्यय भी होते। जैसे—भ्रातुर्व्यः; भ्रात्रीयः ॥ २२८ ॥

यह अप्राप्यविभाषा इसलिये है कि कुल शब्द से यत् और ढकज् प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है ॥

व्यन् सपले \* ॥ २२६ ॥ अ० ४ । १ । १४५ ॥

सपल अर्थात् शशु धात्य हो, तो भात् प्रातिपदिक से व्यन् प्रत्यय हो। जैसे—  
पाप्मना भ्रातृव्येण; भ्रातृव्यः करटकः ॥ २२६ ॥

रेवत्यादिभ्यष्टक ॥ २३० ॥ अ० ४ । १ । १४६ ॥

यह सूच ढक् आदि का अपवाद है। अपत्यार्थ में रेवती आदि प्रातिपदिकों से ठक्  
प्रत्यय हो। जैसे—रेवत्या अपत्यं रेवतिकः; आश्वपालिकः; माणिपालिकः इत्यादि ॥ २३० ॥

गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ॥ २३१ ॥ अ० ४ । १ । १४७ ॥

यह ढक् का अपवाद है। निनिदित युवापत्य अर्थ में गोत्रसंष्टक स्त्रीवाची प्राति-  
पदिक से ए, और चकार से ठक् प्रत्यय होते। जैसे—गार्या अपत्यं जालमो गार्यः;  
गार्गिकः; ग्लौचुकायन्या अपत्यं ग्लौचुकायनः; ग्लौचुकायनिकः।

यहां 'गोत्र' ग्रहण इसलिये है कि—कारिकेयो जालमः, यहां कारिका शब्द गोत्र-  
प्रत्ययान्त नहीं है। 'स्त्रीवाची' इसलिये है कि—आौपगविर्जालमः, यहां न होते। 'कुत्सन'  
इसलिये है कि—गार्येयो माणवकः, यहां निन्दा के न होने से उत्सर्ग ढक् हो गया,  
किन्तु ए और ठक् नहीं हुए ॥ २३१ ॥

वृद्धाट्क सौधीरेषु बहुलम् ॥ २३२ ॥ अ० ४ । १ । १४८ ॥

यहां कुत्सन पद की अनुवृत्ति आती है। अपत्य और कुत्सन अर्थ में वृद्धसंष्टक  
सौधीर गोत्रवाची प्रातिपदिक से ठक् प्रत्यय बहुत करके हो। जैसे—भागवित्तेर्घुचापत्यं  
भागवित्तिकः; तार्णविन्दवस्य युवापत्यं तार्णविन्दधिकः। पक्ष में फक् और इज् हो  
जाते हैं—भागवित्तायनः; तार्णविन्दविः।

यहां 'वृद्ध' ग्रहण छी की निवृत्ति के लिये है। 'सौधीर' ग्रहण इसलिये है कि—  
आौपगविः, यहां न होते। और 'कुत्सन' की अनुवृत्ति इसलिये है कि—भागवित्तायनो  
माणवकः, यहां भी ठक् न होते ॥ २३२ ॥

फेश्छ च ॥ २३३ ॥ अ० ४ । १ । १४९ ॥

कुत्सन और सौधीर पदों की अनुवृत्ति आती है। अपत्यार्थ में फिजन्त सौधीर  
गोत्रवाची प्रातिपदिक से छ और चकार से ठक् प्रत्यय भी होते। जैसे—यासुन्दायनीयः;  
यासुन्दायनिकः।

\* यहां अपत्यार्थ की विवरण नहीं है, क्योंकि आता का पुनर शशु नहीं हो सकता, और इसी कारण  
भ्रातृ शब्द का प्रकृत्यर्थ यहां प्रधान नहीं रहता है, किन्तु प्रत्ययार्थ जो शशु है, वही प्रधान रहता है ॥

यहां 'कुत्सन' अहण इसलिये है कि—यामुन्दायनिः, यहां अरु का लुक् हो गया है। 'सौर्वीर' इसलिये है कि—तैकायनिः, यहां छु न होवे ॥ २३३ ॥

### फारटाहृतिमिमताभ्यां गणित्यौ ॥ २३४ ॥ अ० ४ । १ । १५० ॥

सौर्वीर पद की अनुवृत्ति यहां आती है, और कुत्सन पद की निवृत्ति हुई। और यह सब फक् प्रत्यय का अपवाद है।

अपत्य अर्थ में सौर्वीर नोचवाची फारटाहृति और मिमत प्रातिपदिकों से ए औरफिज् प्रत्यय होवे। जैसे—फारटाहृतेरपत्यं फारटाहृतः, फारटाहृतायनिः, मैमतः, मैमतायनिः।

यहां 'सौर्वीर' का ग्रहण इसलिये है कि—फारटाहृतायनः, मैमतायनः, यहां ए और फिज् न हुए ॥ २३४ ॥

### कुर्वादिभ्यां रथः ॥ २३५ ॥ अ० ४ । १ । १५१ ॥

यह भी इज् आदि का वाधक यथायोग्य समझना चाहिये।

अपत्यार्थ में कुरु आदि प्रातिपदिकों से एव प्रत्यय हो। जैसे—कुरोरपत्यं कौरब्यः, नार्यः; माङ्गस्यः, आजमारक्ष्यः इत्यादि ॥ २३५ ॥

### सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ॥ २३६ ॥ अ० ४ । १ । १५२ ॥

यह सब इज् का अपवाद है। अपत्यार्थ में सेनान्त लक्षण और कारि अर्धात् कुंभार आदि कारीगरवाची प्रातिपदिकों से एव प्रत्यय होवे। जैसे—सेनान्त—भीमसेन-स्यापत्यं भैमसेन्यः; कारिपेण्यः; हारिपेण्यः; वैष्वक्सेन्यः; श्रीप्रसेन्यः इत्यादि। लक्षण—लाक्षण्यः। कारि—तान्तुवाच्यः कौम्भकार्यः इत्यादि ॥ २३६ ॥

### उदीचामिज् ॥ २३७ ॥ अ० ४ । १ । १५३ ॥

यहां सेनान्त आदि की अनुवृत्ति आती है।

अपत्यार्थ में उच्चरदेशीय आचारायों के मत में सेनान्त लक्षण और कारिवाची प्राति-पदिकों से इज् प्रत्यय होवे। जैसे—भीमसेनस्यापत्यं भैमसेनिः; हारिपेणिः; लाक्षणिः; वान्तुवाच्यिः; कौम्भकारिः; नापितिः इत्यादि ॥ २३७ ॥

### तिकादिभ्यः फिज् ॥ २३८ ॥ अ० ४ । १ । १५४ ॥

यह भी यथायोग्य इज् आदि का वाधक है।

अपत्यार्थ में तिक आदि प्रातिपदिकों से फिज् प्रत्यय होवे। जैसे—तिकस्यापत्यं तैकायनिः; कैतवायनिः; संङ्घायनिः इत्यादि ॥ २३८ ॥

यथापि कुस्तवाची होने से भीमसेन शब्द से अरु प्राप्त है, तो भी परविप्रतिपेष से एव ही होता है ॥

**कौसल्यकार्मीर्याभ्यां च ॥ २३६ ॥ अ० ४ । १ । १५५ ॥**

यह इज् प्रत्यय का वाधक है। अपत्यार्थ में कौसल्य और कार्मी शब्दों से फिज् प्रत्यय हो। जैसे—कौसल्यस्यापत्यं कौसल्यायनिः; कार्मीर्यायणिः ॥ २३६ ॥

**वा०—फिज् प्रकरणे दगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युट् च ॥ २४० ॥**

फिज् प्रकरण में दगु कोसल कर्मार छाग और वृष प्रातिपदिकों से फिज् प्रत्यय और प्रत्यय को युट् का आगम होते। जैसे—दागव्यायनिः; कौसल्यायनिः; कार्मीर्यायणिः; छाग्यायनिः; वाष्पयणिः ॥ २४० ॥

**अणो दृढ़यचः ॥ २४१ ॥ अ० ४ । १ । १५६ ॥**

यह सूत्र इज् प्रत्यय का अपवाद है। अपत्यार्थ में अणन्त दृढ़यच् प्रातिपदिक से फिज् प्रत्यय हो। जैसे—कार्बस्यापत्यं कार्त्र्यायणिः; हार्वर्षिणिः; यास्कायनिः इत्यादि।

यहाँ ‘अणन्त’ इसलिये है कि—दाक्षायणः, यहाँ न हो। और ‘दृढ़यच्’ इसलिये कहा है कि—ओपगविः, यहाँ भी फिज् न होते॥ २४१ ॥

**वा०—त्यदादीनां वा फिज् वक्तव्यः \* ॥ २४२ ॥**

अपत्य अर्थ में त्यदादि प्रातिपदिकों से फिज् प्रत्यय विकल्प करके होते। जैसे—त्यादायनिः, त्यादः; यादायनिः, यादः; तादायनिः, तादः इत्यादि ॥ २४२ ॥

**उदीचां वृद्धादगोत्रात् ॥ २४३ ॥ अ० ४ । १ । १५७ ॥**

यह भी इज् आदि का वाधक है। अपत्यार्थ में गोव्रभिन्न वृद्धसंश्लक प्रातिपदिक से उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में फिज् प्रत्यय होते। जैसे—आम्रगुप्तस्यापत्यं आम्रगुप्तायनिः; शालगुप्तायनिः; प्रामारक्षायणिः; नापितायनिः इत्यादि।

यहाँ ‘उत्तरदेशीय आचार्यों का मत’ इसलिये कहा है कि—आम्रगुप्तिः, यहाँ फिज् न होते। ‘वृद्ध संश्लक’ इसलिये है कि—याहृदत्तिः, यहाँ भी न हो। और ‘गोत्र का निषेध’ इसलिये है कि—ओपगविः, यहाँ भी न होते॥ २४३ ॥

**वाकिनादीनां कुक् च ॥ २४४ ॥ अ० ४ । १ । १५८ ॥**

उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में अपत्य अर्थ में वाकिन आदि प्रातिपदिकों से फिज् प्रत्यय, और इनको कुक् का आगम भी होते। जैसे—वाकिनस्यापत्यं वाकिनकायनिः, पक्ष में वाकिनिः; गारेधकायनिः; गारेधिः इत्यादि।

यह अण और इज् दोनों का अपवाद है॥ २४४ ॥

\* यह वार्तिक अण प्रत्यय का वाधक है। और इसमें अप्राप्यिभापा है, वयोंकि फिज् किसी सूत्र वार्तिक से प्राप्त नहीं। फिज् के विकल्प से पक्ष में अण भी हो जाता है॥ ..

पुत्रान्तादन्यतरस्याम् ॥ २४५ ॥ अ० ४ । १ । १५६ ॥

यह अण् का अपवाद और इसमें अप्राप्तविभाया है।

उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में पुत्रान्त प्रातिपदिक से फिल् प्रत्यय और इनको कुक् का आगम विकल्प करके होते। जैसे—गार्णीपुत्रस्यापत्यं गार्णीपुत्रकायणिः, गार्णी-पुत्रायणिः, गार्णीपुत्रिः, वान्सीपुत्रकायणिः, वान्सीपुत्रिः, वात्सीपुत्रिः इत्यादि ॥ २४५ ॥

प्राचामवृद्धात् फिन् वहुलम् ॥ २४६ ॥ अ० ४ । १ । १६० ॥

अपत्यार्थ और प्राचीन आचार्यों के मत में वृद्धसंबारहित प्रातिपदिक से फिन् प्रत्यय वहुल करके हो जाते। जैसे—रुचुकस्यापत्यं रुचुकायणिः, अहिच्छुम्बकायणिः ।

यहाँ 'प्राचीनों का' ग्रहण इसलिये है कि—रुचुकिः, अहिच्छुम्बकिः, यहाँ इन् हो जाता है। और 'वृद्ध का निषेध' इसलिये किया है कि—राजदन्तिः, यहाँ फिन् न होते ॥ २४६ ॥

मनोर्जातावज्यतौ पुक् च ॥ २४७ ॥ अ० ४ । १ । १६१ ॥

जाति अर्थ हो, तो मनु शब्द से अब् और यत् प्रत्यय और मनु शब्द को पुक् का आगम हो जाते। जैसे—मानुषः, मनुषः ।

यहाँ प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय से जाति का वोध होता है। यहाँ अपत्य अर्थ की विवक्षा नहीं है। और जहाँ अपत्य अर्थ विवक्षित होता है, वहाँ अण् ही हो जाता है। जैसे—मनोरपत्यं मानवी प्रजा ॥ २४७ ॥

का०—अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः ।

नकारस्य च मूर्ढन्यस्तेन सिध्यति माणवः ॥ २४८ ॥

मूढ तिनिदित अपत्य अर्थ में मनु प्रातिपदिक से ओत्सर्गिक अण् प्रत्यय का स्मरण करना चाहिये। अर्थात् अण् प्रत्यय हो जाए और मनु शब्द के नकार को लग्त्व होते। जैसे—मनोरपत्यं कुत्सितो मूढो माणवः ॥ २४८ ॥

अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् ॥ २४९ ॥ अ० ४ । १ । १६२ ॥

जो पौत्रप्रभृति अर्थात् नारी से आदि लेकर अपत्य नाम सन्तान होता है, वह गोत्रसंज्ञक होते। जैसे—गर्णस्यापत्यं पौत्रप्रभृति गार्ण्यः, वात्सः ।

यहाँ ( उदीचां वृद्धां ) इससे फिल् प्रत्यय तो ही ही जाता, जिस 'कुक्' का आगम विकल्प में होने के लिये यह सूत्र है। एक कुक् के आगम का विकल्प, और उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में फिल् का विकल्प इन दो विकल्पों से तीन प्रयोग होते हैं।

यहां 'पौत्रप्रभृति' इसलिये कहा है कि—अनन्तरापत्य अर्थात् पुत्र अर्थे प्रें गोत्र का प्रत्यय न होवे। जैसे—कौञ्जः; गार्णिः \* इत्यादि ॥ २५६ ॥

### जीवति तु वंश्ये युवा ॥ २५० ॥ अ० ४ । १ । १६३ ॥

जो उत्पत्ति का प्रबन्ध है सो वंश, और जो उस वंश में होवे वह वंश्य कहाता है।

जब तक पिता आदि कुदुम्ब के बृद्ध पुरुष जीवते हों, तब तक जो पौत्र आदि सन्तानों के अपत्य हैं, वे युवसंशक होवें।

यहां तु शब्द निश्चयार्थ है कि उस समय युवसंशा ही हो, गोत्रसंशा न हो। जैसे—गार्णीयणः; वात्स्यायनः इत्यादि ॥ २५० ॥

### आतरि च उत्थायसि ॥ २५१ ॥ अ० ४ । १ । १६४ ॥

जो वहा भाई जीता हो और पिता आदि मर भी नये हों, तो छोटे भाई की युवसंशा जाननी चाहिये। जैसे—गार्णीयणः; वात्स्यायनः; दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि ॥ २५१ ॥

### वाऽन्यस्मिन् सपिरडे स्थविरतरे जीवति + ॥ २५२ ॥

जो भ्राता से अन्य सात पीढ़ी में चाचा दादा आदि अधिक अवस्थावाले पुरुष जीते हों, तो भी पौत्रप्रभृति के अपत्यों की विकल्प करके युवसंशा होवे। जैसे—गर्वस्यापत्यं गार्ण्यो वा गार्णीयणः; वात्स्यो वा वात्स्यायनः; दाक्षिर्वा दाक्षायणः इत्यादि ॥ २५२ ॥

### वा०-बृद्धस्य च पूजायाम् ; ॥ २५३ ॥

बृद्ध अर्थात् जिस प्रशंसित की बृद्धसंशा विधान की है, सो भी पूजा अर्थे में विकल्प करके युवसंशक होवे। जैसे—तत्रभवान् गार्णीयणः; गार्ण्यो वा; तत्रभवान् वात्स्यायनः; वात्स्यो वा; तत्रभवान् दाक्षायणः; दाक्षिर्वा इत्यादि ।

यहां पूजाप्रदण इसलिये है कि—गार्ण्यः, यहां युवसंशा न हो ॥ २५३ ॥

\* यहां गोत्र में कुन्ज शब्द से चक्ष, और गर्ण शब्द से यज् विहित हैं, सो नहीं होते। अनन्त-रापत्य में इन् होताता है ॥ .

+ यहां जीवति शब्द की अनुवृत्ति (जीवति तु०) इस पूर्व सत्र से चली आती, फिर जीवति शब्द का अहण इसलिये है कि संज्ञी का विशेषण यह जीवति होवे। और पूर्व का जो जीवति है, वह सपिरट का विशेषण समझना चाहिये ॥

+ (बृद्धस्य च०) और (यूनश०) ये दोनों काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र करके लिखे और व्याख्यात भी हैं। परन्तु महामाथ्य में वार्तिकन्त्रप से इनका व्याख्यान किया है, इसलिये यहां वार्तिक री लिखे हैं ॥

## वा०-यूनश्रु कुत्सायाम् ॥ २५४ ॥

कुत्सा नाम निन्दा अर्थे में युवा की युवसंद्वा विकल्प करके होवे । जैसे—माग्यो जालमः; गान्धायणो वा; वान्स्यो जालमः; वान्स्यायनो वा; दान्तिर्जालमः; दान्तायणो वा इत्यादि ॥ २५४ ॥

## जनपदशब्दात् क्षत्रियादभ् ॥ २५५ ॥ अ० ४ । १ । १६८ ॥

जो क्षत्रियवाची जनपद शब्द हो, तो उससे अपत्यार्थे में अभ् प्रत्यय होवे । जैसे—पञ्चालः; एद्वाकः; वंदेहः; इत्यादि ।

यहाँ ‘जनपद शब्द से’ इसलिये कहा है कि—द्रुहोरपत्यं द्रौहायः; पौरवः, यहाँ अभ् न होवे । ‘क्षत्रियवाची’ का ग्रहण इसलिये है कि—व्राह्मणस्य पञ्चालस्यापत्यं पञ्चालिः; वंदेहिः; इत्यादि में भी अभ् प्रत्यय न होवे ॥ २५५ ॥

## वा०-क्षत्रियसमानशब्दाजनपदशब्दात् तस्य राजन्यापत्यवत् ॥ २५६ ॥

जो क्षत्रिय के तुल्य जनपदवाची शब्द है, उससे राजा के सम्बन्ध में अपत्य के तुल्य प्रत्यय होवे । जैसे—पञ्चालानां राजा पञ्चालः; वंदेहः; मागधः + इत्यादि ॥ २५६ ॥

## साल्वेयगान्धारिभ्यां च ॥ २५७ ॥ अ० ४ । १ । १६९ ॥

यह घन्यमाण अभ् प्रत्यय का अपवाद है ।

अपत्य और तद्राज अर्थे में साल्वेय और गान्धारि इन शब्दों से अभ् प्रत्यय होने । जैसे—साल्वेयानामपत्यं तेषां राजा वा साल्वेयः; गान्धाराः ॥ २५७ ॥

## द्रूव्यञ्जमगधकलिङ्गसूरमसादण् ॥ २५८ ॥ अ० ४ । १ । १७० ॥

अपत्य और तद्राज अर्थे में क्षत्रियवाची दो स्वर वाले शब्द मगध कलिङ्ग और मूरमस प्रातिपदिकों से अलू प्रत्यय होवे । जैसे—अङ्गानामपत्यं तेषां राजा वा आङ्गः; वाङ्गः; मागधः; कालिङ्गः; सौरमसः इत्यादि ॥ २५८ ॥

\* यह जनपद शब्द सुख्य देश का पर्यायवाची है, सो इससे देशविशेष पञ्चाल आदि का ग्रहण होता है । वे पञ्चाल आदि शब्द क्षत्रियों और देशविशेष के नाम पूर्क ही से वने रहते हैं ॥

\* यहाँ तक अपत्याधिकार केवल चला आता है । अब जो देशविशेष और क्षत्रियविशेष के नाम पञ्चाल आदि शब्द हैं, उन देश के नामों से तद्राज अर्थात् उन देशों का राजा इस अर्थ में, और क्षत्रियवाची शब्दों से अपत्य अर्थ में यहाँ से पाद के अन्त-पर्यन्त प्रत्ययविधान समझना चाहिये ॥

+ इन पञ्चाल आदि शब्दों से तद्राज अर्थ में ( अवृद्धादपि० ) इस सूत्र से शैयिक वृक्ष प्रत्यय प्राप्त है, उसका अपवाद यहाँ अस विधान है ॥

**वृद्धंतकोसलाजादाञ्यड् ॥ २५६ ॥ अ० ४ । १ । १७१ ॥**

अपत्य और तद्राज अर्थ में जनपद क्षत्रियवाची वृद्धसंष्क क इकारान्त कोसल और अजाद प्रातिपदिक से ज्यड़ प्रत्यय होते ।

यह सूत्र अञ्ज का अपवाद है । जैसे—वृद्ध—आम्यष्टानामपत्यं तेषां राजा वा आम्वष्ट्यः; सौवीर्यः । इकारान्त—आवन्त्यः; कौन्त्यः । कौसल्यः; आजाद्यः ॥ २५६॥  
**वा०—पारडोर्जनपदशब्दात् क्षत्रियशब्दाद् ड्यण् वक्तव्यः ॥ २६० ॥**

जो जनपदवाची पारडु क्षत्रिय शब्द है, उससे अपत्य और तद्राज अर्थ में उच्च प्रत्यय होते । जैसे—पारड्नामपत्यं तेषां राजा वा पारड्यः ॥ २६० ॥

**कुरुनादिभ्यो रथः ॥ २६१ ॥ अ० ४ । १ । १७२ ॥**

अपत्य और तद्राज अर्थ में जनपद क्षत्रियवाची कुरु और तकारादि प्रातिपदिकों से गय प्रत्यय होते । यह अण और अञ्ज का अपवाद है । जैसे—कुरुणामपत्यं तेषां राजा वा कौरव्यः । तकारादि—नैवध्यः; नैपथ्यः इत्यादि ॥ २६१ ॥

**साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाशमकादिज् ॥ २६२ ॥ अ० ४ । १ । १७३ ॥**

यह सूत्र अञ्ज का अपवाद है । अपत्य और तद्राज अर्थ में साल्व नाम देशविशेष के अवयव प्रत्यग्रथ कलकूट और अश्मक प्रातिपदिक से इज् प्रत्यय होते । जैसे— औतुम्बरिः; तैलखलिः; माद्रकारिः; योगन्धरिः; भौलिङ्गिः; शारदरिङ्गः; प्रात्यप्रथिः; कालकृष्टिः; आश्मकिः इत्यादि ॥ २६२ ॥

**ते तद्राजाः ॥ २६३ ॥ अ० ४ । १ । १७४ ॥**

( जनपदशब्दात्० ) इस सूत्र से लेके यहां तक जो २ प्रत्यय कहे हैं, वे तद्राजसंष्क होते हैं । इस का यह प्रयोजन है कि वहुवचन में लुक् होजाए । जैसे—पाञ्चालः, पञ्चालौ, पञ्चालाः इत्यादि ॥ २६३ ॥

**कम्बोजाललुक् ॥ २६४ ॥ अ० ४ । १ । १७५ ॥**

अपत्य और तद्राज अर्थ में कम्बोज शब्द से विहित जो अञ्ज प्रत्यय उसका लुक् हो । जैसे—कम्बोजस्यापत्यं तेषां राजा वा कम्बोजः ॥ २६४ ॥

**वा०—कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थम् ॥ २६५ ॥**

कम्बोज शब्द से जो लुक् कहा है, सो कम्बोज आदि से कहना चाहिये । जैसे— कम्बोजः; चोलः; केरलः; शकः; यवनः ॥ २६५ ॥

\* यहां इकार में 'तपत्करण' इसलिये है कि जो कुमारी जनपद शब्द दोष इकारान्त है, उस से व्यह प्रत्यय न होते, किन्तु अम् प्रत्यय हो जाते । जैसे—कौमारः ॥

स्त्रियामवन्तिकुन्नितकुरुभ्यश्च ॥ २६६ ॥ अ० ४ । १ । १७६ ॥

जो ल्हीं अपन्य वा राहीं अभिव्येय हो, तो अवन्ति कुन्नित और कुरु शब्द से जो उत्पन्न तद्राजसंष्टक प्रत्यय उस का लुक् हो । जैसे—अवन्तीनामपत्यं तेषां राहीं वा अवन्तीः कुन्नीः कुरुः ।

यहां ल्हीं ग्रहण इसलिये है कि—आवन्त्यः; कौन्न्यः; कौरव्यः +, यहां लुक् न होवे ॥ २६६ ॥

अतश्च \* ॥ २६७ ॥ अ० ४ । १ । १७७ ॥

जो ल्हीवाच्य हो, तो तद्राजसंष्टक अकार प्रत्यय का लुक् होवे । जैसे—मद्राणामपत्यं तद्राही वा मद्री; शुरसेनी इत्यादि ।

यहां जातिवाची से ( जातेरली० ) इस करके ढीप् प्रत्यय हां जाता है ॥ २६७ ॥

न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः ॥ २६८ ॥ अ० ४ । १ । १७८ ॥

प्राच्य पृथिव्येश्वरों के विशेषनाम भर्गादि और यौधेयादि प्रान्तिपदिकों से विद्वित तद्राज- संष्टक प्रत्यय का लुक् न होवे । जैसे—प्राच्य—अहानामपत्यं तद्राही वा आहीः; धाहीः; मागाधी इन्द्यादि । भर्गादि—भार्गीः; कारुषीः कैक्यी इत्यादि । यौधेयादि—यौधेयीः; शौधेयीः; शंक्रेयी इत्यादि ॥ २६८ ॥

—इति प्रथमः पादः ॥

अय द्वितीयः पादः—

तेन रक्तं रागात् ॥ २६९ ॥ अ० ४ । २ । १ ॥

यहां समयों का प्रथम आदि सव की अनुवृत्ति चली आती है ।

द्वितीयांसमये रङ्गवाची प्रान्तिपदिक से रंगा है, इस अर्थे मैं जिस से जो प्रत्यय प्राप्त हो वह ही जावे । जैसे—कुसुमेन रङ्गं वस्त्रं कौसुमम्: काषायम्; मालिषम् इत्यादि ।

यहां ‘रंग वाचीं’ का ग्रहण इसलिये है कि—टेवदत्तेन रक्तं वस्त्रम् । यहां प्रत्यय की वर्तन्ति न होवे ॥ २६९ ॥

+ यहां अवन्ति और कुन्नित शब्द से इकारान्त के होने से ( वृद्धेत्को० ) इस से व्यड्, और कुरु शब्द से रय प्रत्यय ( कुरुता० ) इन दस्त सुत्र से होताते हैं ।

\* इस मूल मैं तदन्तधिक श्यात् अवारान्त प्रत्यय का लुक् इसलिये नहीं होता कि पूर्वे सूत्र मैं मवन्नि आदि शब्दों से लुक् कहा है. वर्षी ज्ञापक है । तो यहां अवन्ति का लुक् होवे, तो पूर्वे सूत्र मैं लुक् श्यायं होतावे ॥

**लाक्षारोचनाटुक् ॥ २७० ॥ अ० ४ । २ । २ ॥**

यहां पूर्वसूत्र के सब पदों की अनुवृत्ति चली आती है । लाक्षादि और रोचन प्रातिपदिकों से उक्त प्रत्यय होते । जैसे—लाक्ष्य रक्तं वस्त्रं लाक्षिकम्; रोचनिकम् ।

अधिकार होने से अणु प्रत्यय पाता है, उस का वाधक यह सुष्ठु है ॥ २७० ॥

**वा०—ठक्प्रकरणे शकलकर्द्मभ्यासुपसंख्यानम् ॥ २७१ ॥**

अणु का ही अपवाद यह भी वार्तिक है । शकल और कर्द्म प्रातिपदिकों से उक्त प्रत्यय होते । जैसे—शकलेन रक्तं शाकलिकम्; कार्द्मिकम् ॥ २७१ ॥

**वा०—नीख्या अन् ॥ २७२ ॥**

नीली प्रातिपदिक से अन् प्रत्यय होते । जैसे—नीख्या रक्तं नीलम् ॥ २७२ ॥

**वा०—पीतात्कन् ॥ २७३ ॥**

पीत प्रातिपदिक से कन् प्रत्यय होते । जैसे—पीतेन रक्तं पीतकम् ॥ २७३ ॥

**वा०—हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्ज् ॥ २७४ ॥**

हरिद्रा और महारजना प्रातिपदिकों से अञ्ज प्रत्यय होते । जैसे—हरिद्रया रक्तं हरिद्रम्; माहारजनम् ॥ २७४ ॥

**नक्षत्रेण युक्तः कालः ॥ २७५ ॥ अ० ४ । २ । ३ ॥**

युक्त काल अर्थे जो अभियोग हो, तो तृतीयासमर्थे नक्षत्रविशेषवाची प्रातिपदिक से अणु प्रत्यय होते । जैसे—पुष्येण युक्तः कालः=पौषी रात्रिः; पौषमहः; माघमहः इत्यादि ।

यहां ‘नक्षत्रवाची’ का ग्रहण इसलिये है कि—चन्द्रमसा युक्ता रात्रिः; यहां प्रत्यय न होते ॥ २७५ ॥

**लुब्विशेषे ॥ २७६ ॥ अ० ४ । २ । ४ ॥**

जहां काल का श्वयवरूप कोई विशेष अर्थ विद्वित न हो, वहां पूर्व सूत्र से जो विद्वित प्रत्यय उसका लुप्त हो जाते । जैसे—पुष्येण युक्तः कालोऽय पुष्यः; अघ कृतिकाः अघ रोहिणी ।

यहां ‘अविशेष’ इसलिये कहा है कि—पौषी रात्रिः; पौषमहः; यहां लुप्त न होते ॥ २७६ ॥

\* ‘हारिद्री कुक्षुरस्य पादी’ हरिद्रा से रक्ते हुए के समान सुर्गे के पर्ग हैं । इस प्रयोजन में उसमानवाची मान के अघ प्रत्यय हो जाता है ॥

दृष्टं साम ॥ २७७ ॥ अ० ४ । २ । ७ ॥

सामवेद का देवता अर्थात् पढ़ना पढ़ाना विचारना अर्थ हो, तो तृतीयासमये प्रातिपदिक से अरु आदि यथाशत प्रत्यय होते । जैसे—बसिष्ठेन दृष्टं साम वासिष्ठम्; वैभ्यामिष्ठम्; इत्येत दृष्टं साम दैव्यं दैवं थाः प्रजापतिना दृष्टं साम प्राजापत्यम् इत्यादि ॥ २७६ ॥

का०—सर्वत्रामिकलिभ्यां ढक् ॥ ॥ २७८ ॥

यहाँ से आगे जितने प्राचीन्यर्तीय अर्थ है, वे इस वार्तिक में सर्वत्र शब्द से विवरित हैं ।

प्राचीन्यर्तीय अर्थों में अग्नि और कलि प्रातिपदिकों से ढक् प्रत्यय होते । जैसे—अग्निना दृष्टं सामायेयम्; अग्नेगागतमायेयम्; अग्नो खमायेयम्; अग्निदेवताऽस्यायेयम् इत्यादि । इसी प्रकार कहिना दृष्टं साम कालेयम्, इत्यादि भी समझो ॥ २७८ ॥

का०—दृष्टे सामनि जाते च द्विरण् डिद्वा विधीयते ।

त्वयादीकड़ न विद्याया गोत्रादङ्कवदिष्यते ॥ २७९ ॥

सामवेद के देवता अर्थ में अरु प्रत्यय विकल्प करके डित्यंष्टक होते । जैसे—उग्रनसा दृष्टं साम अग्रनसम्, अश्रुनम् । यहाँ डित् पञ्च में द्वि का लोप हो जाता है ।

वया ( तत्र जातः ) इस आगामी प्रकरण में अपने अपवाद का अपवाद होके फिर विधान किया अरु प्रत्यय विकल्प करके डित् होते । जैसे—शतमिष्ठजि जातः शारमिष्ठः, शात्रमिष्ठः । डित् का प्रयोजन यहाँ भी पञ्च में द्वि लोप है । यहाँ शृणिव नद्ववाची प्रातिपदिक से युच्च काल अर्थ में अरण् प्रत्यय होकर उसका अविद्येय अः में लुप्त हो जाता है, पीछे शैषिक जान अर्थ में अरु का वाधक कालवाची से उच्च प्राप्तोऽहा है, फिर उच्च का वाधक ( सन्धिवेला० ) इससे अरण् विधान किया है ।

र्त्यग्रप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ईकक् प्रत्यय होते । जैसे—द्वैतीयीकर तार्तीयीकम् । और विवाचाची र्त्यग्रप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकों से ईकक न होते । जैसे—द्वितीया विद्या; तृतीया विद्या ।

और गोववाची प्रातिपदिकों ने सामवेद के देवते अर्थ में अङ्ग आदि अर्थों में ३ प्रत्यय होने हैं, वे यहाँ भी होते । जैसे—( गोववरगता० ) इस सूत्र से गोववाची शुश्र से अहु अर्थ में उच्च प्रत्यय होता है, वैसे ही यहाँ भी होते । जैसे—गायेण दृष्टं सा गायेणम्; वान्यकम्; ओषधवेन दृष्टं साम शौषधवकम्; कापटवकम् इत्यादि ॥ २७९ ॥

\* इस वार्तिक को कागिछा आदि पुस्तकों में ( अमैर्दक् ) इतना सूचित किया गया है । इस वार्तिक में पृष्ठा शी लिखा है, सो महानाम्य से विनष्ट होने के कारण अवश्य जाना चाहिये ।

**परिवृत्तो रथः ॥ २८० ॥ अ० ४ । २ । ६ ।**

जो परिवृत्त अर्धात् किसी चाम आदि से महा रथ आदि यान अर्थं शाह्य हो, तो दूरीयासमर्थे प्रतिपदिकों से अलग प्रत्यय होवे । जैसे—चर्मला परिवृत्तो रथश्वर्मणः कास्वतः; यात्मः इत्यादि ।

यहाँ 'रथ' का ग्रहण इसलिये किया है कि—चलेण परिवृत्तं शरोरम्, यदां प्रत्यय न होवे ॥ २८० ॥

**कौमाराऽपूर्ववचने ॥ २८१ ॥ अ० ४ । २ । १२ ।**

पूर्व जिसका किसी के साथ विवाहविषयक कथन भी न हुआ हो, उस अपूर्ववचन अर्थ में कुमारी शुद्ध से अलगप्रत्ययान्तर कौमार निपातन किया है ॥ २८१ ॥

**वा०—कौमाराऽपूर्ववचन इत्युभयतः स्त्रिया अपूर्वत्वे ॥ २८२ ॥**

छी का अपूर्ववचन अर्थ हो तो छी और पुलिङ्ग में कौमार शब्द निपातन किया है । जैसे—अपूर्वपतिं कुमारीमुपपन्नः कौमारो भर्ता; अपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपपन्नः कौमारी भार्त्यः ॥ २८२ ॥

**तत्रोद्भृतममत्रेभ्यः ॥ २८३ ॥ अ० ४ । २ । १३ ॥**

उद्भृत अर्थात् रखने अर्थ में समर्मासमर्थे पात्रवाची प्रतिपदिकों से अलग प्रत्यय होवे । जैसे—पञ्चकपालेष्टुद्भृत ओदतः पञ्चकपालः; शरावेष्टुद्भृतः शारावः इत्यादि ।

यहाँ 'पात्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि—पाणुष्टुद्भृत ओदतः; यदां प्रत्यय न होवे ॥ २८३ ॥

**साऽस्मिन् पौर्णमार्त्तिः ॥ २८४ ॥ अ० ४ । २ । २० ॥**

अधिकरण अर्थं शाह्य होवे, तो पौर्णमासी विशेषवाची प्रतिपदिकों से यद्यप्राप्त प्रत्यय होवे । जैसे—पुष्टेण युक्ता पौर्णमासी पौर्णी, पौर्णी पौर्णमासी अस्मिन् मासे स पैथो मासः; पौर्णोऽध्यमासः; पौर्णः संवत्सः । इसी प्रकार मयानक्षेत्रे युक्ता पौर्णमासी मासी, साऽस्मिन्वर्तत इति मात्रो मासः; फालगुनः; चैत्रः; वैशाखः; ज्येष्ठः; आषाढः; आवणः; माद्रगदः; आन्विनः; कर्त्तिकः; मार्गरीयः ।

इस सूत्र में 'इनिकरण' से संबंधित का प्रयोजन सूत्रकार का है ॥ २८४ ॥

इस वाचिक भा प्रयोजन यह है कि प्रत्यय विधान तो कुमारी शब्द से ही होवे, परन्तु प्रत्ययां द्वारा लिङ्ग में रहे । अपूर्ववचन अर्थ का सम्बन्ध कुमारी के साथ ही रहे । जैसे—दूरं जिस का कोई पनि कहने नाकर्त्ता न हुआ हो, ऐसी कुमारी को प्राप्त हुआ पुरुष कौमार, धंर वर्मी ही कुमारी पति को प्राप्त हुई कौमारी ॥

\* यहाँ पञ्चकपाल शब्द में (श्विगोलुंगनपत्ने) इस पूर्वतिष्ठित सूत्र में प्रादील्यर्तीय अन्तपत्न प्रत्यय का दृष्ट दिग्गं संवाद होने से हो जाता है ॥

वा०-साऽस्मिन् पौर्णमासीति संज्ञाग्रहणम् ॥ २८५ ॥

( माऽस्मिन्० ) इस सूत्र में संज्ञाग्रहण करना चाहिये । अर्थात् जहाँ प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से महीनों की संज्ञा प्रकट हो, वहाँ प्रत्यय हावे । और—पार्श्व पौर्णमास्यस्मिन् पञ्चदशरात्रे, यहाँ प्रत्यय न हो ॥ २८५ ॥

आग्रहायण्यश्वत्थाद्वक् ॥ २८६ ॥ अ० ४ । २ । २१ ॥

यद सूत्र पूर्वसूत्र से ग्रात अण का अपवाद है ॥

पौर्णमासी समानाधिकरण आग्रहायणी और अश्वन्थ प्रातिपदिकों से अधिकरण अर्थे में उक्त प्रत्यय होते । जैसे—आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन् मासे स आग्रहायणिको मासः; अद्वमासो वा: आश्वत्थिकः ॥ २८६ ॥

विभाषा फालगुर्नीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः ॥ २८७ ॥ अ० ४ । २ । २२ ॥

पौर्णमासी समानाधिकरण फालगुर्नी श्रवणा X कार्तिकी और चैत्री प्रातिपदिकों से अधिकरण अर्थे में विकल्प करके उक्त प्रत्यय हो, और पक्ष में अण हो जाते । जैसे—फालगुर्नी पौर्णमास्यमिन्द्र मासे स फालगुर्निको मासः; फालगुर्नो मासः; श्रावणिको मासः; श्रावणो मासः; कार्तिकिको मासः; कार्तिको मासः; चैत्रिको मासः; चैत्रो मासः ॥ २८७ ॥

साऽस्य देवता ॥ २८८ ॥ अ० ४ । २ । २३ ॥

ज्ञेयकारक वाच्य हो, तो प्रथमासमर्थे देवताविशेषवाची प्रातिपदिकों से यथायोर्मय प्रत्यय हो । जैसे—प्रजापतिदेवताऽस्य प्राजापत्यमः +; इन्द्रो देवताऽस्य ऐन्द्र हविः, ऐन्द्रो मन्त्रः, ऐन्द्री ऋक् इत्यादि ॥ २८८ ॥

कस्येत् ॥ २८९ ॥ अ० ४ । २ । २४ ॥

यहाँ पूर्वसूत्र से अण प्रत्यय हो ही जाता, फिर इकारादेश होने के लिये यह सूत्र है ।

देवता समानाधिकरण के प्रातिपदिक से अण प्रत्यय और प्रकृति को इकारादेश भी होते । जैसे—को देवताऽस्य कार्यं हविः, कायो मन्त्रः, कायी ऋक् ।

१ कायिका आदि पुस्तकों में संज्ञाग्रहण सूत्र में ही मिला दिया है, सो टीक नहीं है, व्योंकि वार्तिक पढ़ने से । और यहाँ केवट ने भी लिखा है कि—“संज्ञाग्रहणं सूत्रेऽनार्थमिति वार्तिकमेतत्त्वम्” ॥

२ इस सूत्र में अंग्रेजिभाषा इस लिये है कि उक्त कक्षी से ग्रास नहीं, अर्थ प्राप्त है, उनीं का यह अपवाद है ॥

३ न देववाची श्रवणा शब्द से युक्त काल अर्थ में ( संज्ञायां श्रवणा० ४ । २ । २ ) इस सूत्र से प्रत्यय का लुप्त हो जाता है, पौर्णमासी का विशेषण प्रत्ययार्थ बना रहता है ॥

४ यहाँ अर्थु का अधिकार नहीं है, तथाऽपि उसको बाध कर ( दित्यदित्या० ) इस सूत्र में पर्युक्त-प्रतिपदिक से यह प्रत्यय हो जाता है ॥

यहां 'इत् में तपरकरण' तत्काल का बोध होने के लिये है ॥ २८६ ॥

**वायवृतुपित्रुषसो यत् ॥ २६० ॥ अ० ४ । २ । ३० ॥**

प्रथमासमर्थ देवता समानाधिकरण वायु ऋतु पितृ और उषस् प्रानिपदिकों से, पष्ठी के अर्थ में अण् का वाधक यत् प्रत्यय होते । जैसे—वायुदेवता॒स्य वायव्यम्; ऋतव्यम्; पित्र्यम्; उषस्यम् ॥ २६० ॥

**यावापृथिवीशुनासीरमहत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च ॥२६१॥**

अ० ४ । २ । ३१ ॥

यहां यत् की अनुवृत्ति पूर्वसूत्र से चली आती है ।

प्रथमासमर्थ देवता समानाधिकरण वावापृथिवी आदि प्रातिपदिकों से, पष्ठी के अर्थ में छु और यत् प्रत्यय होते । जैसे—यावापृथिवी॑ देवते अस्य वावा॒पृथिवी॑यम्, वावा॒पृथिव्यम्; शुनासीरीयम्, शुनासीरीयम्; महत्वतायम्, महत्वत्यम्; अग्नीषोभीयम्, अग्नी॒षोभ्यम्; वात्तोष्पत्यम्, वास्तोष्पत्यम्; गृहमेधीयम्, गृहमेध्यम् ॥ २६१ ॥

**कालेभ्यो भवत् ॥ २६२ ॥ अ० ४ । २ । ३३ ॥**

( तत्र भवः ) इस अधिकार में जिस कालवाची प्रातिपदिक से जो प्रत्यय ग्रान है, वही यहां देवता समानाधिकरण काल विशेषवाची प्रातिपदिक से होते । जैसे—संबत्सरो॑ देवता॒स्य सांवत्सरिकः, यहां सामान्य कालवाची॑ से उज्ज् है, प्रावृद्॑ देवता॒स्य प्रावृषेणः, यहां यत्; ग्रीष्मो॑ देवता॒स्य ग्रीष्मम्, ग्रीष्म शब्द का उत्सादिकों॑ में पाठ होने से अज्ज् होता है । इत्यादि प्रकरण की योजना करलेनी चाहिये ॥ २६२ ॥

**महाराजप्रोष्टपद॑टुञ् ॥ २६३ ॥ अ० ४ । २ । ३४ ॥**

देवता समानाधिकरण महाराज और प्रोष्टपद शब्दों से पष्ठी के अर्थ में उज्ज् प्रत्यय हो । जैसे—महाराजो॑ देवता॒स्य माहाराजिकम्; प्रोष्टपदिकम् ॥ २६३ ॥

**वा०-ठज्जप्रकरणे तदस्मिन् वर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम् २९४**

काल अधिकरण अभिव्येय होते, तो नवयज्ञादि प्रातिपदिकों से उज्ज् प्रत्यय होते । जैसे—नवयज्ञो॑स्मिन् काले वर्तते नावयज्ञिकः; पाकयज्ञिकः॑ इत्यादि ॥ २९४ ॥

**वा०-पूर्णमासाद॑ण ॥ २६५ ॥**

पूर्व वार्तिक से कालाधिकरण की अनुवृत्ति आती है । कालाधिकरण अर्थ में पूर्णमास प्रातिपदिक से अण् प्रत्यय हो । जैसे—पूर्णमासो॑स्मिन् काले वर्तते इति पौर्णमासी तिथिः, यहां अपने अपवाद उज्ज् को वाध के अण् है ॥ २६५ ॥

**पितृव्यभातुलमातामहपितामहाः ॥२६६॥** अ० ४ । २ । ३५ ॥

आता अर्थे वाच्य हो, तो पितृ और मातृ शब्दों से व्यत् तथा डुलच् प्रत्यय यथासंख्य करके निपातन किये हैं। जैसे—पितुर्भाता पितुव्यः मातुर्भाता मातुलः। पिता का भाई 'पितुव्य' और माता का भाई 'मातुल' कहाता है।

ओर मातृ तथा पितृ प्रातिपदिकों से पिता अर्थ में डामहच् प्रत्यय निपातन किया है। जैसे—मातुः पिता मातामहः; पितुः पिता पितामहः। माता का पिता मातामह=नज्ञा, और पिता का पिता पितामह=दादा कहाते हैं ॥ २६६ ॥

**वा०-मातरि पित्रि ॥ २६७ ॥**

मातृ अर्थे अभियेय होवे, तो पूर्व प्रातिपदिकों से कहा डामहच् प्रत्यय पितृ हो जावे। जैसे—मातुर्माता मातामहीः पितुर्माता पितामही। माता की माता नानी और पिता की माता दादी।

यहाँ 'पितृ' करने का प्रयोजन यह है कि—ख्रीलिङ्ग में डीप् प्रत्यय होजावे ॥२६७॥

**वा०-अवैर्दुर्घ्ये सोढदूसमरीसचः ॥ २६८ ॥**

अवि प्रातिपदिक से दुर्घ्य अर्थ में सोढ दूस और मरीसच् प्रत्यय होवें। जैसे—अवैर्दुर्घ्यमविसोढम्; अविदूसम्; अविमरीसम् ॥ २६८ ॥

**वा०-तिलान्निष्फलात् पिञ्जपेजौ ॥ २६९ ॥**

निष्फल समानाधिकरण तिल प्रातिपदिक से पिञ्ज और पेज प्रत्यय होवें। जैसे—निष्फलं तिलं तिलपिञ्जम्; तिलपेजम् ॥ २६९ ॥

**वा०-पिञ्जश्छन्दसि डिच्च ॥ ३०० ॥**

पूर्वोक्त पिञ्ज प्रत्यय वैदिकप्रयोग विषय में डिच्च होवे। जैसे—तिलपिञ्जं दण्डानतम्। यहाँ डिच्च होने से टिसंज्ञक अकार का लीप हो जाता है ॥ ३०० ॥

**तस्य समूहः ॥ ३०१ ॥** अ० ४ । २ । ३६ ॥

यह अधिकार सूच है। पष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय होवें। जैसे—वनस्पतीर्ना समूहो वानस्पत्यम्; खीणां समूहः खैणम्; पौस्त्रम् इत्यादि ॥३०१॥

**गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद् बुज् ॥३०२॥**

अ० ४ । २ । ३८ ॥

षष्ठीसमर्थ जो गोत्रवाची उक्त उष्टु उरभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य और अज प्रातिपदिक हैं, उन से समूह अर्थ में आण् का वाथक त्रुञ्ज प्रत्यय होते।

जैसे—गुच्छुकायनीनां समूहो ग्लोचुकायनकम्, गार्घ्यकम्; वात्सकम्, गार्घ्यायणकम्<sup>१</sup> इत्यादि। उद्दण्डं समूह ओक्ककम्, ओष्ट्रकम्, ओरभ्रकम्; राजकम्; राजन्यकम्; राजपुत्रकम्; वात्सकम्, मानुष्यकम् +; आजकम् ॥ ३०२ ॥

**वा०—वृद्धाच्च ॥ ३०३ ॥**

वृद्ध शब्द से भी समूह अर्थ में त्रुञ्ज प्रत्यय हो। जैसे—वृद्धानां समूहो वार्द्धकम् ॥ ३०३ ॥

**ब्राह्मणमाणवबाडवायन् ॥ ३०४ ॥ अ० ४ । २ । ४१ ॥**

ब्राह्मण माणव और बाडव प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में यन् प्रत्यय होते। जैसे—ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्; माणव्यम्; बाडव्यम् ॥ ३०४ ॥

**वा०—यन्प्रकरणे पृष्ठादुपसङ्ख्यानम् ॥ ३०५ ॥**

पृष्ठ शब्द से भी यन् प्रत्यय कहना चाहिये। जैसे—पृष्ठानां समूहः पृष्ठश्चम् ॥ ३०५ ॥

**ग्रामजनवन्धुभ्यस्तल् ॥ ३०६ ॥ अ० ४ । २ । ४२ ॥**

समूह अर्थ में ग्राम जन और वन्धु प्रातिपदिकों से तल् प्रत्यय होते। जैसे—ग्रामाणां समूहो ग्रामता, जनता, वन्धुता ॥ ३०६ ॥

**वा०—गजसहायाभ्यां च ॥ ३०७ ॥**

गज और सहाय प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में तल् प्रत्यय होते। जैसे—गजानां समूहो गजता, सहायता ।

इस वार्तिक का सहाय शब्द काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र में मिला दिया है ॥ ३०७ ॥

**वा०—अहुः खः क्रतौ ॥ ३०८ ॥**

यह अर्थ में अहन् प्रातिपदिक से ख प्रत्यय होते। जैसे—अहां समूहोऽहीनः क्रतुः ॥ ३०८ ॥

**वा०—पश्वा णस् ॥ ३०९ ॥**

पश्व प्रातिपदिक से समूह अर्थ में णस् प्रत्यय होते। जैसे—पश्वानां समूहः पाश्वम् ।

\* यहाँ महाभाष्य के प्रमाण से लोक में युधा को भी गोत्र कहते हैं। इसलिये युध प्रत्ययान्त को गोत्र मान के गार्घ्यायण आदि शब्दों से त्रुञ्ज प्रत्यय होता है ॥

+ यहाँ राजन्य और मनुष्य शब्द के यकार का लोप प्राप्त है, सो ( प्रकृत्या के० ) इस वार्तिक से प्रकृतिभाव हो जाने से लोप नहीं होता ॥

गुण प्रत्यय में सित्करण के होने से पदसंज्ञा होकर भसंज्ञा का कार्य उवरणान्त अङ्ग को गुण नहीं होता ॥ ३०६ ॥

**अनुदात्तादेरव् ॥ ३१० ॥ अ० ४ । २ । ४३ ॥**

अनुदात्तादि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में अज् प्रत्यय हो । जैसे—कुमारीणां समूहः कौमारम्; केशोरम्; वाघृटम्; चरणटम्; कपोतानां समूहः कापोतम्; मायूरम् इत्यादि ॥ ३१० ॥

**खण्डिकादिभ्यश्च ॥ ३११ ॥ अ० ४ । २ । ४४ ॥**

खण्डिका आदि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में अज् प्रत्यय हो । जैसे—खण्डिकानां समूहः खण्डिकम्; वाढवम् इत्यादि । यह सूत्र टक् का वाधक है ॥ ३११ ॥

**वा०—अञ्जप्रकरणे चुद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम् ॥ ३१२ ॥**

चुद्रक और मालव ये दोनों शब्द जनपद क्षयियवाची हैं । उनसे उत्पन्न हुए तद्राज-संशक प्रत्यय का लुक् हो जाता है । फिर दोनों का समाहारद्वन्द्व समाप्त होके अन्तो-दात्तस्वर हो जाता है । फिर अनुदात्तादि के होने से अज् प्रत्यय हो ही जाता, फिर गोत्रवाची से ( गोत्रोद्धो० ) इस से बुज् प्रत्यय प्राप्त है, उस का अपवाद अञ्जविधान किया है ।

और यह वार्त्तिक नियमार्थ भी है कि चुद्रकमालव प्रातिपदिक से सेना की संज्ञा अर्थ ही में अज् प्रत्यय होवे, अन्यत्र नहीं । जैसे—क्षीद्रकमालवी सेना । और जहां सेना-संज्ञा न हो, वहां चुद्रकमालवकम्; गोत्रवाची से बुज् प्रत्यय हो जावे ॥ ३१२ ॥

**अचित्तहस्तिधेनोष्टक् ॥ ३१३ ॥ अ० ४ । २ । ४६ ॥**

समूह अर्थ में चित्तवर्जित हस्त और धेनु प्रातिपदिकों से टक् प्रत्यय होवे । जैसे—अपूपानां समूहः आपृष्ठिकम्; शाष्कुलिकम्; साकुकम् इत्यादि । हास्तिकम्; धेनुकम् ॥ ३१३ ॥

**विषयो देशे ॥ ३१४ ॥ अ० ४ । २ । ५१ ॥**

जो यह विषय देश होवे, तो पर्णीसमर्थ प्रातिपदिकों से अण् प्रत्यय हो । जैसे—शिवीनां विषयो देशः श्रीवः; ओप्ट्रः; पाशवः इत्यादि ।

यहां 'देश' ग्रहण इसलिये है कि—देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः, यहां प्रत्यय न हो ॥ ३१४ ॥

\* यहां (प्रातिपदिकप्रहये लिङ्गवित्) इस परिमापा से छालिद्वा हस्तिनी शब्द से भी प्रत्यय होजाता है । जैसे—हस्तिनीनां समूद्रो हास्तिकम् । और (भस्यादेतद्विते) इस वार्तिक से पुंवद्राव होता है ॥

सङ्ग्रामे प्रयोजनयोद्धुभ्यः ॥ ३१५ ॥ अ० ४ । २ । ५५ ॥

संग्राम अर्थ में प्रथमासमर्थे प्रयोजनवाची और योद्धुवाची प्रतिपदिकों से अरण् प्रत्यय हो । जैसे—भद्रा प्रयोजनमस्य संग्रामस्य भाद्रः संग्रामः; सौभद्रः; गौरिमित्रः । योद्धुभ्यः—अहिमाला योद्धारोऽस्य संग्रामस्य स आहिमालः स्यान्दनाऽश्वः; भारतः इत्यादि ।

यहां ‘संग्राम’ का प्रहरण इसलिये है कि—सुभद्रा प्रयोजनमस्य दानस्य, यहां प्रत्यय न होवे । और ‘प्रयोजनयोद्धु’ प्रहरण इसलिये है कि—सुभद्रा प्रेत्काऽस्य संग्रामस्य, यहां भी न हो ॥ ३१५ ॥

तदधीते तद्वेद् ॥ ३१६ ॥ अ० ४ । २ । ५६ ॥

द्वितीयासमर्थे प्रतिपदिकों से अधीत और वेद अर्थात् पढ़ने और जानने अर्थों में अरण् प्रत्यय हो । जैसे—यश्छन्दोऽधीते वेद वा स छान्दसः; व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः; नैरुक्तः; निमित्तानि वेद नैमित्तः; मौहूर्तः इत्यादि ॥ ३१६ ॥

क्रतूकथादिसूत्रान्ताटुक् ॥ ३१७ ॥ अ० ४ । २ । ५७ ॥

यह सूत्र अरण् को वाधक है । क्रतुविशेषवाची उक्त्य आदि और सूत्रान्त प्रातिपदिकों से अधीत और वेद अर्थ में टक् प्रत्यय होवे ।

जैसे—क्रतुवाची—अग्निष्ठोमपर्वतीते वेद वा आग्निष्ठोमिकः; अज्ञमेष्ठमधीते वेद वा आश्वमेष्ठिकः; वाजपेयिकः; राजसूयिकः । उक्त्यादि—उक्त्यं सामगानमधीते वेद वा ओक्तिक्थकः; लोकायतिकः इत्यादि । सूत्रान्त—योगसूत्रमधीते वेद वा योगसूत्रिकः; गौमिलीयसूत्रिकः; श्रोतसूत्रिकः; पाराशरसूत्रिकः इत्यादि ॥ ३१७ ॥

वा०—विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादकल्पादेरिकक् स्मृतः ॥ ३१८ ॥

विद्या लक्षण कल्प और सूत्र ये चार शब्द जिनके अन्त में हों, और कल्प शब्द आदि में न होवे, ऐसे प्रातिपदिकों से पढ़ने और जानने अर्थ में टक् प्रत्यय होवे ।

जैसे—विद्या—वायसविद्यामधीते वेच्चि वा वायसविद्यिकः; सार्वविद्यिकः । लक्षण—गोतम्भणमधीते वेद वा गोतम्भणिकः; आश्वलक्षणिकः । कल्प—पराशरकल्पमधीते वेच्चि वा पाराशरकल्पिकः; मातृकल्पिकः । सूत्र—वार्त्तिकसूत्रमधीते वेद वा वार्त्तिकसूत्रिकः; साङ्ग्रहसूत्रिकः इत्यादि ।

यहां ‘अकल्पादि’ का निपेक्ष इसलिये है कि—कल्पसूत्रमधीते वेद वा काल्पसूत्रः, यहां टक् न हो, किन्तु अरण् प्रत्यय ही हो जावे ॥ ३१८ ॥

\* इस सूत्र में दो वार तत् शब्द का पाठ इसलिये है कि एक शास्त्र को पढ़ रहा और दूसरा पढ़ा दुश्च शास्त्र का वेत्ता, ये दोनों पृथक् २ समझे जावे ॥

## वा०-विद्या चानङ्गक्त्रधर्मत्रिपूर्वा ॥ ३१६ ॥

अङ्ग क्षत्र धर्म और त्रि ये चार शब्द जिसके पूर्व हों, ऐसे विद्या प्रातिपदिक से ठक् प्रत्यय न होवे, किन्तु अलग ही हो जावे । अत्य कोई शब्द पूर्व हो तो विद्या शब्द से ठक् ही हो, यह नियम इस वार्तिक से समझो । जैसे—अङ्गविद्यामधीते वेत्ति वा आङ्गविद्याः; चात्रविद्याः; धार्मविद्याः; त्रैविद्याः ॥ ३१६ ॥

## वा०-आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणभ्यश्च ॥ ३२० ॥

आख्यान आख्यायिका इतिहास और पुराण इन चार के विशेषवाची प्रातिपदिकों से पढ़ने और जानने अर्थ में ठक् प्रत्यय हो ।

जैसे—आख्यान—यवकीतमधीते वेत्ति वा यावकीतिकः; प्रैयङ्गविकः; यायातिकः । आख्यायिका—चासवदत्तामधीते वेद वा वासवदत्तिकः; सौमनोत्तरिकः । इतिहासमधीते वेद वा एतिहासिकः; पौराणिकः इत्यादि ॥ ३२० ॥

## का०-अनुसूर्लद्यलक्षणे सर्वसादेव्विगोश्च लः ।

### इकन् पदोत्तरपदात् शतषष्टेः षिकन् पथः ॥ ३२१ ॥

अनुसूर्लद्य और लक्षण ये तीनों ग्रन्थविशेषों के नाम हैं । इनसे ठक् प्रत्यय हो । जैसे—अनुसूर्लमधीते आनुसूकः, यद्यां ( इसुसु० ) इस सत्र से प्रत्यय को कारादेश हो जाता है । लक्ष्यमधीते वेद वा लाद्यिकः; लाक्षणिकः ।

सर्व और स शब्द जिसके आदि में हों ऐसे द्विगुरुसंब्रक प्रातिपदिक से विहित प्रत्यय का लुक् हो जावे । जैसे—सर्ववेदमधीते वेत्ति वा सर्ववेदः; सर्वतत्त्वः । सर्वार्तिकमधीते वेद वा सर्वार्तिकः; ससङ्ग्रहः ।

पद शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे प्रातिपदिक से इकन् प्रत्यय होवे । जैसे—पूर्वपदमधीते वेद वा पूर्वपदिकः; उत्तरपदिकः ।

पथ शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे शत और षष्ठि प्रातिपदिकों से षिकन् प्रत्यय हो । प्रत्यय में पित्तकरण ल्लिङ्ग में डीप् होने के लिये है । जैसे—शतपथमधीते वेत्ति वा शतपथिकः; शतपथिकी; पष्टिपथिकः; पष्टिपथिकी इत्यादि ॥ ३२१ ॥

## प्रोक्ताल्लुक् ॥ ३२२ ॥ अ० ४ । २ । ६३ ॥

अध्येतु वेदित अर्थ में प्रोक्त प्रत्ययान्त से विहित तद्वितसंब्रक प्रत्यय का लुक् हो जावे । जैसे—पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयमधीते वेद वा पाणिनीयः; पाणिनीया ब्राह्मणी; काशकृत्स्नेन प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी, काशकृत्स्नीं मीमांसामधीते ब्राह्मणी काशकृत्स्ना, यद्यां अनुपसर्जन के न होने से फिर डीप् नहीं होता ॥ ३२२ ॥

**छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ ३२३ ॥ अ० ४ । २ । ६५ ॥**

छन्द और ब्राह्मण ये दोनों प्रोक्तप्रत्ययान्त- अध्येत् वेदित् प्रत्ययार्थचिपयक हों, अर्थात् पढ़ने और जानने अर्थों के विना प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मणों का पृथक् प्रयोग न होवे । जैसे—कठेन प्रोक्तं छन्दोऽधीयते ते कठाः; मौदाः; पैष्पलादाः; आचार्यिनः; वाज्ञनेयिनः । ब्राह्मण—तागिङ्गः भाज्ञविनः; शास्त्रायन्तिनः; ऐतरेयिणः ।

यहां ‘छन्दोब्राह्मण’ ग्रहण इसलिये है कि—पाणिनीयं व्याकरणम्; पंजी कल्पः, यहां तद्विषयता न होवे ॥ ३२३ ॥

**तदस्मिन्नस्तीति देशे तत्त्वान्ति ॥ ३२४ ॥ अ० ४ । २ । ६६ ॥**

यह सूत्र मत्वर्थ प्रत्ययों का अपवाद है । जो देश का नाम होवे, तो अस्ति समानाऽधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जैसे—उदुम्बरा अस्मिन् देशे सन्ति श्रीदुम्बरो देशः; वाल्वजः; पार्वतः ।

यहां ‘तत्त्वाम्’ ग्रहण इसलिये है कि—गोधृमाः सन्त्यस्मिन् देशे, यहां प्रत्यय न होवे ॥ ३२४ ॥

**तेन निर्वृत्तम् ॥ ३२५ ॥ अ० ४ । २ । ६७ ॥**

निर्वृत्त अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवे । जैसे—सहस्रेण निर्वृत्ता साहस्री परिस्ता; कुशाम्बेन निर्वृत्ता कौशाम्बी नगरी ॥ ३२५ ॥

**तस्य निवासः ॥ ३२६ ॥ अ० ४ । २ । ६८ ॥**

जहां निवास देश अर्थ वाच्य हो, वहां पष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जैसे—भ्राजुनावान्निवासो देश आर्जुनावी देशः; शेवः; श्रीदिष्टः; उत्सस्य निवासो देश श्रीत्सः; कौरवः इत्यादि ॥ ३२६ ॥

**अदूरभवश्च ॥ ३२७ ॥ अ० ४ । २ । ६९ ॥**

अदूरभव अर्थात् समीप अर्थ में पष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से अस्त् प्रत्यय हो । जैसे— विदिशाया अदूरभवं वैदिशं नगरम्; हिमवतोऽदूरभवं हैमवतम्; हिमालयस्यादूरभवो देशो हैमालयः इत्यादि ।

इस सूत्र से आगे चारों अर्थों की अनुवृत्ति चलती है, इसी से यह प्रकरण चातुरर्थिक कहाता है ॥ ३२७ ॥

**ओरज् ॥ ३२८ ॥ अ० ४ । २ । ७० ॥**

उक्त चारों अर्थों में पष्टीसमर्थ उवरणान्त प्रातिपदिकों से अज् प्रत्यय हो । जैसे— अरडु—आरडवम्; कक्षतु—काक्षतवम्; कर्कटेलु—कार्कटेलवम्; सूरवः सन्त्यस्मिन् देशे, सूरणां निवासो देशोऽदूरभवो वा रोरवः; परशुगा निर्वृत्तं पारशवम् इत्यादि ॥ ३२८ ॥

बुञ्जराकठजिलसेनिरद्वययकविफजिञ्चककठकोरीहणकृशा-  
श्रश्यकुमुदकाशतुण्डेकाशमसखिसङ्काशवलपक्षकर्णसुतद्वमप्रग-  
दिन्वराहकुमुदादिभ्यः ॥ ३२६ ॥ अ० ४ । २ । ८० ॥

यह सूत्र अल् का अपवाद है। अरीदणादि सब्रह गणस्थ प्रातिपदिकों से पूर्वोक्त चार अर्थों में यथासंख्य करके बुञ्ज आदि सब्रह ( १७ ) प्रत्यय होने हैं। आदि शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ योग होता है।

जैसे—अरीहणादिकों से बुञ्ज—आरीहणकम्; द्रीघणकम्; खंदियणमदूरभवं नगरम् खादिकम्। कृशाश्व आदि से छण्—कार्शाश्वीयम्; आरिष्टीयः। ऋश्य आदि से क—ऋश्यकः; न्यग्रोधिकः; शिरकः। कुमुद आदि से ठच्—कुमुदिकम्; शर्करिकम्; न्यग्रोधिकम्। काश आदि से इल—काशिलम्; वाशिलम्। वण आदि से स—वणसः; नडसः; दुससः। प्रेच आदि से इनि—प्रेत्तीः दलकीः वन्धुकी। अश्म आदि से र—अश्मरः; यूपरः; न्यधरः; मीनरः। सखि आदि से ढव्—साखेयम्; साखिद्वेयम्। सङ्काश आदि से रय—साङ्काश्यम्; काम्पिल्यम्; सामीर्यम्। वल आदि से य—वल्यः; कुल्यम्। पञ्च आदि से फक्—पाक्षायणः; तौपायणः; आएडायनः। कर्ण आदि से फिझ्—कार्णी-यन्तिः; वासिष्टायनिः। मुतह्नम आदि से इच्—सौतह्नमिः; मौनचित्तिः; वैप्रचित्तिः। प्रगदिन् आदि से ज्य—प्रागद्यम्; मारगद्यम्; शारद्यम्। वराह आदि से कक्—वागद्वकम्; पानाशकम्। और कुमुदादिकों से उक् प्रत्यय होते। जैसे—कौमुदिकम्; गौमधिकम् इत्यादि ॥ ३२६ ॥

जनपदे लुप् ॥ ३३० ॥ अ० ४ । २ । ८१ ॥

जहाँ जनपद अर्थात् देश अभिव्यय रहे, वहाँ उक्त चार अर्थों में जो तद्वितसंबंधक प्रत्यय होता है, उस का लुप् हो। जैसे—पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः; कुरवः; मन्याः; अङ्गाः; वङ्गाः; मगधाः; पुराङ् १ + इत्यादि ॥ ३३० ॥

शेषे ॥ ३३१ ॥ अ० ४ । २ । ६२ ॥

यह अधिकार सूत्र है, इस का अधिकार ( तस्येदम् ) इस आगामी सूत्रपर्यन्त जाता है। अपत्य आदि और उक्त चार अर्थों से जो भिन्न अर्थ हैं, सो शेष कहाते हैं।

इस सूत्र से आगे जो २ प्रत्यय विधान करें सो २ शेष अर्थों में जानो। और यह विधिसूत्र भी है। जैसे—चचुपा गृहते चाजुरं रुपम्; आवणः शन्दः दृष्टिप्रिणा दार्पदाः सक्तवः; वितंडवा प्रवर्चते वेतंडिकः; उलूखले चुणेणः ओलूखलो यावकः; आश्वेरहते आश्वो रथः; चतुर्भिरुहते चातुरं शकटम् इत्यादि। यहाँ सर्वत्र यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं ॥ ३३१ ॥

\* यहाँ ( लुपि युक्तव० ) इस सूत्र से व्यक्तिवचन अर्थात् लिङ् और संल्लया प्रवय होने से पूर्व के समान प्रवय लुप के पश्चात् भी रहते हैं ॥

**राष्ट्रावारपाराद् घट्यो ॥ ३३२ ॥ अ० ४ । २ । २३ ॥**

राष्ट्र और अवारपार प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके व और स्व प्रत्यय होवें। जात आदि शेष अर्थों में और उन २ अर्थों में जो २ समर्थविभक्ति हों सो २ सर्वत्र ज्ञाननी चाहिये। जैसे—राष्ट्रे भवो जातो वा राष्ट्रियःः अवारपारीणः ॥ ३३२ ॥

**वा०-विगृहीतादपि ॥ ३३३ ॥**

विगृहीत कहते हैं भिन्न २ को, अर्थात् अवारपार शब्दों से अलग २ भी स्व प्रत्यय हो। जैसे—अवारीणः पारीणः ॥ ३३३ ॥

**वा०-विपरीताच्च ॥ ३३४ ॥**

पर पूर्व और अवार पर हो तो भी समस्त प्रातिपदिक से स्व होवें। जैसे—पारावारीणः ॥ ३३४ ॥

**ग्रामाद्यखण्डी ॥ ३३५ ॥ अ० ४ । २ । ६२ ॥**

जात आदि अर्थों में ग्राम प्रातिपदिक से य और सञ्ज प्रत्यय होवें। जैसे—ग्रामे जातो भवते कीतो लक्ष्यः कुशलो वा ग्राम्यः ग्रामीणः ॥ ३३५ ॥

**दक्षिणापश्चात्पुरस्स्त्यक् ॥ ३३६ ॥ अ० ४ । २ । ६७ ॥**

यह सूत्र दक्षिणा आदि अव्यय शब्दों से त्यप् ग्रात है, उसका वाधक है।

दक्षिणा आदि तीन अव्यय शब्दों से शैर्षिक अर्थों में न्यक् प्रन्यय होवे। जैसे—दक्षिणात्यः पाश्चात्यः पौरस्त्यः ॥ ३३६ ॥

**द्युग्रागपागुद्वप्रतीचो यत् ॥ ३३७ ॥ अ० ४ । २ । १०० ॥**

द्विप्राच् अपाच् उद्वच् और प्रत्यच् प्रातिपदिकों से शेष अर्थों में यत् प्रत्यय हो। जैसे—दिवि भवो दिव्यः प्राग्भवं प्राच्यम् अपाच्यम् उद्वीच्यम् प्रतीच्यम्।

यह सूत्र ग्रह प्रन्यय का अपवाद है। और यहां प्राच् आदि अव्यय शब्दों का ग्रहण नहीं है, किन्तु योगिकों का है। और यहां इनका अव्यय में ग्रहण होता है, वहां आगामी सूत्र से उच्यु और उच्युल प्रत्यय होते हैं। जैसे—प्राक्तनम् प्रत्यक्तनम् इत्यादि ॥ ३३७ ॥

**अव्ययात्यप् ॥ ३३८ ॥ अ० ४ । २ । १०३ ॥**

अव्यय प्रातिपदिकों से शेष अर्थों में न्यप् प्रन्यय होवे। यह भी सूत्र ग्रह आदि अनेक प्रन्ययों का अपवाद है।

यहां महाभाष्यकार ने परिगलन किया है कि अमा इह क तथा तसिल् और ब्रत प्रत्ययान्त इतने ही अव्ययों से त्यप् होवे। जैसे—अमात्यः इहन्यः कत्यः नतस्यः यतस्यः तत्रत्यः अत्रत्यः कुत्रत्य इत्यादि।

यहाँ परिगलन का प्रयोजन यह है कि - औपरिषुःः पौरस्तःः पारस्तः इत्यादि प्रयोगों में त्यक्त होवे ॥ ३३८ ॥

**वा०-त्यच्छेष्टुवे ॥ ३३९ ॥**

नि अव्यय प्रातिपदिक से व्रुत्र अर्थ में त्यक्त प्रत्यय होवे । जैसे—निरन्तरं भवं निः ब्रह्म ॥ ३३९ ॥

**वा०-निसो गते ॥ ३४० ॥**

निस् शब्द से नत अर्थ में त्यक्त प्रत्यय होवे । जैसे—निर्गतो निष्ठ्य ॥ ३४० ॥

**वा०-अरण्यारणः ॥ ३४१ ॥**

अरण्य शब्द से शेष अर्थों में ल प्रत्यय होवे । जैसे—अरण्ये भवा आरण्याः सुमनसः ॥ ३४१ ॥

**वा०-दूरादेत्यः ॥ ३४२ ॥**

दूर प्रातिपदिक से शेष अर्थों में पत्त प्रत्यय हो । जैसे—दूरे लघ्वो दूरेत्यः ॥ ३४२ ॥

**वा०-उत्तरादाहञ् ॥ ३४३ ॥**

उत्तर प्रातिपदिक से शेष अर्थों में आहञ् प्रत्यय हो । जैसे—उत्तरे जात औत्तराहः ॥ ३४३ ॥

**वा०-अव्ययात्यप्याविष्ट्यस्योपसंख्यानं छन्दसि ॥ ३४४ ॥**

आविस् अव्यय प्रातिपदिक से शेष अर्थों में वेदविषय में त्यक्त प्रत्यय हो । जैसे—आविष्ट्यो वर्धते चाहराणु ॥ ३४४ ॥

**वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् ॥ ३४५ ॥ अ० १ । १ । ७३ ॥**

जिस समुदाय के अन्तों के वीच में आदि अच् वृद्धिसंब्रक हो, अर्थात् आकार एकार और ओकार होने, तो वह समुदाय वृद्धिसंब्रक होवे ॥ ३४५ ॥

**वृद्धाच्छः ॥ ३४६ ॥ अ० ४ । २ । ११४ ॥**

यह सूच अलू का वाधक है । शेष अर्थों में वृद्धिसंब्रक प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त अत् आदि प्रत्यय हों । जैसे—शारीयः मारीयः औपगर्वीयः कापटवीयः इत्यादि ।

( अव्ययात्यप्युत्तीरन्प्योत्तरपदाऽः उदीच्यग्रामाच्चाऽः प्रस्योत्तरपदाऽः ) यहाँ इन सूचों से ये प्रत्यय और वृद्धिसंब्रक से हु प्रत्यय दोनों की प्राप्ति है । यहाँ परविप्रतिषेध मान के हु प्रत्यय ही होता है ।

जैसे—आरात् अव्यय शब्द है, उससे छु हुआ तो=ब्रारातीयः । वायसतीर शब्द से अज् और ज्य भी पाते हैं, फिर छु ही होता है । जैसे—वायसतीरीयः । इसी प्रकार रूप्योत्तरपद् माणिरूप्य वृद्ध प्रातिपदिक से परत्व से छु प्राप्त है, उसका भी अपवाद् यकारोपथ होने से (धन्वशेषप्रधान) इससे बुझ होता है । जैसे—माणिरूप्यकः । वाडवकर्प उदीन्यग्राम अन्तोदात्त प्रातिपदिक से छु प्रत्यय परत्व से होता है । जैसे—वाडवकर्पीयः । औलूक कोपथ वृद्ध प्रातिपदिक से पाविप्रतिपेथ करके छु होता है । जैसे—ओलूकीयम् ॥ ३४६ ॥

अब इसके आगे वृद्धसंज्ञा में जो विशेष वार्त्तिक सूत्र हैं, सो लिखते हैं—

**वा०-वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ॥ ३४७ ॥**

जो किसी मनुष्य आदि के नाम हैं, उनकी विकल्प करके वृद्धसंज्ञा होते । जैसे—देवदत्तीयाः; दैवदत्ताः; यज्ञदत्तीयाः; याज्ञदत्ताः इत्यादि ॥ ३४७ ॥

**वा०-गोत्रोत्तरपदस्य च ॥ ३४८ ॥**

गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिक जिनके उत्तरपद में हों, उनकी वृद्धसंज्ञा हो । जैसे—घृतप्रधानो रौढिः घृतरौढिः; तस्य छात्राः घृतरौढीयाः; ओदनप्रधानः पाणिनिरोदनपाणि निस्तस्य छात्रा ओदनपाणीयाः; वृद्धाभीयाः; वृद्धकाशयीयाः इत्यादि ॥ ३४८ ॥

**वा०-जिह्वाकात्यहरितकात्यवर्जम् ॥ ३४९ ॥**

जिह्वाकात्य और हरितकात्य शब्दों की वृद्धसंज्ञा न हो । गोत्र उत्तरपद होने से पूर्ववार्त्तिक से प्राप्त है, उसका निषेध है । जैसे—जिह्वाकाताः; हारितकाताः ॥ ३४९ ॥

**- त्यदादीनि च ॥ ३५० ॥ अ० १ । १ । ७४ ॥**

और त्यद् आदि प्रातिपदिक भी वृद्धसंज्ञक होते हैं । जैसे—त्यदीयम्; यदीयम्; तदीयम्; एतदीयम्; इत्मीयम्; अदसीयम्; त्वदीयम्; मदीयम्; त्वादायनिः; मादायनिः इत्यादि ।

यहां सर्वत्र वृद्धसंज्ञा के होने से छु प्रत्यय हो जाता है ॥ ३५० ॥

**भवतष्टकछसौ ॥ ३५१ ॥ अ० ४ । २ । ११५ ॥**

शेष शब्दों में वृद्धसंज्ञक भवत् प्रातिपदिक से ठक् और छुस् प्रत्यय हों । जैसे—भवत् इदं भावत्कम्; छुस् प्रत्यय में सित्करण पदसंज्ञा के लिये है=भवदीयम् ।

इस भवत् शब्द की त्यादिकों से वृद्धसंज्ञा होके छु प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह बाधक है ॥ ३५१ ॥

**रोपधेतोः प्राचाम् ॥ ३५२ ॥ अ० ४ । २ । १२३ ॥**

शेष अर्थों में प्राणेशवाची रेफोपध और ईकारान्त प्रातिपदिकों से बुज् प्रत्यय हो। जैसे—पाटलिपुत्रकाः; ऐकचककाः। ईकारान्त—काकन्दी=काकन्दकाः; माकन्दी=माकन्दकाः।

यहाँ 'प्राचां' ग्रहण इसलिये है कि—दाचामित्रीयः, यहाँ बुज् प्रत्यय न हो ॥३५२॥

**अवृद्धादपि वहुवचनविषयात् ॥ ३५३ ॥ अ० ४ । २ । १२५ ॥**

शेष अर्थों में वहुवचनविषयक वृद्धसंव्वाराहित जो जनपदवाची और जनपद के अवधिष्ठाची प्रातिपदिकों से बुज् प्रत्यय हो।

[जैसे—] वृद्ध जनपद से—अङ्गाः, वङ्गाः, कलिङ्गाः=आङ्गकः; वाङ्गकः; कालिङ्गकः। अवृद्ध जनपदावधि—अजमीढाः, अजकन्दाः=अजमीढकः; आजकन्दकः। वृद्ध जनपद—दार्ढाः, जाम्याः=दार्ढकः; जाम्यकः। वृद्ध जनपदावधि—कालिङ्गराः, वैकुलिशाः=कालि-ञ्जरकः; वैकुलिशुकः। ३५३॥

**नगरात्कुत्सनप्रावीणयोः ॥ ३५४ ॥ अ० ४ । २ । १२८ ॥**

कुत्सन और प्रावीण अर्थात् निन्दा और प्रशंसारूप शेष अर्थों में नगर प्रातिपदिक से बुज् प्रत्यय हो। [जैसे—] नागरकञ्चीरः; नागरकः प्रवीणः।

'कुत्सन और प्रावीणता' ग्रहण इसलिये है कि—नागरा वाह्यणाः, यहाँ बुज् न हो॥३५४॥

**मद्रवृज्योः कन् ॥ ३५५ ॥ अ० ४ । २ । १३१ ॥**

शेष अर्थों में मद्र और वृजि प्रातिपदिक से कन् प्रत्यय हो। [जैसे—] मद्रेषु जातः मद्रकः; वृजिकः।

यहाँ वहुवचनविषयक अवृद्ध जनपद शब्दों से बुज् प्राप्त है, उस का यह अपवाद है ॥३५५॥

—[इति द्वितीयः पादः ॥ ]

[ अथ तीयः पादः— ]

**युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ॥ ३५६ ॥ अ० ४ । ३ । १ ॥**

शेष अर्थ में युष्मद् और अस्मद् प्रातिपदिकों से खञ्च और चकार से छू प्रत्यय हो, और अन्यतरस्यां ग्रहण से पक्ष में यथाप्राप्त प्रन्यय होते हैं। [जैसे—युष्माकमयं योप्माकीणः; आस्माकीनः; युष्मदीयः; अस्मदीयः; योप्माकः; आस्माकः] ३५६॥

**तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ॥ ३५७ ॥ अ० ४ । ३ । २ ॥**

शेष अर्थों में तस्मिन् नाम खज् और अरण् प्रत्यय परे हो, तो युष्मद् और अस्मद् शब्द के स्थान में यथासंख्य करके युष्माक और अस्माक आदेश हों। जैसे—योष्माकीणः; आस्माकीनः; यौष्माकः; आस्माकः।

यहां ‘खज् और अरण् प्रत्यय के परे’ इसलिये कहा है कि—युष्मदीयः; अस्मदीयः; यहां छ के परे आदेश न हों ॥ ३५७ ॥

**तवकममकारेकवचने ॥ ३५८ ॥ अ० ४ । ३ । ४ ॥**

जो एकवचन अर्थात् एक अर्थ की वाचक विभक्ति तथा अरण् और खज् प्रत्यय परे हों, तो युष्मद् और अस्मद् शब्द को तवक और ममक आदेश हों। जैसे—ताषकीनः; मामकीनः; तावकः; मामकः ॥ ३५८ ॥

**कालादुञ्ज् ॥ ३५९ ॥ अ० ४ । ३ । ११ ॥**

शेष अर्थों में कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से ठज् प्रत्यय होते। जैसे—मासिकः; आर्द्धमासिकः; सांवत्सरिकः इत्यादि ॥ ३५९ ॥

**शाद्वे शोरदः ॥ ३६० ॥ अ० ४ । ३ । १२ ॥**

जो शेष अर्थों में शाद्व अभिधेय रहे, तो शरद् प्रातिपदिक से ठज् प्रत्यय हो। जैसे—शरदि भवं शारदिकम्, जो शाद्व हो। नहीं तो शारदम्, कृतुवाची के होने से अरण् हो जाता है। और यह सूत्र भी अरण् का ही अपवाद है ॥ ३६० ॥

**सन्धिवेलायृतुनक्षत्रेभ्योऽरण् ॥ ३६१ ॥ अ० ४ । ३ । १६ ॥**

शेष अर्थों में सन्धिवेला आदि गण, कृतु और नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से अरण् प्रत्यय हो। जैसे—सन्धिवेलायां लघ्वं सान्धिवेलम्, सान्ध्यम्। कृतु—ग्रैष्मम्; शैशिरम्। नक्षत्र—तैषम्; पौषम्।

यह सूत्र सामान्यकालवाची से ठज् प्राप्त है, उसका अपवाद है ॥ ३६१ ॥

**सायंचिरंप्राहेप्रगेऽव्ययेभ्यप्युठ्युलौ तुट् च + ॥ ३६२ ॥**

**अ० ४ । ३ । २३ ॥**

+ यहां सायं तथा चिरं ये शब्द मकारान्त, और प्राहूये तथा प्रगे ये पृकारान्त निपातन किये हैं। और जो ये अव्यय शब्द समझे जाते, तो इनका पाठ सूत्र में व्यर्थ होते, क्योंकि अव्यय के कहने से हो ई जाता ॥

शेष अर्थों में सायं चिरं प्राहे प्रगे और अवश्य प्रातिपदिकों से टचु और टचुल् प्रत्यय और प्रत्यय को तुट् का आगम भी हो।

दिन का जो अन्त है, उस अर्थ में सायं शब्द है। जैसे—सायं भवं सायन्तनम्; चिरन्तनम्; प्राहे तनम्; प्रगतनम्; दोषातनम्; दिवातनम्; इदानीन्तनम्; अध्यतनम् ॥३६३॥

**वा०—चिरपस्त्परारिभ्यस्तः ॥ ३६३ ॥**

चिर पस्त् और परारि इन रीति अवश्य प्रातिपदिकों से त्वं प्रत्यय होवे। जैसे—चिरक्लम्; परक्लम्; परारिक्लम् ॥ ३६३ ॥

**वा०—प्रगस्य छन्दसि गलोथ्य ॥ ३६४ ॥**

प्रग प्रातिपदिक से वेद में त्वं प्रत्यय और गकार का लोप हो। जैसे—प्रगे भवं प्रलम् ॥३६४॥

**वा०—अग्रादिपश्चाङ्गिमच् ॥ ३६५ ॥**

अग्र आदि और पश्चात् इन प्रातिपदिकों से डिमच् प्रत्यय हो। डित्प्रकरण यहाँ दिलोप होने के लिये हैं।

जैसे—अग्रे जातोऽग्रिमः; आदो जात आदिमः; पश्चात् जातः पश्चिमः ॥ ३६५ ॥

**वा०—अन्ताच्च ॥ ३६६ ॥**

अन्त शब्द से भी डिमच् प्रत्यय हो। जैसे—अन्ते भवोऽन्तिमः ॥ ३६६ ॥

**तत्र जातः ॥ ३६७ ॥ अ० ४ । ३ । २५ ॥**

व आदि प्रत्यय जो सामान्य शेष अर्थों में विधान कर चुके हैं, उनके जात आदि अर्थ दिखाये जाते हैं। और तभ इत्यादि समर्थविभक्ति जाननी चाहिये।

समर्थों में प्रथम सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से जो २ प्रत्यय विधान कर चुके हैं, सो २ जात आदि अर्थों में होते हैं। जैसे—चून्ने जातः चौम्बः; माथुरः; आत्सः; ओदपानः; राष्ट्रियः; अचारपारीणः; श्याकलिकः; प्राम्यः; ग्रामीणः; काञ्चेयकः; श्रीमेयकः इत्यादि ॥ ३६७ ॥

**श्रविष्टाफलगुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखा ५५ पद्मोच-  
हुलाल्लुक् ॥ ३६८ ॥ अ० ४ । ३ । ३५ ॥**

जात आदि अर्थों में श्रविष्टा आदि नक्षत्रवाची शब्दों से विहित तद्वितप्रत्ययों का लुक् हो। [जैसे—] श्रविष्टायां जातः श्रविष्टः; फलगुनः; अनुराधः; स्वातिः; तिष्यः; पुनर्वसुः; हस्तः; विशाखः; आपाहः; बहुलः १ ॥ ३६८ ॥

\* यहाँ पूर्वसूत्र से टचु टचुल् प्रत्यय प्राप्त हैं, उनके अपवाद ये वार्तिक समझने चाहियें ॥

१ यहाँ श्रविष्टा आदि शब्दों से तद्वित प्रत्यय का लुक् होने के पश्चात् (लुक् तद्वितलुकि ११२ ४६) इस मध्य में र्षीप्रत्यय का भी लुक् हो जाता है। किंतु जो ये शब्द र्षीलिङ्ग हों तो वापु होगा। जैसे—श्रविष्टा ॥

**वा०—लुक्प्रकरणे चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसंख्यानम् ॥३६६॥**

जात अर्थे खी अभिघेय हो, तो चित्रा रेवती और रोहिणी शब्दों से विहित प्रत्यय का लुक् होवे । जैसे—चित्रायां जाता कन्या चित्रा; रेवती; रोहिणी \* ॥ ३६६ ॥

**वा०—फलगुन्यघाढाभ्यां टानौ ॥ ३७० ॥**

पूर्व वार्तिक से खीलिङ्ग की अनुवृत्ति आती है ।

फलगुनी और अघाढा नक्षत्रवाची शब्दों से ट और अन् प्रत्यय यथासंख्य करके हो । जैसे—फलगुन्यां जाता कन्या फलगुनी; अघाढा † ॥ ३७० ॥

**वा०—श्रविष्टाघाढाभ्यां छण् ॥ ३७१ ॥**

श्रविष्टा और अघाढा प्रातिपदिकों से छण् प्रत्यय हो । जैसे—श्रविष्टायां जाता; श्राविष्टीयाः; आघाढीयाः ॥ ३७१ ॥

**स्थानान्तगोशालखरशालच्च ॥ ३७२ ॥ अ० ४ । ३ । ३५ ॥**

जात अर्थ में स्थानान्त गोशाल और खरशाल प्रातिपदिकों से विहित जो तद्वित प्रत्यय उसका लुक् हो । जैसे—गोस्थाने जातो गोस्थानः; हस्तिस्थानः; अश्वस्थानः; इत्यादिः गोशालः; खरशालः ।

यहां तद्वितलक् होने के पश्चात् शाला शब्द के खीप्रत्यय का लुक् होता है ॥ ३७२ ॥

**वत्सशालाभिजिदश्वयुक्त्वतभिषजो वा ॥ ३७३ ॥ अ० ४ । ३ । ३६ ॥**

जात अर्थ में वत्सशाला आंदि प्रातिपदिकों से परे जो प्रत्यय, उसका लुक् विकल्प करके होवे । जैसे—वत्सशालायां जातः वत्सशालः; वात्सशालः; अभिजित्, आभिजितः; अश्वयुक्, आश्वयुजः; शतभिषक्, शतभिषजः ॥ ३७३ ॥

**नक्षत्रेभ्यो वहुलम् ॥ ३७४ ॥ अ० ४ । ३ । ३७ ॥**

अन्य नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय हो, उसका वहुल करके लुक् होवे । जैसे—रोहिणा, रोहिणः; मृगशिरा, मर्गशीर्षः ।

वहुलमहण से कहाँ लुक् नहीं भी होता । जैसे—तैषः; पौषः इत्यादि ॥ ३७४ ॥

\* यहां भी पूर्व के समान खीप्रत्यय का लुक् होके चित्रा शब्द से टाप् और रेवती तथा रोहिणी शब्द का गोरादिगण में पाठ होने से ठीप् प्रत्यय हो जाता है ॥

† यहां भी खीप्रत्यय का लुक् पूर्ववत् होके ट प्रत्यय के टिक् होने से फलगुनी शब्द से लीप् और अघाढा शब्द से टाप् होता है ॥

‡ इस सूत्र में प्रात्साप्राप्तविभापा है, क्योंकि वत्सशाला शब्द से किसी सूत्र करके लुक् नहीं पाता, और अभिजित् आंदि नक्षत्रवाचियों से वहुल करके प्राप्त है, उसका विकल्प किया है ॥

कुतलव्यक्तीतकुशलाः ॥ ३७५ ॥ अ० ४ । ३ । ३८ ॥

कृत आदि अर्थों में सब प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। [जैसे—चुम्बे कृतो  
लघ्नः कीर्तो वा कुशलः चौक्षः; माशुरः; राष्ट्रियः इत्यादि] ॥ ३७५ ॥

प्राच्यभावः \* ॥ ३७६ ॥ अ० ४ । ३ । ३९ ॥

बहुधा होने अर्थ में सतमीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। [जैसे—  
चुम्बे प्रायेण भवः चौक्षः; माशुरः; राष्ट्रियः इत्यादि] ॥ ३७६ ॥

सम्भूते ॥ ३७७ ॥ अ० ४ । ३ । ४१ ॥

सम्भव अर्थ में सतमीसमर्थ ड्याप् प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। [जैसे—  
चुम्बे सम्भवति चौक्षः; माशुरः; राष्ट्रियः; ग्राम्यः; ग्रामीणः; शालीयः; मालीयः इत्यादि] ॥ ३७७ ॥

कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ॥ ३७८ ॥ अ० ४ । ३ । ४३ ॥

साधु पुष्प्यत् और पच्यमान अर्थों में कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से यथाविहित  
प्रत्यय हों। [जैसे—हेमन्ते साधुः हेमन्तं बल्मम्; शैशिरमनुलेपनम्; वसन्ते पुष्प्यस्ति  
वासन्त्यः कुन्दलताः; ग्रेष्म्यः; पाटलाः; शरदि पञ्चन्ते शारदाः शालयः; ग्रेष्मा यवाः  
इत्यादि] ॥ ३७८ ॥

उसे च ॥ ३७९ ॥ अ० ४ । ३ । ४४ ॥

उस कहते हैं वोने को, इस अर्थ में सतमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से यथा-  
विहित प्रत्यय होते हैं। [जैसे—हेमन्ते उप्यन्ते हेमन्ता इक्षवः; ग्रीष्मे उप्यन्ते ग्रीष्मा शालयः;  
शारदा यवाः इत्यादि] ॥ ३७९ ॥

आश्वयुज्या बुज् ॥ ३८० ॥ अ० ४ । ३ । ४५ ॥

उस अर्थ में सतमीसमर्थ आश्वयुजी प्रातिपदिक से बुज् प्रत्यय हो।

आश्वयुज् शब्द अस्तिनी नक्षत्र का पर्याय है। उससे युक्तकाल अर्थ में अणु हुआ  
है लीलिङ्ग तिथि का विशेषण है। [जैसे—] आश्वयुज्यासुता आश्वयुजका यवाः॥ ३८०॥

देयमृणे ॥ ३८१ ॥ अ० ४ । ३ । ४७ ॥

अणु देने अर्थ में सतमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों।  
[जैसे—प्रावृष्टि देयमृणं प्रावृष्टेरयम्; वैशाखे देयमृणं वैशाखम्; मासे देयमृणं मासिकम्;  
आर्दमासिकम्; सांवत्सरिकम् इत्यादि।

यहाँ ‘मृण’ ग्रहण इसलिये है कि—मुहूर्ते देयं भोजनम्, यहाँ प्रत्यय न हो॥ ३८१ ॥

\* प्रायमद उसको कहते हैं कि जिसके होने का नियम न हो, बहुधा होता होते॥

**व्याहरति मृगः ॥ ३८२ ॥ अ० ४ । ३ । ५१ ॥**

व्याहरति किया का मृग कर्त्ता बाच्य रहे, तो सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से जिस २ से जो २ प्रत्यय विधान किया हो वही २ होते । जैसे—निशायां व्याहरति मृगः नैशिकः, नैशः, प्रादोषिकः, प्रादोषः \*; सायन्तनः इत्यादि ॥ ३८२ ॥

**तदस्य सोढम् ॥ ३८३ ॥ अ० ४ । ३ । ५२ ॥**

बछु के अर्थ में सोढ समानाधिकरण प्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे—निशाऽध्ययनं सोढमस्य छुञ्चस्य नैशः, नैशिकः, प्रादोषः, प्रादोषिकः, हैमन्तसहचरितं शीतं सोढमस्य हैमन्तः इत्यादि ॥ ३८३ ॥

**तत्र भवः ॥ ३८४ ॥ अ० ४ । ३ । ५३ ॥**

यहां पूर्वसूत्र से ही तत्र ग्रहण की अनुच्छ्रुति चली आती, फिर तत्र ग्रहण करने का प्रयोजन यह है कि कालाधिकार की निवृत्ति हो जावे ।

तत्र अर्थात् वहां हुआ होता वा होगा, इस अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे—स्तु भवः स्तोऽनः; अप्षवपती भव आश्वपतः, औत्सः; दैत्यः; आदित्यः, पृथिव्यां भवः पार्थिवः; वानस्पत्यः; खैणः; पौस्नः; माशुरः; राष्ट्रियः इत्यादि ॥ ३८४ ॥

**दिग्गादिभ्यो यत् ॥ ३८५ ॥ अ० ४ । ३ । ५४ ॥**

भवार्थ में सप्तमीसमर्थ दिश आदि प्रातिपदिकों से यत् प्रत्यय हो । [ जैसे— ] दिशि भवं दिश्यम्; वर्गम्; पूर्यम् इत्यादि । यह सूत्र अणु का वाधक है ॥ ३८५ ॥

**शरीरावयवाच्च ॥ ३८६ ॥ अ० ४ । ३ । ५५ ॥**

शरीर के अवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिकों से भवार्थ में यत् प्रत्यय हो । जैसे— तालुनि भवं तालव्यम्; दन्त्यम्; ओष्ठ्यम्, हृद्यम्; नाभ्यम्; चक्षुष्यम्; नासिक्ष्यम्, पायव्यम्; उपस्थियम् इत्यादि ॥ ३८६ ॥

**अव्ययीभावाच्च ॥ ३८७ ॥ अ० ४ । ३ । ५६ ॥**

सप्तमीसमर्थ अव्ययीभावसंज्ञक प्रातिपदिकों से भवार्थ में इय प्रत्यय हो ॥ ३८७ ॥

**वा०-इयप्रकरणे परिमुक्तादिभ्यु उपसंख्यानम् ॥ ३८८ ॥**

\* यहां (निशाप्रदोषाभ्यां च ॥ अ० ४ । ३ । ४) इस पूर्वेन्द्रियित सूत्र से उप्र प्रत्यय विकल्प से होता है ॥

† इस सूत्र में सहचारोपाधि लीजाती है । वर्णोंकि काल का सहना चया है, उस काल में जो विशेष करके हो उसका सहना ठीक है, जैसे हैमन्त ऋतु में शीत विशेष को सह सके वह हैमन्त कहावे ॥

सुन्न में जो अव्यर्थीभाव प्रातिपदिकों का ग्रहण है, उसका नियम इस वार्त्तिक से किया है कि—परिसुखादि अव्यर्थीभाव प्रातिपदिकों से ही व्य प्रत्यय हो। जैसे—परिसुखं भवं परिसुख्यम्; पार्योऽध्रम्; परिद्वनव्यम्।

यहाँ 'परिसुखादि' का परिणामन् इसलिये है कि—उपकूलं भव औपकूलः; औप-शालः, यहाँ व्य प्रत्यय न होते ॥ ३८८ ॥

**अन्तःपूर्वपदाटठज् ॥ ३८६ ॥ अ० ४ । ३ । ६० ॥**

पूर्ववार्त्तिक से परिसुखादि का नियम होने से अग्र प्राप्त है, उसका वाधक यह सुन्न है।

अन्तर् शब्द जिनके पूर्व हो ऐसे अव्यर्थीभाव प्रातिपदिकों से उभ्र प्रत्यय हो भव श्रीर्थे ॥ जैसे—अन्तवेंश्मनि भवमान्तवेंश्मिकम्; आन्तःसञ्चिकम्; आन्तर्गेहिकम् इत्यादि ॥ ३८८ ॥

**का०—समानस्य तदादेश्च अध्यात्मादिषु चेष्यते ।**

**ऊर्ध्वं दमाच्च देहाच्च लोकोत्तरपदस्य च ॥ ३६० ॥**

समान शब्द से और समान शब्द जिनके आदि में हो उन प्रातिपदिकों से उभ्र प्रत्यय होते। जैसे—समाने भवः सामानिकः। तदादि से—सामानग्रामिकः; सामानदीर्शकः।

तथा अध्यात्मादि प्रातिपदिकों से भी उभ्र प्रत्यय होता चाहिये। जैसे—अध्यात्मनि भवमाध्यात्मिकम्; आधिदेविकम्; आधिप्रीतिकम्।

मकारान्त ऊर्ध्वम् शब्द जिनके पूर्व हो, ऐसे दम और वेह प्रातिपदिकों से उभ्र प्रत्यय हो। जैसे—ऊर्ध्वं दमे भवमौर्ध्वद्विकम्; और्ध्वदेहिकम्।

और लोक शब्द जिन के उत्तरपद में हो, उन प्रातिपदिकों से भी उभ्र प्रत्यय हो। जैसे—इह लोके भवमैहलौकिकम्; पारलौकिकम्।

अधिदेव, अधिभूत, इहलोक और परलोक ये चार शब्द अनुशतिकादि गण में पढ़े हैं, इससे उभयपदवृद्धि होती है ॥ ३६० ॥

**का०—मुखपार्श्वतसोरीयः कुरजनस्य परस्य च ।**

**ईयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मीयौ प्रत्ययौ तथा ॥ ३६१ ॥**

तस्मि प्रत्ययान्त मुख और पार्श्व प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय होते। छ के स्थान में ईय आयें हो जाता, किर ईय पाद पूर्ण होने के लिये कहा है। जैसे—मुखतो भवं मुख-तीयम्; पार्श्वतीयम् ॥ १ ॥

उन और पर प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय और प्रातिपदिकों को कुक् का आगम भी होते। जैसे—जने भवो जनकीयः; परकीयः।

\* यहाँ भवंजा होने से तस्मि अव्यय के दिमाग का लोप हुआ है ॥

मध्य प्रातिपदिक से ईय मण् और मीय प्रत्यय होवें। जैसे—मध्ये भवो मध्यीयः, माध्यमः, मध्यमीयः \* ॥ ३६१ ॥

**का०—मध्यो मध्यं दिनण् चास्मात्स्थान्नो लुगजिनात्तथा ।**

**बाह्यो दै॒ठ्यः पा॒ञ्चजन्योऽथ गम्भीराञ्ज्य इष्यते ॥३६२॥**

मध्य शब्द को “मध्यम्” ऐसा मकारान्त आदेश और उससे दिनण् प्रत्यय हो। जैसे—माध्यन्दिन उपगायति ।

स्यामन् और अजिन शब्द जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिकों से विहित प्रत्यय का लुक् हो। जैसे—अश्वस्थामनि भवोऽश्वत्थामा । इस शब्द में पृष्ठोदरादि से सकार को तकार हो जाता है। अजिनान्त से—कृष्णाजिने भवः कृष्णाजिनः; उष्ट्राजिनः; सिंहाजिनः; व्याघ्राजिनः इत्यादि ।

जैसे—गम्भीर शब्द से ऊँ प्रत्यय होता है, वैसे बाह्य, दै॒ठ्य और पा॒ञ्चजन्य इन तीन शब्दों में भी ऊँ ज्य जानो। वहिस शब्द के टिभाग का लोप हो जाता है ॥ ३६२ ॥

**जिह्वामूलाङ्गुलेष्ठः ॥ ३६३ ॥ अ० ४ । ३ । ६२ ॥**

यह शरीरावयव से यत् प्राप्त है, उसका बाधक है।

भवार्थ में जिह्वामूल और अङ्गुलि प्रातिपदिकों से छु प्रत्यय हो। जैसे—जिह्वामूले भवं जिह्वामूलीर्यं स्थानम्; अङ्गुलीयः ॥ ३६३ ॥

**वर्गान्ताच्च ॥ ३६४ ॥ अ० ४ । ३ । ६३ ॥**

भवार्थ में वर्गान्त प्रातिपदिकों से छु प्रत्यय हो : [ जैसे— ] कवर्गे भवो वर्णः; कवर्गीयः; चवर्गीयः; पवर्गीयः इत्यादि ॥ ३६४ ॥

**तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनान्नः ॥३६५॥ अ० ४।३।६४॥**

पष्टी और सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—तिङ्गं व्याख्यानो ग्रन्थस्तैङ्गः; सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः सौपः; छैणः; ताद्वितः; सुप्तु भवं सौपम्; तैङ्गम्; कार्त्तम् ।

यहाँ ‘व्याख्यातव्यनाम’ ग्रहण इसलिये है कि—पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानम्, यहाँ प्रत्यय न होवे ॥ ३६५ ॥

**बहूचोऽन्तोदात्ताट्ठञ् ॥ ३६६ ॥ अ० ४ । ३ । ६७ ॥**

व्याख्यान और भव अर्थ में पष्टी और सप्तमीसमर्थ बहूच् अन्तोदात्त प्रातिपदिकों से ऊँ प्रत्यय हो। जैसे—पात्वणत्विकः, नातानतिकम्; सामासिकः ।

\* गहादिगण्य में पृथकी मध्य शब्द के स्थान में मध्यम आदेश और छु प्रत्यय होके भी मध्यमीय शब्द साधा है, इससे अर्थमेद जानो शब्दमेद तो नहीं है ॥

यहां 'बद्धचू' ग्रहण इसलिये है कि—सौपम्; तैङ्गम्। और 'आन्तोदाच्च' इसलिये कहा है कि—सांहितः। यहां संहिता शब्द गतिस्वर से आयुदाच्च है, इसलिये ठज् न हुआ ॥ ३६६ ॥

द्वथजृद्वन्नाह्यरणार्चप्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताटठक् ॥ ३६७ ॥

अ० ४ । ३ । ७२ ॥

भव और व्याख्यान अर्थों में ध्यू ऋषिर्णान्त वाहण ऋक् प्रथम ऋच्वर पुरश्चरण नाम और आख्यात ये जो व्याख्यातव्यनाम प्रातिपदिक हैं, उनसे ठक् प्रत्यय हो ।

जैसे—वेदस्य व्याख्यानो ग्रन्थो वैदिकः; इष्टेव्याख्यानः ऐष्टिकः; पाशुर्कः। ऋत्—चातुर्वृहत्कः; पाञ्चवृहत्कः; व्राह्मणिकः; आर्चिकः; प्राश्यमिकः; आध्वरिकः; पौरश्चरणिकः ॥ ३६७ ॥

वा०—नामाख्यातग्रहणं सङ्घातविगृहीतार्थम् ॥ ३९८ ॥

इस सूत्र में नाम और आख्यात शब्दों का ग्रहण इसलिये है कि जिससे समस्त शब्द से भी ठक् होजावे। जैसे—नामिकः; आख्यातिकः; नामाख्यातिकः ॥ ३६८ ॥

तत आगतः ॥ ३६६ ॥ अ० ४ । ३ । ७४ ॥

आगमन अर्थ में पञ्चमीसमर्थ डंगाप् प्रातिपदिकों से यथाधित प्रत्यय हों। जैसे—चुञ्जादागतः स्त्रीघनः; माथुरः; राष्ट्रियः इत्यादि ॥ ३६६ ॥

विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुज् ॥ ४०० ॥ अ० ४ । ३ । ७७ ॥

आगमन अर्थ में पञ्चमीसमर्थ विद्यासम्बन्ध और योनिसम्बन्धवाची प्रातिपदिकों से बुज् प्रत्यय हो ।

जैसे—विद्यासम्बन्ध—उपाध्यायादागतं धनमीपाध्यायकम्; शैष्यकम्; आचार्यकम्। योनिसम्बन्ध—पैतामहकम्; मातामहकम्; मातुलकम्; श्वाशुरकम् इत्यादि ॥ ४०० ॥

कृतपृज् ॥ ४०१ ॥ अ० ४ । ३ । ७८ ॥

पञ्चमीसमर्थ ऋकागान्त विद्यासम्बन्ध और योनिसम्बन्धवाची प्रातिपदिकों से आगत अर्थ में ठज् प्रत्यय हो । जैसे—विद्यासम्बन्ध—होतुरागतः पुरुयो होतृकः; पैतृकम्। योनिसम्बन्ध—भ्रातृकम्; स्वासृकम्; मातृकम्।

ऋकागान्त बृद्धप्रातिपदिकों से भी परविप्रतिपेध मान के छु प्रत्यय को बाध के ठज् ही होता है। जैसे—शास्तुरागतं शास्त्रकम् इत्यादि ॥ ४०१ ॥

**पितुर्यच्च ॥ ४०२ ॥ अ० ४ । ३ । ७६ ॥**

आगत अर्थ में पितु ग्रातिपदिक से यत् और उन् प्रत्यय हो। जैसे—पितुरागतं पित्यम्, पैतृकम् ॥ ४०२ः॥

**गोत्रादङ्कवत् ॥ ४०३ ॥ अ० ४ । ३ । ८० ॥**

गोत्रप्रत्ययान्तं ग्रातिपदिकों से अङ्कवत् अर्थात् जैसे—अङ्क अर्थ में औपगवानामङ्कः औपगवकः; कापटवकः; नाडायनकः; चारायणकः इत्यादि में तुञ्च् प्रत्यय होता है, ऐसे ही औपगवेभ्य आगतम् औपगवकम्; कापटवकम्; नाडायनकम्; चारायणकम् इत्यादि में भी तुञ्च् होते ॥ ४०३ ॥

**हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ॥ ४०४ ॥ अ० ४ । ३ । ८१ ॥**

आगत अर्थ में हेतु और मनुष्यवाची ग्रातिपदिकों से विकल्प करके रूप्य प्रत्यय हो। जैसे—गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्, पक्ष में गच्छम्; समादागतं समरूप्यम्, समीयम्; विपरमरूप्यम्, विपरीयम्। मनुष्य—देवदत्तरूप्यम्, देवदत्तीयम्, देवदत्तम्; यज्ञदत्तरूप्यम्, यज्ञदत्तीयम्, यज्ञदत्तम् ॥ ४०४ ॥

**मयद् च ॥ ४०५ ॥ अ० ४ । ३ । ८२ ॥**

आगत अर्थ में हेतु और मनुष्यवाची ग्रातिपदिकों से मयद् प्रत्यय हो। जैसे—सममयम्; विपरममयम्; देवदत्तमयम्; यज्ञदत्तमयम् ।

टकार ढीप् होने के लिये है—सममयी ॥ ४०५ ॥

**प्रभवति ॥ ४०६ ॥ अ० ४ । ३ । ८३ ॥**

उससे जो उत्पन्न होता है, उस अर्थ में पञ्चमीसमर्थे शब्दों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा; दारदी सिन्धुः ॥ ४०६ ॥

**विदूराञ्जयः ॥ ४०७ ॥ अ० ४ । ३ । ८४ ॥**

पूर्वोक्त अर्थ में विदूर ग्रातिपदिक से ज्य प्रत्यय हो। जैसे—विदूरात्प्रभवति वैदूर्यो मणिः ॥ ४०७ ॥

**का०—वालवायो विदूरं वा प्रकृत्यन्तरसेव वा ।**

**न वै तत्रेति चेद् वृयाजित्वरीवदुपाचरेत् ॥ ४०८ ॥**

लोक में जिस मणि को वैदूर्य कहते हैं, वह वालवाय नामक पर्वत से उत्पन्न होता । विदूर शुद्ध नगर और पर्वत दोनों का नाम है। परन्तु विदूर नगर में उस मणि का

संस्कार किया जाता है। इसलिये यह विचार करना चाहिये कि विदूर शब्द से प्रभव अर्थ में प्रत्यय क्यों होता है? वैदुर्यमणि तो वालवाय पर्वत से उत्पन्न होता है।

इसका समाधान यह है कि—वालवाय शब्द के स्थान में विदूर आदेश जानो, अथवा वालवाय का पर्यायवाची विदूर शब्द भी है।

अब सन्देह यह रहा कि वालवाय पर्वत के समीप रहनेवाले वालवाय को विदूर नहीं कहते, फिर पर्यायवाची क्यों कर हो सकता है?

इसका समाधान यह है कि—जैसे वाराणसी को वैश्य लोग ‘जिन्वरी’ कहते हैं, वैसे ही वैयाकरण लोग परम्परा से वालवाय को विदूर कहते चले आये हैं ॥ ८०८ ॥

**तद्वच्छति पथिदूतयोः ॥ ८०६ ॥ अ० ४ । ३ । ८५ ॥**

‘उसको जाता है’ इस अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों, जो गच्छति किया के पन्था और दूत कर्त्ता वाच्य हों तो।

जैसे—चुन्नं गच्छति सौम्नः पन्था दूतो वा: माशुरः; पाठशालां गच्छति पन्था दूतो वा पाठशालीयः \* इत्यादि ॥ ८०६ ॥

**अभिनिष्कामति द्वारम् ॥ ८१० ॥ अ० ४ । ३ । ८६ ॥**

जो अभिनिष्कामति किया का द्वार कर्त्ता वाच्य रहे, तो द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—चुम्भमभिनिष्कामति द्वारं चौम्नम्; माशुरम्; राष्ट्रियम्; वाराणसीमभिनिष्कामति वाराणसेयम्; ऐन्द्रप्रस्थम्; लावपुरम् इत्यादि।

यहाँ द्वार प्रहण इसलिये है कि—मयुरामभिनिष्कामति पुरुषः, यद्यां प्रत्यय न हो ॥ ८१० ॥

**अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ॥ ८११ ॥ अ० ४ । ३ । ८७ ॥**

जिस वियय को लेके ग्रन्थ रचा जावे, उस अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—सुभद्रामधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सौभद्रः; गोरिमित्रः; वायातः; शरीरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः शारीरः; वर्णश्रीमधिकृत्य कृतो ग्रन्थो वार्णश्रीमः; कारकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः कारकीयः इत्यादि ॥ ८११ ॥

**सोस्य निवासः ॥ ८१२ ॥ अ० ४ । ३ । ८६ ॥**

‘यह इसका निवासस्थान है,’ इस अर्थ में प्रथमासमर्थ छ्याए प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—चुम्भो निवासोऽस्य पुरुषस्य स चौम्नः; माशुरः; राष्ट्रियः; वाराणसी निवासोऽस्य वाराणसेयः; ग्राम्यः; ग्रामीणः ॥ ८१२ ॥

\* वाराणसी गच्छति पन्था दूतो वा वाराणसेयः। वाराणसी शब्द का नशादिगण में पाठ होने से डृष्ट प्रत्यय हो जाता है।

अभिजनश्च । ॥ ४१३ ॥ अ० ४ । ३ । ६० ॥

‘वह इसका उत्पत्तिस्थान है,’ इस अर्थ में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। [ जैसे— ] चुम्बोऽभिजनोऽस्य स्त्रीः; मायुरः; राष्ट्रियः; इन्द्रप्रस्थोऽभिजनोऽस्य ऐन्द्रप्रस्थः; ग्राम्यः; ग्रामीणः ॥ ४१३ ॥

आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ॥ ४१४ ॥ अ० ४ । ३ । ६१ ॥

आयुधजीवि अर्थात् शब्दात्वविद्या से जीविका करनेवारे वाच्य रहें, तो प्रथमासमर्थ पर्वतवाची प्रातिपदिकों से अभिजन अर्थ में छु प्रत्यय होवे। जैसे—हृगोलः पर्वतोऽभिजन एवां ते हृगोलीया आयुधजीविनः; रैषतकीयाः; वालवायीयाः इत्यादि ।

यहां ‘आयुधजीवियो’ का ग्रहण इसलिये है कि—ऋक्षोदः पर्वतोऽभिजनमेयामाच्छोदा व्याहणाः । और ‘पर्वत’ ग्रहण इसलिये है कि—साङ्काश्यमभिजनमेषां ते साङ्काश्यका आयुधजीविनः, यहां छु प्रत्यय न होवे ॥ ४१४ ॥

भक्तिः ॥ ४१५ ॥ अ० ४ । ३ । ६५ ॥

भक्तिसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से पंची के अर्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय हों। जैसे—ग्रामो भक्तिरस्य ग्रामेयकः; ग्राम्यः; ग्रामीणः; राष्ट्रियः; मायुरः इत्यादि ॥ ४१५ ॥

अचित्ताददेशकालाद्ठक् ॥ ४१६ ॥ अ० ४ । ३ । ९६ ॥

‘कह इसका सेवनीय है’, इस अर्थ में प्रथमासमर्थ जो देश और काल को छोड़ के अचेतनवाची प्रातिपदिक हैं, उनसे ठक् प्रत्यय हो। जैसे—अपूरा भक्तिरस्य आपूर्पिकः शास्कुलिकः; पायसिकः; साकुकः ।

यहां ‘अचित्त’ ग्रहण इसलिये है कि—देवदत्तः। ‘अदेश’ इसलिये है कि—स्त्रीः। और ‘अकाल’ इसलिये है कि—ग्रैष्मः, यहां भी ठक् न हो ॥ ४१६ ॥

जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां वहुवचने ॥ ४१७ ॥

अ० ४ । ३ । १०० ॥

वहुवचन में जनपद नाम देशवाची शब्दों के तुल्य जो जनपदि अर्थात् देश के सामने क्षत्रियवाची शब्द हैं, उनको जनपदवत् नाम ( जनपदतदवध्योश्च ) इस प्रकरण में जो प्रत्यय विद्यान कर चुके हैं, वे ही प्रत्यय भक्तिसमानाधिकरण उन क्षत्रियवाची शब्दों से यहां होवें। जैसे—अज्ञा जनपदो भक्तिरस्य स आङ्गकः; वाङ्गकः; सोङ्गकः इत्यादि ।

जिवास और अभिजन में इतना मेंद है कि जहां वर्तमानकाज में रहते हों उसको जिवास, और जहां पिता दादे आदि कुटुम्ब के पुरुष रहे हों उसको अभिजन कहते हैं ॥

‘जनपदीं क्वचियों का ग्रहण इसलिये है कि—पञ्चाला ब्राह्मणा भक्तिरस्य स पञ्चालः; यद्वां तु न हो। ‘सर्वं’ शब्द का ग्रहण इसलिये है कि—प्रकृति भी जनपद के समान हो जावे। जैसे—मद्राणां वृजीणां वा राजा माद्रः; वार्यः; माद्रो भक्तिरस्य स मद्रकः; वृजिकः। (मद्रवृज्योःकन्) इससे कन् प्रत्यय प्रकृति को हस्त होने से होता है ॥४१७॥

**तेन प्रोक्तम् ॥ ४१८ ॥ अ० ४ । ३ । १०१ ॥**

‘उसने जो कहा’ इस अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—उत्सेन प्रोक्तमोत्सम्; वैत्यम्; आदित्यम्; प्रजापतिना प्रोक्तं प्रजापत्यम्; ख्यिया प्रोक्तं लैणम्; पांस्तम्; पाणिनिना प्रोक्तं व्याकरणं पाणिनीयम्; काशकृत्तन्म; काणादम्; गीतमम् इत्यादि ॥ ४१८ ॥

**पुराणप्रोक्तेषु ब्रह्मणकल्पेषु ॥ ४१९ ॥ अ० ४ । ३ । १०५ ॥**

प्रोक्त अर्थ में जो प्राचीन लोगों के कहे ब्राह्मण और कल्प वाच्य हों, तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से खिनि प्रत्यय हो।

जैसे—पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना भज्ञत्रेन प्रोक्ता भास्त्रविनः; शास्त्रायनिनः; एतरेविणः। कल्पों में—पैद्वी कल्पः; आरुणपराजी कल्पः इत्यादि ॥ ४१९ ॥

**वा०—याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ ४२० ॥**

याज्ञवल्क्य आदि शब्दों से खिनि प्रत्यय न होवे, पुराणप्रोक्त होने से प्राप्त है। [ जैसे— ] याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्यानि; सौलभानि इत्यादि, यहां अण् प्रत्यय होता है।

काशिकाकार जयादित्य आदि लोग इसको नहीं समझे। इसीलिये यह लिखा है कि याज्ञवल्क्यादि ब्राह्मण पुराणप्रोक्त नहीं, किन्तु पीड़े वने हैं। सो महाभाष्य के विरुद्ध होने से मिथ्या समझना चाहिये ॥ ४२० ॥

**तेनैकदिक् ॥ ४२१ ॥ अ० ४ । ३ । ११२ ॥**

एकदिक् नाम तुल्यदिक् अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—वृक्षेणैकदिक् वार्यः; वाराणस्या एकदिक् वाराणसेयो ग्रामः; सुदाम्नैकदिक् सौदामनी विद्युतः; हिमवतैकदिक् हैमवती इत्यादि ॥ ४२१ ॥

**तस्मिथ ॥ ४२२ ॥ अ० ४ । ३ । ११३ ॥**

एकदिक् अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से तसि प्रत्यय भी हो।

तसि प्रत्यय की अव्ययसंज्ञा जाननी, खरादिगण में पाठ होने से। [ जैसे— ] नासिकया एकदिक् नासिकातः; सुदामतः; हिमवत्तः; पीलुमूलतः इत्यादि ॥ ४२२ ॥

उरसो यच्च ॥ ४२३ ॥ अ० ४ । ३ । ११४ ॥

तैनैकदिक् इस विषय में उरस् प्रातिपदिक से यत् और चकार से तसि प्रत्यय भी हो । जैसे—उरसा एकदिक् उरस्यः; उरस्तः ॥ ४२३ ॥

उपज्ञाते ॥ ४२४ ॥ अ० ४ । ३ । ११५ ॥

उपज्ञात अर्थ में हृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे—पाणिनिनोपज्ञातं पाणिनीयं व्याकरणम्; पातञ्जलं योगशास्त्रम्; काशकृत्स्नम्; गुरुलाघवम्; आपशलम् ।

जो अपने आप जाना जाय उसको 'उपज्ञात' कहते हैं, अर्थात् विद्यमान वस्तु को जानना चाहिये ॥ ४२४ ॥

कृते ग्रन्थे ॥ ४२५ ॥ अ० ४ । ३ । ११६ ॥

'जो किया जावे, सो ग्रन्थ होवे तो', इस अर्थ में हृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हो । जैसे—वररुचिना कृताः वारुचाः श्लोकाः; मानवो ग्रन्थः; भार्गवो ग्रन्थः ।

यहां 'ग्रन्थ' ग्रहण इसलिये है कि—कुलालकृतो शटः, यदां प्रत्यय न हो ॥ ४२५ ॥

तस्येदम् ॥ ४२६ ॥ अ० ४ । ३ । १२० ॥

'उसका यह है', इस अर्थ में पष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे—वर्तस्पतेरयं दण्डो वानस्पत्यः; राहः कुमारी राजकीया, राजकीयो भूत्यः; यदां (राहः क च) इससे ककारादेश हो जाता है; उपगोरिदम् ओपगाक्षम्; कापटवम्; राधियम्; अवारपारीणम्; देवस्येद् दैवम्, दैव्यम् इत्यादि ॥ ४२६ ॥

वा०—वहेस्तुरणिट् च ॥ ४२७ ॥

वृच् प्रत्ययान्त वद धातु से अण् प्रत्यय और प्रत्यय को इट् का आगम भी हो । जैसे—संघोदुः स्वं सांवहित्रम् ॥ ४२७ ॥

वा०—अग्नीधः शरणे रज् भ च ॥ ४२८ ॥

शरण नाम घर अर्थ में, अग्नीध प्रातिपदिक से रज् प्रत्यय और प्रत्यय के परे पूर्व की भसंडा भी जाननी चाहिये । जैसे—आग्नीधः शरणम् आग्नीधम् ॥ ४२८ ॥

वा०—समिधामाधाने षेण्यण् ॥ ४२९ ॥

समिध् प्रातिपदिक से आधान पष्टी का अर्थ होवे, तो षेण्यण् प्रत्यय होवे । यित् करण ऊप् प्रत्यय होने के लिये है । [ जैसे— ] सामिधेन्यो मन्त्रः, सामिधेनी ऋक् ॥ ४२९ ॥

द्वन्द्वाद् बुन् वैरमैथुनिकयोः ॥ ४३० ॥ अ० ४ । ३ । १२३ ॥

जिन द का परस्पर वैर और योनिसम्बन्ध हो, उनके बाची द्वन्द्वसमाप्त किये प्रातिपदिकों से बुन् प्रत्यय हो सार्थ में । [ जैसे— ] वैरद्वन्द्व से—अहिनकुलिका, बुद्ध प्रातिपदिकों से भी परत्व से बुन् होता है । जैसे—काकोलकिका; श्वावराहिका । मैथुनिकद्वन्द्व से—गर्णकुशिकिका; अविभरद्वाजिका इत्यादि ।

यहां लिंगानुशासन की रीति से नित्य व्रालिंग होता है ॥ ४३० ॥

वा०—वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ ४३१ ॥

वैर अर्थ में देवासुर आदि प्रातिपदिकों से बुन् प्रत्यय न हो, किन्तु अण् ही होते । जैसे—देवासुरम्; राज्ञोऽसुरम् इत्यादि ॥ ४३१ ॥

गोत्रचरणाद् बुज् ॥ ४३२ ॥ अ० ४ । ३ । १२४ ॥

गोत्रवाची और चरणवाची प्रातिपदिकों से बुज् प्रत्यय होते ॥ ४३२ ॥

वा०—चरणाद्वर्मस्त्रिययोः ॥ ४३३ ॥

गोत्रवाचियों से सामान्य पष्टी के अर्थ में और चरणवाचियों से धर्म तथा आन्नाय विशेष अर्थों में बुज् प्रत्यय समझो । जैसे—गोत्र से—गुच्छकायनेरिदं ग्लोच्छकायनकम्; वृद्धप्रातिपदिकों से भी परत्व से बुज् ही होता है । जैसे—गर्णकम्; वात्सकम् इत्यादि । चरणवाचियों से—कठार्ण धर्म आन्नायो वा काठकम्; मौदकम्; पैष्पलादकम्; काला-पक्षम् इत्यादि ।

अधिकार होने से अण् पाता है, उसका यह धाधक है ॥ ४३३ ॥

सङ्घाङ्कलक्षणेष्वज्यजिजामण् ॥ ४३४ ॥ अ० ४ । ३ । १२५ ॥

पूर्व सूत्र से बुज् प्रत्यय प्राप्त है; उसका यह अपवाद् है ।

अञ्जन्त यजन्त और इञ्जन्त पष्टीसमर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य अर्थों में अण् प्रत्यय होते । जैसे—विदानं सङ्घोऽङ्को लक्षणं वा वैदः; और्वः । यजन्त से—गर्णाणं सङ्घोऽङ्को लक्षणं वा गर्णः; वात्सः । इञ्जन्त से—दाक्षः; स्त्राक्षः ॥ ४३४ ॥

वा०—सङ्घादिषु घोषग्रहणम् ॥ ४३५ ॥

सङ्घ आदि अर्थों में जो प्रत्यय कहे हैं, वे घोष अर्थ में भी उन्हीं प्रातिपदिकों से होते । जैसे—गर्णो घोषः; वात्सो घोषः; दाक्षः; स्त्राक्षो वा इत्यादि ॥ ४३५ ॥

शकलाद्वा ॥ ४३६ ॥ अ० ४ । ३ । १२८ ॥

इस सूत्र में प्राप्तिभाषा। इसलिये समझना चाहिये कि शकल शब्द गर्गादिगण में पढ़ा है, उसके यज्ञन्त होने से पूर्व सूत्र से नित्य अण प्राप्त है, उसका विकल्प किया है।

पष्टीसमर्थं गोव्रप्रत्ययान्तं शकलं प्रातिपदिकं से विकल्पं करके अण् प्रत्यय होवे, और पक्ष में गोव्रवाची से बुज् समझना चाहिये। [ जैसे— ] शाकल्यस्य सङ्घोऽङ्गो लक्षणं घोषो वेति शाकलः, शाकलकः ।

इस सूत्र पर काथिका और सिद्धान्तकीमुदी रचने वाले लोग कहते हैं कि ( शाकलाद्वा ) ऐसा सूत्र होना चाहिये। वे लोग शकल शब्द से प्रोक्त अर्थ में अण् करके इस शकल शब्द को चरणवाची मानते और संघादि अर्थों में निर्वचन करके प्रत्यय करते हैं, सो यह उन लोगों का अर्थ मिथ्या है। क्योंकि जो ( शाकलाद्वा ) ऐसा सूत्र मानें तो शकल प्रातिपदिक चरणवाची हुआ, फिर उससे संघादि अर्थों में कैसे प्रत्यय होगा, यह कथन पूर्वापर विरुद्ध है। क्योंकि चरणवाचियों से धर्म और आमाप अर्थ में प्रत्यय कहे हैं। और महाभाष्य से भी विरुद्ध है। महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि बहुत स्थलों में शाकल्य के सूत्र को शाकल लिखते हैं, फिर चरणवाची होगा तो लक्षण अर्थ में शाकल्य शब्द से क्यों प्रत्यय हो सकेगा ॥ ४३६ ॥

रैवतिकादिभ्यशङ्कः ॥ ४३७ ॥ अ० ४ । ३ । १३१ ॥

यहां गोव्रवाचियों से बुज् प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है।

रैवतिकादि प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य अर्थ में छु प्रत्यय होवे। जैसे—रैवति-कानोमयं संघो घोषो वा रैवतिकीयः; स्वापिशीयः; कौमवृद्धीयः इत्यादि ॥ ४३७ ॥

वा०-कौपिञ्जलहास्तपदादण् ॥ ४३८ ॥

यहां भी गोव्रप्रत्ययान्तों से बुज् प्राप्त है, उसका वाधक यह वार्तिक है।

कौपिञ्जल और हास्तपद प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य अर्थ में अण् प्रत्यय होवे। जैसे—कौपिञ्जलस्य संघः कौपिञ्जलः; हास्तपदः ॥ ४३८ ॥ .

वा०-आर्थर्वणिकस्येकलोपश्च \* ॥ ४३९ ॥

\* अथर्वन् शब्द वसन्तादि गण में पढ़ा है, उससे अधीत वेद अर्थ में ठक् होता है। अथर्वणम् धोते वेद वा आर्थर्वणिकः। और यह चरणवाची शब्द होने से बुज् प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह वार्तिक अपवाद है। ( कौपिञ्जल० ) और ( आर्थर्व० ) ये दोनों वार्तिक काशिका आदि पुस्तकों में सुन्न करके लिखे और च्यालयान भी किये हैं। सो जो ये सूत्र होते तो महाभाष्य में वार्तिक क्यों पढ़े जाते। और कैपट ने भी लिखा है कि सूत्रों में पाठ अपाणिनीय है। इससे निश्चय होता है कि कैपट के समय से पूर्व ही किसी ने मूर्खता से सूत्रों में लिख दिये हैं ॥

पूर्व वार्त्तिक से अरण् प्रत्यय की अनुबृति चली आती है ।

आर्थर्वाणिक शब्द से धर्म तथा आन्नाय अर्थ में अरण् प्रत्यय और उसके इक भाग का लोप होते । जैसे—आर्थर्वाणिकस्य धर्म आन्नायो वा आर्थर्वणः ॥ ४४६ ॥

तस्य विकारः ५ ॥ ४४० ॥ अ० ४ । ३ । १३४ ॥

विकार अर्थ में पश्चीमस्त्रे प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय हों । जैसे—अश्मनो विकार आश्मनः; आश्मः; भस्मनो विकारो भास्मनः; भास्मः; मार्त्तिकः; वनस्पतेर्विकारो दण्डो वानस्पत्यः इत्यादि ॥ ४४० ॥

अवयवे च प्राणयोषधिवृक्षेभ्यः ५ ॥ ४४१ ॥ अ० ४ । ३ । १३५ ॥

विकार और अवयव अर्थ में प्राणी ओषधि और वृक्षवाची प्रातिपदिकों से यथा-विद्वित प्रत्यय हों, परन्तु प्राणिवाची शब्दों से इसी प्रकरण में आगे अन्त् कहेंगे ।

जैसे [ प्राणिवाची ]—कपोतस्य विकारोऽवयवो वा कापोतः; मायूरः; तेत्तिरः । ओषधिवाची—लघुद्रव्यस्य विकारोऽवयवो वा लाघुद्रव्यम्; देवदारम्; निर्वश्या विकारोऽवयवो वा निर्वश्यम् । वृक्षवाची—खदिरस्य विकारोऽवयवो वा खादिरम्; वारुरम्; कारीरं काराडम्, कारीरं भस्म इत्यादि ॥ ४४१ ॥

मयद् वैतयोभाषायामभद्याच्छादनयोः ॥ ४४२ ॥ अ० ४ । ३ । १४३ ॥

विकार और अवयव अर्थ में लोकिकप्रयोगविषयक प्रकृतिमात्र से मयद् प्रत्यय विकल्प करके हो, भद्य और आच्छादन अर्थ को छोड़के । [ जैसे - ] अश्ममयम्, आश्मनः; मूर्वामयम्, मौर्वम्; वनस्पतेर्विकारो वनस्पतिमयम्, वानस्पत्यम् ।

यहां 'भाषा' ग्रहण इसलिये है कि—वैतवः खादिरो वा यूपः स्यात्, यहां मयद् न हो । और 'अभद्याच्छादनं' ग्रहण इसलिये है कि—मौद्रणः सूपः; कार्यासमाच्छादनम्, यहां भी मयद् न होते ॥ ४४२ ॥

नित्यं वृक्षशरादिभ्यः ॥ ४४३ ॥ अ० ४ । ३ । १३६ ॥

यहां नित्यग्रहण विकल्प की निवृत्ति के लिये है ।

५ इस सूत्र में तस्य ग्रहण की अनुबृति ( तस्येदम् ) इस सूत्र से चली आती, फिर तस्य ग्रहण का प्रयोगन यह है कि यहां से पूर्व-२ शेषाधिकार की समाप्ति समझी जावे, अर्थात् विकार अवयव आदि अर्थों में व आदि प्रत्यय न होते । और यह प्रकरण सामान्य पश्चार्य का वापक है ॥

६ यह सूत्र नियमार्थ होने के लिये पृथक् किया है कि इस प्रकरण में प्राणी ओषधि और वृक्षवाची प्रातिपदिकों से विकारावयव दोनों अर्थों में, और अन्य शब्दों से केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय होते । और ये दोनों सूत्र अधिकार के लिये हैं ॥

भव्य और आच्छादनरहित विकार और अध्यव अर्थ हों, तो पष्टीसमर्थ वृद्धसंब्रक और शरादिगण प्रातिपदिकों से लौकिक प्रयोगों में मयट् प्रत्यय नित्य ही होवे।

जैसे—आप्रस्य विकारोऽवयवो वा आप्रमयम्; शालमयम्; शाकमयम्; तालमयम् इत्यादि; यहाँ वृद्धप्रातिपदिकों से छ प्रत्यय प्राप्त है, उसका बाधक मयट् है। शरादि—शरमयम्; दर्भमयम् इत्यादि ॥ ४४३ ॥

**जातरूपेभ्यः परिमाणे ॥ ४४४ ॥ अ० ४ । ३ । १४६ ॥**

जातरूप शब्द सुवर्ण का पर्यायवाची है। वहुच्चन निर्देश से सुवर्णवाचकों का ग्रहण होता है।

परिमाण विकार अर्थ होवे, तो सुवर्णवाची प्रातिपदिकों से अण् प्रत्यय होवे। जैसे—अष्टापदस्य विकार आष्टापदम्; जातरूपम्; सौवर्णम्; रौक्षम् इत्यादि।

यहाँ ‘परिमाण’ ग्रहण इसलिये है कि—सुवर्णमयः प्रासादः, यहाँ अण् प्रत्यय न हो। यह मयट् का अपवाद है ॥ ४४४ ॥

**प्राणिरजतादिभ्योऽज् ॥ ४४५ ॥ अ० ४ । ३ । १५० ॥**

यह अण् का अपवाद है। पष्टीसमर्थ प्राणिवाची और रजतादि प्रातिपदिकों से अज् प्रत्यय हो, विकार और अध्यव अर्थों में। [जैसे—]—प्राणी- कपोतस्य विकारः कापोतम्; मायूरम्; तैत्तिरम्। रजतादि—राजतम्; सैसम्; लौहम् इत्यादि ॥ ४४५ ॥

**क्रीतवत्परिमाणात् ॥ ४४६ ॥ अ० ४ । ३ । १५२ ॥**

जिस २ परिमाणवाची प्रातिपदिक से क्रीत अर्थ में जो २ प्रत्यय होता है, उसी २ प्रातिपदिक से वही २ प्रत्यय यहाँ विकार अध्यव अर्थ में होवे। जैसे—निष्केण क्रीतं नैषिककम् होता है, वैसे ही—निष्कस्य विकारो नैषिककः शत्यः; शतिकः; द्विनिष्कः; द्विनैषिककः इत्यादि ॥ ४४६ ॥

**फले लुक् ॥ ४४७ ॥ अ० ४ । ३ । १५६ ॥**

विकारावयव फल अर्थ अभिधेय हो, तो विहित प्रत्यय का लुक् होवे। जैसे—आमलक्याः फलम् आमलकम्; वद्यर्थाः फलानि वद्याणि; कुवलकम्; विम्बम् ॥ इत्यादि ॥ ४४७ ॥

**लुप् च + ॥ ४४८ ॥ अ० ४ । ३ । १६२ ॥**

\* यहाँ सर्वत्र तद्वित प्रत्यय का लुक् होने के पश्चात् ( लुक् तद्वितलुकि ) इस सूत्र से खीप्रत्यय का भी लुक् हो जाता है ॥

+ यहाँ पूर्व सूत्र से लुक् प्राप्त है, किं लुक् विधान इसलिये है कि ( लुपि तुक्तव० ) इससे बिन्न और वचन भी लुक्तव० हो जावें, नहीं तो फल का विशेषण नंपुंसकलिङ्ग होता ॥

जम्बू प्रातिपदिक से विहित विकारावयव प्रत्यय का विकल्प करके लुप्त होवे ।  
जैसे—जम्बा विकारः फलं जम्बूः फलम् ॥ ४४८ ॥

### वा०—फलपाकशुषासुपसङ्ख्यानम् ॥ ४४६ ॥

जिन गेहूँ जो धान आदि फलों के पकने के समय में उनके बृक्ष सूख जाते हैं, उनसे भी विहित विकारावयव प्रत्यय का नित्य लुप्त होवे । जैसे—ब्रीहीणः फलानि ब्रीहयः; गोवृमाः यवाः; मापाः; तिलाः; मुद्दाः; मस्त्राः इत्यादि ॥ ४४६ ॥

### वा०—पुष्पमूलेषु वहुलम् ॥ ४५० ॥

पुष्प और मूल विकारावयव अर्थ हों, तो वहुल करके प्रत्यय का लुप्त हो । जैसे—मलिकायाः पुष्पं मूलं वा मलिका; करवीरम्; चिसम्; मृणालस्य पुष्पं मूलं वा मृणालम् ।

वहुलप्रहरण से कहाँ नहाँ भी होता । जैसे—पाटलानि पुष्पाणि मूलानि वा; वैलवानि फलानि ॥ ४५० ॥

[ इति दृतीयः पादः ॥ ]

[ अथ चतुर्थः पादः— ]

### प्राग्वहतेष्टक् ॥ ४५१ ॥ अ० ४ । ४ । १ ॥

यद अधिकार सूत्र है । ( तद्रहतिं ) इस सूत्रपर्यन्त जो २ अर्थ कहे हैं, उन समें सामान्य से उक् प्रत्यय होगा । जैसे—अच्छैर्दीव्यति आक्षिकः इत्यादि ।

इस चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में ( प्राग्दीव्यतोऽणु ) यह अधिकार कर चुके हैं । उसकी यहाँ से निवृत्ति सप्तमो, च्योंकि अगले सूत्र में दीव्यति शब्द पढ़ा है । अणु के अधिकार की समाप्ति होने से प्रथम ही दूसरा उक् प्रत्यय का अधिकार कर दिया । इस विषय में लीकिक व्याप्ति यह है कि राजा जव बृक्ष होता है तो अपने जीवते ही पुत्र को गढ़ी पर वैठा देता है ॥ ४५१ ॥

### वा०—ठक्प्रकरणे तदाहेति माशदादिभ्य उपसंख्यानम् ॥ ४५२ ॥

ऐसा वह कहना है, इस अर्थ में माशदादि प्रातिपदिकों से उक् प्रत्यय होवे । जैसे—माशद इत्याह माशविदिकः; नित्याः शब्द इत्याह नैत्यशविदिकः; कार्यशविदिकः इत्यादि ॥ ४५२ ॥

### वा०—आहौ प्रभूतादिभ्यः ॥ ४५३ ॥

द्वितीयासमये प्रभूतादि प्रातिपदिकों से उक् प्रत्यय होवे कहने अर्थ में । जैसे—प्रभूतमाह प्राभूतिकः; पार्यातिकः इत्यादि ॥ ४५३ ॥

### वा०—पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः ॥ ४५४ ॥

द्वितीयासमये सुस्नातादि प्रातिपदिकों से पृच्छते अर्थ में उक् प्रत्यय होवे । जैसे—सुस्नातं पृच्छति सौन्नातिकः; सौख्यातिकः; सुखशयनं पृच्छति सौख्यातिकः इत्यादि ॥ ४५४ ॥

**वा०—गच्छतौ परदारादिभ्यः ॥ ४५५ ॥**

द्वितीयासमर्थं परदारादि प्रातिपदिकों से गमन करने अर्थ में ठक् प्रत्यय हो । जैसे—परदारान् गच्छति पारदारिकः; गौहतलिप्यकः इत्यादि ॥ ४५५ ॥

**तेन दीव्यति खनति जयति जितम् \* ॥४५६॥ अ० ४ । ४ । २ ॥**

दीव्यति आदि किया ग्रो के कर्त्ता वाच्य रहे, तो तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—अक्षैर्दीव्यति आक्षिकः; कुहालेन खनति कौद्वालिकः; शलाकाभिर्जियति शालाकिकः; शलाकाभिर्जितं शालाकिकं धनम् इत्यादि ॥ ४५६ ॥

**संस्कृतम् ॥ ४५७ ॥ अ० ४ । ४ । ३ ॥**

संस्कार करने अर्थ में तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—घृतेन संस्कृतं घार्तिकम्; तैलिकम्; दधा संस्कृतं दाधिकम्; ताक्रिकम् इत्यादि ॥ ४५७ ॥

**तरति ॥ ४५८ ॥ अ० ४ । ४ । ५ ॥**

तरने अर्थ में तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो । जैसे—वृषभेण तरति वार्षिकिकः; माहिपिकः; ओङुपिकः इत्यादि ॥ ४५८ ॥

**नौद्वयचष्टन् ॥ ४५९ ॥ अ० ४ । ४ । ७ ॥**

यहाँ पूर्व सूत्र से ठक् प्राप्त है, उसका अपवाद ठन् किया है ।

तरने अर्थ में तृतीयासमर्थं नो और द्वयच् प्रातिपदिकों से ठन् प्रत्यय होवे । जैसे—नावा तरति नाविकः; घटेन तरति घाटिकः; कौस्मिकः; वाहुकः इत्यादि ॥ ४५९ ॥

**चरति ॥ ४६० ॥ अ० ४ । ४ । ८ ॥**

चलने अर्थ में तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—शकदेन चरति शकटिकः; राधिकः; हास्तिकः इत्यादि ॥ ४६० ॥

**आकर्षतिष्ठल् ॥ ४६१ ॥ अ० ४ । ४ । ९ ॥**

यहाँ पूर्व सूत्र से ठक् पाता है, उसका अपवाद है ।

चलने अर्थ में तृतीयासमर्थं आकर्ष प्रातिपदिक से पुल् प्रत्यय होवे । यिन्करण लीलिङ्ग में डीप् होने के लिये है । [ जैसे— ] आकर्षेण चरति आकर्षितः; आकर्षिकी ॥ ४६१ ॥

\* यहाँ जित शब्द का पृथक् ग्रहण इसलिये है कि जि धातु का कर्म अभिधेय हो तो भी ठक् प्रत्यय हो जावे ॥

**का०-आकर्षात् पर्पदैभस्त्रादिभ्यः कुसीदसूत्राच्च ।**

**आवस्थात्कशरादेः षितः घडेते ठगधिकारे ॥ ४६२ ॥**

यह आच्यो छन्द है। आकर्ष शब्द से छल, पर्पदिकों से छन्, भस्त्रादिकों से छन्, कुसीद और दृश्यकादश प्रातिपदिकों से छन् और पृच्, आवस्थ शब्द से छल, और किशरादि प्रातिपदिकों से छन् ये छः प्रत्यय इस अधिकार में वित् हैं ॥ ४६२ ॥

**वेतनादिभ्यो जीवति ॥ ४६३ ॥ अ० ४ । ४ । १२ ॥**

जीवने अर्थ में तृतीयासमर्थ वेतनादि प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो । जैसे—वेतनेन जीवति वेतनिकः; जालिकः; वेशेन जीवति वेशिकः; उपदेशेन जीवति ओपदेशिकः; उपस्थेन जीवति ओपस्थिकः, ओपस्थिकी नणिका ॥ ४६३ ॥

**हरत्युत्सङ्गादिभ्यः ॥ ४६४ ॥ अ० ४ । ४ । १५ ॥**

हरने अर्थ में उत्संगादि प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होते । जैसे—उत्सङ्गेन हरति ओत्सङ्गिकः; ओहुपिकः इत्यादि ॥ ४६४ ॥

**विभाषा विवधात् ॥ ४६५ ॥ अ० ४ । ४ । १७ ॥**

इस सूत्र में अप्राप्तविभाषा इसलिये है कि छन् प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है ।

हरने अर्थ में तृतीयासमर्थ विवध प्रातिपदिक से छन् प्रत्यय विकल्प करके होते, पक्ष में ठक् हो । जैसे—विवघेन हरति विवधिकः, विवधिकी; वैवधिकः, वैवधिकी ॥ ४६५ ॥

**वा०-वीवधाच्च ॥ ४६६ ॥**

वीवध प्रातिपदिक से भी हरने अर्थ में पृच् प्रत्यय विकल्प करके होते । जैसे—वीवघेन हरति वीवधिकः; वीवधिकी; वैवधिकः, वैवधिकी ।

इस वीवध शब्द को काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र में ही मिला दिया है । सो वार्तिक होने से सूत्र में भिन्नाना ठीक नहीं है । और वे दोनों शब्द एकार्थ हैं । शब्द के स्वरूप का ग्रहण होता है, इससे प्राप्त नहीं था ॥ ४६६ ॥

**निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः ॥ ४६७ ॥ अ० ४ । ४ । १६ ॥**

निर्वृत्त अर्थात् सिद्ध होने अर्थ में तृतीयासमर्थ अक्षद्यूतादि प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो । जैसे—अक्षद्यूतेन निर्वृत्तमाक्षद्यूतिकं वैरम्; जानुप्रहृतिकम्; काण्डकमर्ह-निकम् इत्यादि ॥ ४६७ ॥

यहाँ ठक् प्रत्यय के अधिकार में किन्हीं प्रातिपदिकों में विभक्ति के सकार को संहिता में घल होता है, और किन्हीं प्रत्ययों में हीप् होने के लिये पित् किया है । इससे संदेह होता है कि किन प्रत्ययों में श्रौपदेशिक पत्त और किन में विभक्ति का है । इस संदेह की निवृत्ति के लिये यह कारिका है ॥

**क्वेमन्नित्यम् ॥ ४६८ ॥ अ० ४ । ४ । २० ॥**

किंत्र प्रत्ययान्त तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से निर्वृत्त अर्थ में मप् प्रत्यय नित्य ही होवे । अर्थात् अधिकार के विकल्प से वाक्य प्राप्त है, सो भी न रहे । जैसे—पक्षित्रमा यवागृः, उच्चिमं वीजम्, कुञ्जिमः संसारः इत्यादि ॥ ४६८ ॥

**वा०—भाव इति प्रकृत्य इमञ्चक्तव्यः ॥ ४६९ ॥**

भाववाची प्रातिपदिकों से इमप् प्रत्यय कहना चाहिये ।

ऐसा वार्त्तिक करने से सूत्र का भी कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कुट्टिमा भूमिः, सेकिमोऽसिः, इत्यादि उदाहरण सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते ॥ ४६९ ॥

**संस्तृष्टे ॥ ४७० ॥ अ० ४ । ४ । २२ ॥**

मिलाने अर्थ में तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—दध्ना संस्तृष्टं दाधिकम्; ताक्रिकम्; मारिचिकम्; शाङ्खवैरिकम्; पैत्यलिकम्; दोग्निधकी यवागृः; गौडिका गोधूमाः इत्यादि ॥ ४७० ॥

**द्यञ्जनैरुपसिक्ते ॥ ४७१ ॥ अ० ४ । ४ । २६ ॥**

उपसिक्त अर्थात् सीचने अर्थ में व्यञ्जनवाची तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो । जैसे—दध्नोपसिक्तं दाधिकम्; ताक्रिकम्; गौडिकम्; पायसिकम्; मारिचिकम् इत्यादि ।

‘व्यञ्जनवाचियों’ का ग्रहण इसलिये है कि—उद्केनोपसिक्तं शाकम्, यहां प्रत्यय न हो ॥ ४७१ ॥

**तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् ॥ ४७२ ॥ अ० ४ । ४ । २८ ॥**

वर्तने अर्थ में द्वितीयासमर्थं प्रति तथा अनु ये जिनके पूर्व हों, ऐसे ईप लोम और कूल प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो । जैसे—प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकः; आन्वीपिकः; प्रतिलोमं वर्तते प्रातिलोमिकः; आनुलोमिकः; प्रतिकूलं वर्तते प्रातिकूलिकः; आनुकूलिकः ॥ ४७२ ॥

**प्रयच्छति गर्ह्यम् ॥ ४७३ ॥ अ० ४ । ४ । ३० ॥**

प्रयच्छति अर्थात् देने अर्थ में, जो पदार्थ दिया जाय सो निन्दित हो, तो द्वितीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो ॥ ४७३ ॥

**वा०—मेस्याल्पोपो वा ॥ ४७४ ॥**

प्रत्यय उत्पन्न होते समय में, स्यात् इन दो पदों का विकल्प करके लोप होजावे ।

विकल्प इसलिये है कि वाक्य भी बना रहे । जैसे—ठिगुणं मे स्थादिति प्रयच्छति द्वैगुणिकः; त्रैगुणिकः ॥ ४७४ ॥

वा०—बृद्धेवृद्धिभावः ॥ ४७५ ॥

वहां में, स्वात् इन दो पदों की अनुवृत्ति चली आती है ।

बृद्धि शब्द को बृद्धिय आदेय और ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—बृद्धिमें स्यादिति धनं प्रयच्छति वार्ष्यिकः ॥ ४७५ ॥

उच्चति ॥ ४७६ ॥ अ० ४ । ४ । ३२ ॥

उच्चने अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—वदराण्य-च्छति वादरिकः; श्यामाकिकः; गोवृमानुच्छति गोवृभिकः; कालिकः इत्यादि ॥ ४७६ ॥

रक्षति ॥ ४७७ ॥ अ० ४ । ४ । ३३ ॥

रक्षा अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—ग्रामं रक्षति ग्रामिकः; समाजं रक्षति सामाजिकः; गोमरण्डलं रक्षति गोमरण्डलिकः; कुटुम्बं रक्षति कोडुम्बिकः; नगरं रक्षति नागरिकः इत्यादि ॥ ४७७ ॥

पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति ॥ ४७८ ॥ अ० ४ । ४ । ३५ ॥

मारने अर्थ में द्वितीयासमर्थ पक्षि मत्स्य और मृगवाची प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—[ पक्षि— ] पक्षिणो हन्ति पाक्षिकः; खैचरिकः; शाकुनिकः; शुकान् हन्ति शौकिकः; वाकिकः; मायूरिकः; तैत्तिरिकः । मत्स्य—मातिस्यकः; मैनिकः; शाफरिकः; शाकुलिकः । मृग—मार्गिकः; दारिहिकः; सोकरिकः; सारङ्गिकः ॥ ४७८ ॥

परिपन्थञ्च तिष्ठति ॥ ४७९ ॥ अ० ४ । ४ । ३६ ॥

श्यिति और मारने अर्थ में द्वितीयासमर्थ परिपन्थ प्रातिपदिक से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—परिपन्थं तिष्ठति पारिपन्थिको दस्युः; परिपन्थं हन्ति पारिपन्थिक उत्कोचकः ॥ ४७९ ॥

माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ॥ ४८० ॥ अ० ४ । ४ । ३७ ॥

इस सूत्र में माथ शब्द मार्ग का पर्यायवाची है ।

शोधने और द्वान गमन प्राप्ति अर्थों में पदवी अनुपद और माथ शब्द जिनके उत्तरपद में हो, ऐसे प्राप्तिपदिकों से ठक् प्रत्यय होवे । जैसे—विद्यामाथं धावति विद्यामाथिकः; धामेमाथिकः; दारण्डमाथिकः इत्यादि । पदवीं धावति पादवेकः; आनुपदिकः ॥ ४८० ॥

\* यहां शब्दों के स्वरूप का ग्रहण इसलिये नहीं होता कि ( स्वरूपं० ) इस पर वार्तिक पढ़ा है कि ऐसा संदेन करना चाहिये कि जिससे पर्वी नग और मत्स्य इनके पर्यायवाची और विशेषवाचियों का भी स्वरूप हो जावे ॥

पदोत्तरपदं गृह्णाति ॥ ४८१ ॥ अ० ४ । ४ । ३६ ॥

ग्रहण करने अर्थ में पद शब्द जिनके उत्तरपद में हो, उन द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो। जैसे—पूर्वपदं गृह्णाति पौर्वपदिकः; श्रीत्तरपदिकः इत्यादि ॥४८१॥

धर्म चरति ॥ ४८२ ॥ अ० ४ । ४ । ४१ ॥

आचरण अर्थ में द्वितीयासमर्थ धर्म प्रातिपदिक से ठक् प्रत्यय होते। जैसे—धर्म चरति धार्मिकः ॥ ४८२ ॥

वा०—अधर्मच्च ॥ ४८३ ॥

आचरण अर्थ में अधर्म शब्द से भी ठक् हो। जैसे—अधर्म चरति आधर्मिकः ॥४८३॥

समवायान्तसमवैति ॥ ४८४ ॥ अ० ४ । ४ । ४३ ॥

यहां वहुवचन निर्देश से समवायवाची शब्दों का ग्रहण होता है।

प्राप्त होने अर्थ में द्वितीयासमर्थ समवायवाची प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो। जैसे—समवायान् समवैति सामवायिकः; सामाजिकः; सामूहिकः; साङ्घिकः इत्यादि ॥ ४८४ ॥

संज्ञायां ललाटकुकुट्टौ पश्यति ॥४८५॥ अ० ४ । ४ । ४६ ॥

देखने अर्थ में संज्ञा वाच्य रहे, तो द्वितीयासमर्थ ललाट और 'कुकुट्टी प्रातिपदिकों से ठक् प्रत्यय हो। जैसे—ललाटं पश्यति लालाटिको भृत्यः +; कुकुट्टों पश्यति कौकुटिको भिज्जुकः ॥ ४८५ ॥

तस्य धर्म्यम् ॥ ४८६ ॥ अ० ४ । ४ । ४७ ॥

जो कार्य धर्म का विरोधी न हो उसको धर्म्य कहते हैं।

पष्टीसमर्थ प्रातिपदिक से धर्म्य अर्थ में ठक् प्रत्यय हो। जैसे—हाटकस्य धर्म्य द्वाटिकम्; आकर्षिकम्; आपणिकम् इत्यादि ॥ ४८६ ॥

ऋतोऽञ् ॥ ४८७ ॥ अ० ४ । ४ । ४८ ॥

धर्म्य अर्थ में पष्टीसमर्थ ऋत्कारान्त प्रातिपदिक से अञ् प्रत्यय होते। जैसे—होतुर्धर्म्यं हौत्रम्; पौत्रम्; दौहित्रम्; स्वाच्छम् इत्यादि ॥ ४८७ ॥

+ लालाटिक उस सेवक को कहते हैं कि जो अच्छे प्रकार काम न करे, वैठा २ मालिक का मुख देखा करे ॥

**वा०-नृनराभ्यामज्वचनम् ॥ ४८८ ॥**

नृ और नर शब्द से भी अब्र प्रत्यय होते। जैसे—नुर्धर्म्या नारी; एवं नरस्यापि नारी ॥ ४८८ ॥

**वा०-विशसितुरिङ्गलोपश्च ॥ ४८९ ॥**

विशसितुर शब्द से अब्र प्रत्यय और प्रत्यय के परे इट्ट का लोप होते। जैसे—विशसितुर्धर्म्य वंशखलम् ॥ ४८९ ॥

**वा०विभाजयितुर्गिलोपश्च ॥ ४९० ॥**

विभाजयितु शब्द से अब्र प्रत्यय और उस प्रत्यय के परे शिंच का लोप भी होते। जैसे—विभाजयितुर्धर्म्य वंभाजितम् ॥ ४९० ॥

**अवक्रयः ॥ ४९१ ॥ अ० ४ । ४ । ५० ।**

अवक्रय अर्थात् स्वरीढ़ने और बेचने अर्थ में पष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से उक्त प्रत्यय होते। जैसे—गोशालागा अवक्रयो गोशालिकः; आकरिकः; आपणिकः; हाटकिकः इत्यादि ॥ ४९१ ॥

**तदस्य परयम् ॥ ४९२ ॥ अ० ४ । ४ । ५१ ॥**

परयसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से पष्ठी के अर्थ में उक्त प्रत्यय होते। जैसे—सुवर्णं परयस्य सौवर्णिकः; अपूपाः परयस्य आपूपिकः; शास्कुलिकः; ओपधयः परयस्य ओपधिकः; मुक्ताः परयस्य मोक्तिकः इत्यादि ॥ ४९२ ॥

**शिल्पम् ॥ ४९३ ॥ अ० ४ । ४ । ५५ ॥**

शिल्प शब्द किया की कुशलता अर्थ में वर्तमान है। शिल्पसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से उक्त प्रत्यय होते। जैसे—मृदङ्गवादनं शिल्पस्य मार्दङ्गिकः; पाणविकः; वीणावादनं शिल्पस्य वंशिकः इत्यादि ॥ ४९३ ॥

**प्रहरणम् ॥ ४९४ ॥ अ० ४ । ४ । ५७ ॥**

\* नृ शब्द के छक्कारान्त होने से सूत्र से ही अब्र प्रत्यय हो जाता, फिर इसका वाचिक में दृष्टान्त के लिये ग्रहण किया है, जैसे नृ शब्द से अब्र होकर नारी बनता है, जैसे नर शब्द से भी जानो ॥

१ यहां वाक्य में महाभाष्यकार ने उत्तरपद का लोप इसलिये माना है कि मार्दङ्गिक शब्द से शब्द बजाने वाले का ही ग्रहण होते। और मृदङ्ग रसने वाला कुम्हार तथा चाम आदि से मदने वाले द्वी भी कारीगरी उसमें होती है, परन्तु लोक में मार्दङ्गिक शब्द से उसका बजाने वाला ही लिया जाता है। और ऐसा ही वाव्यार्थ सब प्रयोगों में जाना ॥

प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से वष्टी के अर्थ में ठक् प्रत्यय हो। जैसे—आश्रेयाखं प्रहरणमस्य आश्रेयाखिकः; शतघ्नी प्रहरणमस्य शातघ्निकः; भौशुरिडकः; असिः प्रहरणमस्य आसिकः; चाकिकः; धानुष्कः; दाहिडकः इत्यादि ॥ ४६४ ॥

**शक्तियष्ट्योरीकृ ॥ ४६५ ॥ अ० ४ । ४ । ५६ ॥**

प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ शक्ति और यष्टि प्रातिपदिकों से वष्टी के अर्थ में ईक्क प्रत्यय होवे। जैसे—शक्तिः प्रहरणमस्य शक्तीकः; याष्टीकः ॥ ४६५ ॥

**अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥ ४६६ ॥ अ० ४ । ४ । ६० ॥**

अस्ति नास्ति और दिष्ट इन मति समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से वष्टी के अर्थ में ठक् प्रत्यय होवे। जैसे—अस्तीति मतिरस्य स आस्तिकः ॥; नास्तीति मतिरस्य स नास्तिकः; दिष्टमिति मतिरस्य स दैषिकः ॥ ४६६ ॥

**शीलम् ॥ ४६७ ॥ अ० ४ । ४ । ६१ ॥**

शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से वष्टी के अर्थ में ठक् प्रत्यय हो। जैसे—अपूपा भक्षणं शीलमस्य स आपूपिकः; शाष्कुलिकः X; दौरिधकः; मौदकिकः; औदनिकः; साक्तुकः इत्यादि ॥ ४६७ ॥

**छत्रादिभ्यो णः ॥ ४६८ ॥ अ० ४ । ४ । ६२ ॥**

शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थ छत्र आदि गणपठित प्रातिपदिकों से वष्टी के अर्थ में ण प्रत्यय होवे। ठक् प्राप्त है उसका धाधक है। छत्र शब्द मुख्य करके छाता का नाम है ॥ ४६८ ॥

**भा०—किं यस्य छत्रधारणं शीलं स छात्रः ? किञ्चातः ?**  
**राजपुरुषे प्राप्नोति । एवं तर्हुत्तरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । छत्र-**  
**मिवच्छत्रम्, गुरुश्छत्रम्, गुरुणा शिष्यश्छत्रवच्छायः । शिष्येण**  
**गुरुश्छत्रवत्परिपाल्यः ॥ ४६९ ॥**

॥ यहां वाक्यार्थ में इति शब्द से उत्तरपद खा लोप समझना चाहिये। क्योंकि हृश्वर, जीव, पुनर्जन्म और शुभाशुभ कर्मों का फल आदि है, ऐसी त्रुदि जिस पुरुष की हो वह आस्तिक, और इसके विरुद्ध नास्तिक समझा जावे। और जो इति शब्द का लोप न समझे तो जिस चोर आदि में अधिक त्रुदि हो वह भी आस्तिक और त्रुदि से रहित जड़ पदार्थ भी नास्तिक कहावें ॥

\* यहां भी भवण उत्तरपद का लोप समझना चाहिये। क्योंकि पृष्ठी आदि वजाने वालों के नाम शाष्कुलिक आदि न हो जावें। लोक में इन पदार्थों के खाने वाले ही इन नामों से समझे जाते हैं ॥

लोक में परन्परा से छात्र शब्द विद्यार्थी का वाची है। इसलिये महाभाष्यकार ने इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया कि—छात्र शब्द से यहां गुरु उपर्युक्त है। अर्थात् शिष्य के अवानहीनी अन्धकार को गुरु निवारण करता है, इसलिये छात्र है। जैसे वाम आदि से अपनी रक्षा करनेहारे छाता को वज्र से रखते हैं, वैसे ही अपने सेवन से गुरु की रक्षा करनेवाला पुरुष छात्र कहाता है। और जैसे छाता वाम आदि से होनेवाले दुर्खों का निवारण करता है, नेसे ही गुरु भी मूर्खता आदि से होनेवाले दुर्खों को नष्ट करता है। [जैसे—] छात्रं गुरुस्तस्वनशीलमस्य स छात्रः, कन्या चेच्छात्रः; दुभुक्षा शीलमस्य स बीभुक्षः इत्यादि।

इस सूत्र पर जयादित्य भट्टोजिदीक्षितादि कहते हैं कि—गुरु के लो दुष्ट कर्म हैं, उनके आच्छान्त करने का स्वभाववाला विषय छात्र कहाता है। इस व्याख्यान को दुष्टिमान वैद्यकारण विचारें कि महाभाष्य से कितना विरोध आता है। इस सूत्र के व्याख्यान से ऐसा अनुमान होता है कि जयादित्य भट्टोजिदीक्षितादि लोग महापातकी होंगे ॥ ४४६ ॥

**हितं भक्षाः ॥ ५०० ॥ अ० ४ । ४ । ६५ ॥**

यहां भक्ष शब्द में धृव्यननिदेश से भक्षवाच्चियों का ग्रहण होता है। हित शब्द के योज में चतुर्थी विभक्ति होती, और पूर्व से यहां पृथ्वीर्थ की अनुवृत्ति आती है, इसलिये उस पछी का विपरिणाम चतुर्थी समझनी चाहिये।

हित समानाधिकारण प्रथमसमर्थ भद्रवाचारी प्रातिपदिकों से चतुर्थी के अर्थ में उक्त प्रत्यय होते। जैसे—ओदना हितमस्मै ओदनिकः; अपूरा हितमस्मै आपूर्पिकः; शास्कुलिकः; मौद्रिकिकः इत्यादि ॥ ५०० ॥

**तदस्मै दीयते नियुक्तम् ॥ ५०१ ॥ अ० ४ । ४ । ६६ ॥**

निरन्तर देने अर्थ में प्रथमसमर्थ प्रातिपदिक से उक्त प्रत्यय होते। जैसे—अग्रासनमस्मै दीयते अग्रासनिकः; आग्रभोजनिकः; उपूरा अस्मै दीयन्ते इत्यापूर्पिकः; मौद्रिकिकः इत्यादि ॥ ५०१ ॥

**तत्र नियुक्तः ॥ ५०२ ॥ अ० ४ । ४ । ६६ ॥**

नियत करने अर्थ में सतर्मासमर्थ प्रातिपदिक से उक्त प्रत्यय हो। जैसे—पाकायालायां नियुक्तः पाकशालिकः; शौलकशालिकः; हाटकिकः; आपेकिकः; धर्मोपदेशे नियुक्तो धार्मोपदेशिकः; वैद्याव्ययनिकः; शाल्वाव्यापनिकः; यन्वात्यये नियुक्तो यान्वलयिकः इत्यादि ॥ ५०२ ॥

**अगारान्ताद्वन् ॥ ५०३ ॥ अ० ४ । ४ । ७० ॥**

यहां पूर्वसूत्र से उक्त प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है।

नियत करने अर्थ में सप्तमीसमर्थ श्वागान्त प्रातिपदिक से उन प्रत्यय हो। जैसे—  
धनागारे नियुक्तो धनागारिकः, शश्वागारिकः, अश्वागारिकः, पुस्तकागारिकः  
इत्यादि ॥ ५०३ ॥

**अध्यायिन्यदेशकालात् ॥ ५०४ ॥ अ० ४ । ४ । ७१ ॥**

जिन देश और कालों में पढ़ने का नियेध है, उन प्रातिपदिकों से उक्त प्रत्यय हो।  
जैसे—श्मशानेऽर्धते शमाशानिकः; शौद्रसान्निधिकः; सन्धिवेलायामधीते सान्निधिवेलिकः;  
अष्टम्यामधीते आष्टमिकः; चातुर्दशिकः; पौर्णमासिकः इत्यादि ॥ ५०४ ॥

**कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ॥ ५०५ ॥ अ० ४ । ४ । ७२ ॥**

व्यवहार करने अर्थ में कठिनान्त प्रस्तार और संस्थान प्रातिपदिकों से उक्त प्रत्यय  
होते। जैसे—कुलकठिने व्यवहरति कौलकठिनिकः; कौदुम्बकठिनिकः; प्रस्तारे व्यव-  
हरति प्रास्तारिकः; सांख्यानिकः इत्यादि ॥ ५०५ ॥

**निकटे वसति ॥ ५०६ ॥ अ० ४ । ४ । ७३ ॥**

वसने अर्थ में सप्तमीसमर्थ निकट प्रातिपदिक से उक्त प्रत्यय हो। जैसे—निकटे  
वसति नैकटिकः ॥ ५०६ ॥

**प्राग्धिताव्यत् ॥ ५०७ ॥ अ० ४ । ४ । ७४ ॥**

प्रथम उक्त प्रत्यय का अधिकार कर आये हैं, उसकी समाप्ति यहां से समझती  
चाहिये। क्योंकि वहाँ शब्द अगले सूत्र में है, उस अधिकार के रहते ही दूसरा  
अधिकार यत् प्रत्यय का करते हैं, इसका व्याप्ति भी पूर्व दे चुके हैं।

यहां से ले के (तस्मै द्वितम्) इस अधिकार के पूर्व २ जो २ अर्थ कहेंगे, उन २ में  
सामात्य करके यत् प्रत्यय का अधिकार समझना चाहिये। जैसे—रथं वहति रथ्यः  
युग्यः इत्यादि ॥ ५०७ ॥

**तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् ॥ ५०८ ॥ अ० ४ । ४ । ७६ ॥**

ले चलने अर्थ में द्वितीयासमर्थे रथ युग और प्रासङ्ग प्रातिपदिक से यत् प्रत्यय  
होते। जैसे—रथं वहति रथ्यः; युग्यः; प्रासङ्ग्यः।

रथ शब्द से सम्बन्धसामान्य शेष अर्थ में भी यत् प्रत्यय होता है। [ जैसे— ] रथं  
वहति रथ्यः; रथस्य वोडा रथ्यः। यहां प्रयोग और अर्थ में कुछ भी सेव नहीं है, किर  
दोनों जगह करने का प्रयोजन यह है कि जब तदन्तविधि मान के डिगुसंघक रथ शब्द  
से प्रत्यय करेंगे, तब शेष अर्थ में प्रासङ्गीश्वरीय होने से ( द्विगोर्नु० ) इससे प्रत्यय का

नुक् हो जावेगा । जैसे द्विर्यार्थ्यार्थाङ्का द्विग्रन्थः । और जब द्वीरथों बहन्ति, ऐसा विग्रह करें, तब द्विग्रन्थः ऐसा प्रयोग होगा ।

इसी प्रकार इल और सार शब्दों से भी दोनों जगह एक ही प्रत्यय कहा है, उसका भी यही प्रयोजन है ॥ ५०८ ॥

**संज्ञायां जन्याः ॥ ५०९ ॥ अ० ४ । ४ । ८२ ॥**

ते जाने अर्थ में ववृवाची द्विर्तीयासमर्थ जनी प्रातिपदिक से संज्ञा वाच्य रहे, तो यत् प्रत्यय निपातन किया है । जैसे—जनीं ववृं बहन्ति ते जन्याः । विवाह के समय जो वरात जाती है, उसको जन्या कहते हैं ॥ ५०९ ॥

**विध्यत्यधनुपा ॥ ५१० ॥ अ० ४ । ४ । ८३ ॥**

वेदने अर्थ में धनुष् करण न हो, तो द्विर्तीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यत् प्रत्यय होवे । जैसे—पादी विध्यति पद्या दूर्वा; कुण्ठ विध्यति कलशो रसः ।

यहाँ ‘धनुष् का निषेध’ इसलिये है कि—धनुपा विध्यतिः शनुं विध्यति; यहाँ उभयत्र प्रत्यय न होवे ॥ ५१० ॥

**धनगणं लक्ष्या ॥ ५११ ॥ अ० ४ । ४ । ८४ ॥**

लाभ होने का कर्त्ता वाच्य रहे, तो द्विर्तीयासमर्थ धन और गण शब्दों से यत् प्रत्यय होवे । जैसे—धनं लक्ष्या धन्यः; गणं लक्ष्या गणयः ॥ ५११ ॥

**गृहपतिना संयुक्ते ज्यः ॥ ५१२ ॥ अ० ४ । ४ । ६० ॥**

यहाँ पूर्वसूत्र से संज्ञा की अनुवृत्ति आती है । संयुक्त अर्थ में तृतीयासमर्थ गृहपति प्रातिपदिक से संज्ञा अभिधेय हो, तो ज्य प्रत्यय होवे । जैसे—गृहपतिना संयुक्तो गाहैपत्यः ।

यहाँ ‘संज्ञा’ ग्रहण इसलिये है कि—‘गाहैपत्य’ दक्षिणाग्नि का नाम न होजावे ॥ ५१२ ॥

**नौवयोधर्मविधमूलमूलसीनातुलाभ्यस्तार्थ्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्य-  
समसमितसमितेषु ॥ ५१३ ॥ अ० ४ । ४ । ६१ ॥**

तृतीयासमर्थ नौ आदि प्रातिपदिकों से तार्थ आदि अर्थों में यथासंख्य करके यत् प्रत्यय होवे । जैसे—नौ शब्द से तेरने अर्थ में—नावा तार्यं नाम्यम्; वयस शब्द से तुल्य अर्थ में—वयसा तुल्यं वयस्य मित्रम्; धर्मस शब्द से प्राप्त होने योग्य अर्थ में—धर्मेण प्राप्तो धर्मेऽपवर्गः; विषयशब्द से मारने योग्य अर्थ में—विषेण वध्यो विष्यः पापीः; मूल शब्द से नमाने अर्थ में—मूलेनानाम्यं मूल्यम्; दूसरे मूल शब्द से सम अर्थ में—मूलेन सप्तो मूलो वटः; नीताशब्द से चौकस करने अर्थ में—सीतया समितं सीत्यं ज्ञेत्रम्; तुल्या शब्द ने तोलने अर्थ में—तुल्या समितं तुल्यं धान्यम् ॥ ५१३ ॥

धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ॥ ५१४ ॥ अ० ४ । ४ । ६२ ॥

अनपेत अर्थात् युक्त अर्थ में पञ्चमीसमर्थ पथिन् अर्थ और न्याय प्रातिपदिक से यत् प्रत्यय होता है। जैसे—धर्मादनपेतं धर्म्यम्; पथोऽनपेतं पश्यम्; अर्थ्यम्; न्यायम् ॥५१४॥

छन्दसो निर्मिते ॥ ५१५ ॥ अ० ४ । ४ । ६३ ॥

निर्माण अर्थ में तृतीयासमर्थ छन्दस् प्रातिपदिक से यत् प्रत्यय हो। जैसे—छन्दसा निर्मितः छन्दसाः, यहां छन्दशशब्द इच्छा का पर्यायवाची है ॥ ५१५ ॥

उरसोऽण् च ॥ ५१६ ॥ अ० ४ । ४ । ९४ ॥

निर्मित अर्थ में तृतीयासमर्थ उरस् शब्द से अण् और चकार से यत् प्रत्यय भी हो। जैसे—उरसा निर्मितः औरसः; उरस्यः पुत्रः ॥ ५१६ ॥

हृदयस्य प्रियः ॥ ५१७ ॥ अ० ४ । ४ । ९५ ॥

प्रिय अर्थ में पष्टीसमर्थ हृदय शब्द से यत् प्रत्यय हो। जैसे—हृदयस्य प्रियो हृद्यो धर्मः; हृद्यो देशः; हृद्या कन्या; हृद्यं वनम् ॥ ५१७ ॥

तत्र साधुः ॥ ५१८ ॥ अ० ४ । ४ । ६८ ॥

साधु अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से यत् प्रत्यय हो। जैसे—सामसु साधुः सामन्यः; वेमन्यः; कर्मण्यः; शरण्यः। साधु प्रवीण वा योग्य का नाम है ॥ ५१८ ॥

सभाया यः ॥ ५१९ ॥ अ० ४ । ४ । १०५ ॥

साधु अर्थ में सप्तमीसमर्थ सभा शब्द से य प्रत्यय हो। जैसे—सभायां साधुः सभ्यः; यहां य और यत् में स्वर का भेद है, उदाहरण का नहीं ॥ ५१९ ॥

दशछन्दसि ॥ ५२० ॥ अ० ४ । ४ । १०६ ॥

साधु अर्थ में जो वेदविषय हो, तो सभा शब्द से ढ प्रत्यय हो। जैसे—सभेयोऽस्य गुणा यजमानस्य वीरो जायताम् ॥ ५२० ॥

समानतीर्थे वासी ॥ ५२१ ॥ अ० ४ । ४ । १०७ ॥

वसते अर्थ में सप्तमीसमर्थ समानतीर्थ शब्द से यत् प्रत्यय हो ॥ ५२१ ॥

तीर्थे ये ॥ ५२२ ॥ अ० ६ । ३ । ८७ ॥

\* यहां सर्वत्र हृदय शब्द को ( हृदयस्य द्व्येत्तर० ) इस सूत्र से हृद आदेश हो जाता है ॥

तीर्थ उत्तरपद परे हो, तो समान शब्द को स आदेश होवे । जैसे—समाने तीर्थे वसति सतीश्चयो ब्रह्मचारी ॥ ५२२ ॥

**समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ॥ ५२३ ॥ अ० ४ । ४ । १०८ ॥**

सोने अर्थ में सप्तमीसमर्थ समानोदर शब्द से यत् प्रत्यय और समानोदर के ओकार को उदात्त हो । [ जैसे— ] समान उदरे शयितः समानोदयो भ्राता ॥ ५२३ ॥

**सोदराद्यः ॥ ५२४ ॥ अ० ४ । ४ । १०९ ॥**

सोने अर्थ में सप्तमीसमर्थ सोदर शब्द से यत् प्रत्यय हो ॥ ५२४ ॥

**विभायोदरे ॥ ५२५ ॥ अ० ६ । ३ । ८८ ॥**

उदर शब्द के परे यत् प्रत्यय हो, तो समान शब्द को विकल्प करके स आदेश होवे । जैसे—समानोदरे शयितः सोदर्यो भ्राता ॥ ५२५ ॥

**भवे छन्दसि ॥ ५२६ ॥ अ० ४ । ४ । ११० ॥**

भव अर्थ और वैदिक प्रयोगों में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से यत् प्रत्यय हो ।

यहाँ छन्द का अधिकार इस पाद की समाप्ति तक, और भवाधिकार ( समुद्राभ्राद् यः ) इससे पूर्व २ ज्ञानना चाहिये । यह अण् और य आदि प्रत्ययों का अपवाद है । [ जैसे— ] मेधयाय च विद्युत्याय च नमः इत्यादि ॥ ५२६ ॥

**पूर्वैः कृतांसनियौ च ॥ ५२७ ॥ अ० ४ । ४ । १३३ ॥**

कृत अर्थ में तृतीयासमर्थ पूर्व शब्द से इनि तथा य और चकार से ख प्रत्यय होते । जैसे—पूर्वैः कृतं कर्सं पूर्विः पूर्व्यम्; पूर्वाणम् ॥ ५२७ ॥

**अन्दिः संस्कृतम् ॥ ५२८ ॥ अ० ४ । ४ । १३४ ॥**

संस्कृत अर्थ में तृतीयासमर्थ अप् शब्द से यत् प्रत्यय हो । जैसे—अन्दिः संस्कृतम् अप्यं हविः ॥ ५२८ ॥

**सोमर्हति यः ॥ ५२९ ॥ अ० ४ । ४ । १३५ ॥**

योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थ सोम शब्द से य प्रत्यय हो । [ जैसे— ] सोमर्हति सोम्यः ॥ ५२९ ॥

\* यहाँ तीर्थ उसको कहते हैं जो संसार के हुःखों से पार कर देवे । सो पदानेवाला आचार्य और वैदिक समझनी चाहिये । जिनका एक गुरु पदानेहारा और वेद का पाठ साथ हो, वे सतीश्चयं कहावें ॥

† समानोदद्यं और सोदर्यं उन माझ्यों के नाम हैं कि लो एक माता के उदर से उत्पन्न हुए हों । और जिनकी माता दो और पिता एक होते उनके ये नाम नहीं हो सकते हैं ॥

मर्ये च ॥ ५३० ॥ अ० ४ । ४ । १३८ ॥

जिन २ अर्थों में मधु प्रत्यय विधान किया है, उन २ अर्थों और उन्हीं समर्थ-विभक्तियों से सोमशब्द से य प्रत्यय हो। जैसे—सोमस्य विकारोऽवयवो वा सोम्यं मधु इत्यादि ॥ ५३० ॥

शिवशमरिष्टस्य करे ॥ ५३१ ॥ अ० ४ । ४ । १४३ ॥

करते अर्थ में शिव शम् और अरिष्ट शब्दों से तातिल् प्रत्यय हो। जैसे—शिवस्य करः शिवतातिः; शन्तातिः; अरिष्टतातिः ॥ ५३१ ॥

भावे च ॥ ५३२ ॥ अ० ४ । ४ । १४४ ॥

भावार्थ में भी शिव शम् और अरिष्ट प्रातिपदिकों से तातिल् प्रत्यय हो। जैसे—शिवस्य भावः शिवतातिः; शन्तातिः; अरिष्टतातिः ॥ ५३२ ॥—इति चतुर्थोऽन्यायः समाप्तः ॥

अथ पञ्चमाध्याय आरम्भते—

प्राक्क्रीताच्छः ॥ ५३३ ॥ अ० ५ । १ । १ ॥

क्रीताधिकार से पूर्व २ छ प्रत्यय का अधिकार किया जाता है। यहाँ से आगे सामान्य करके सब अर्थों में छ प्रत्यय होगा। जैसे—घटाय हिता घटीया नृत्तिका इत्यादि ॥ ५३३ ॥

उगवादिभ्यो यत् ॥ ५३४ ॥ अ० ५ । १ । २ ॥

क्रीत से पूर्व २ जो अर्थ कहे हैं, उनमें उवलोन्त और गवादि प्रातिपदिकों से यद प्रत्यय हो। यह छ प्रत्यय का अपवाद है।

[जैसे—] शङ्खे हितं शङ्खव्यं वासु; पित्रव्यः कार्यासः; कमरङ्गलन्या नृत्तिका इत्यादि; गवादिकों से—गवे हितं गव्यम्; हविष्यम्; मेघाद्ये हितं मेघम् इत्यादि ॥ ५३४ ॥

तस्मै हितम् ॥ ५३५ ॥ अ० ५ । १ । ५ ॥

हित नाम उपकारी का है, उस हित अर्थ में चतुर्थोऽसमर्थ प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हो। जैसे—रोगिणे हितं रोगीयसौदधम्; मात्रीयः पित्रीयो वा पुञ्चः; वत्सेभ्यो हितो गोषुक् वत्सीयः; गर्जेभ्यो हितं गर्जीयं शाल्मम् इत्यादि ॥ ५३५ ॥

शरीराऽवयवाद्यत् ॥ ५३६ ॥ अ० ५ । १ । ६ ॥

हित अर्थ में प्राणियों के अवयववाची प्रातिपदिकों से यत् प्रत्यय हो। यह सूत्र छ प्रत्यय का अपवाद है। [जैसे—] दन्तेभ्यो हितं दन्त्यं मज्जनम्; करङ्ग्यो रसः; नाभ्यम्; नस्यम्; पद्यम्; मूर्द्धन्यः इत्यादि ॥ ५३६ ॥

आत्मन्त्रिश्वजनभोगोत्तरपदात्मः ॥ ५३७ ॥ अ० ५ । १ । ६ ॥

हित अर्थ में चतुर्थीसमर्थ आत्मन् विश्वजन और भोगोत्तरपद प्रातिपदिक से ख प्रत्यय हो । जैसे—आत्मने हितमान्मनीनम् \*; विश्वजनेभ्यो हितं विश्वजनीनम् । भोगोत्तरपदों से—मातृभोगाय हितो मातृभोगीणः दत्यादि ॥ ५३७ ॥

वा०—पञ्चजनादुपसद्गुल्म्यानम् ॥ ५३८ ॥

- पञ्चजन शब्द से भी ख प्रत्यय होते । जैसे—पञ्चजनाय हितं पञ्चजनं न ॥ ५३८ ॥

वा०—सर्वजनादुच्छ खश्च ॥ ५३९ ॥

हित अर्थ में सर्वजन शब्द से उच्छ और ख प्रत्यय होते । जैसे—सर्वजनाय हितं सार्वजनिकम्: सर्वजनीनम् ॥ ५३९ ॥

वा०—महाजनादुच्छ नित्यम् ॥ ५४० ॥

महाजन शब्द से उच्छ प्रत्यय नित्य हो । जैसे—महाजनाय हितं माहाजनिकम् † ॥ ५४० ॥

वा०—राजाचार्याभ्यां तु नित्यम् ॥ ५४१ ॥

भोग शब्द जिनके उत्तरपद में हो, ऐसे राजन् और आचार्य शब्दों से ख प्रत्यय नित्य होते । जैसे—राजभोगाय हितो राजभोगीनः ॥ ५४१ ॥

वा०—आचार्यादिणत्वच्छ ॥ ५४२ ॥

आचार्य शब्द से परे लक्ष न होते । जैसे—आचार्यभोगीनः । यहाँ केवल राजन् और आचार्य शब्दों से ख नहीं होता, किन्तु वाक्य ही बना रहता है ॥ ५४२ ॥

सर्वपुरुषाभ्यां गाढङ्गी ॥ ५४३ ॥ अ० ५ । १ । १० ॥

हित अर्थ में चतुर्थीसमर्थ सर्व और पुरुष प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके ए और उच्छ प्रत्यय होते । जैसे—सर्वस्मै हितं सार्वम्: पुरुषाय हितं पौरुषेयम् ॥ ५४३ ॥

वा०—सर्वाधिष्ठ वा वचनम् ॥ ५४४ ॥

सर्व शब्द से ख प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे—सर्वाय हितः सर्वायः ॥ ५४४ ॥

\* यहाँ (आत्माचार्यानी ले) इस चूत्र से ख प्रत्यय के परे नकारात्म आत्मन् शब्द को प्रहृतिभाव हो जाता है ॥

† यहाँ विश्वजन आदि शब्दों से कमंचार्य समाप्त में और महाजन शब्द से तथुरुप समाप्त में अनुविचान समझता चाहिये, और उच्छ समाप्त में व प्रत्यय ही होता । जैसे—विश्वजनीयम्: सर्वजनीयम्: सर्वजनीयम्: महाजनीयम् ॥

**वा०—पुरुषाद्वधविकारसमूहतेनकृतेषु ॥ ५४५ ॥**

षष्ठीसमर्थ पुरुष शब्द से वध विकार और समूह अर्थों में तथा तृतीयासमर्थ से कृत अर्थ में ठज् प्रत्यय हो। जैसे—पौरुषेयो वधः; पौरुषेयो विकारः; पौरुषेयः समूहः; पौरुषेयो ग्रन्थः ॥ ५४५ ॥

**तदर्थ विकृतेः प्रकृतौ ॥ ५४६ ॥ अ० ५ । १ । १२ ॥**

प्रकृति अर्थात् कारण जहाँ अभिघेय रहे, वहाँ चतुर्थीसमर्थ विकृतिवाची प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—अङ्गारेभ्यो हितानि काष्ठानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि; प्राकारीया इष्टकाः; शङ्खव्यं द्राघु; पिचव्यः कार्पासः इत्यादि ।

यहाँ ‘तदर्थ’ ग्रहण इसलिये है कि—यवानां धानाः; धानानां सक्तवः; यहाँ प्रत्यय न हो। ‘विकृति’ ग्रहण इसलिये है कि—उदकार्थः कृपः। ‘प्रकृति’ ग्रहण इसलिये है कि—अस्यर्था कोशी \*, यहाँ छु प्रत्यय न हो ॥ ५४६ ॥

**तदस्य तदस्मिन् स्यादिति + ॥ ५४७ ॥ अ० ५ । १ । १६ ॥**

पञ्चवर्थ और सप्तमर्थ में स्यात् समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों। [जैसे—] प्राकारमासामिष्टकानां स्यादिति प्राकारीया इष्टकाः; प्रासादीयं दारु; प्राकारोऽस्मिन् देशे स्यात् प्राकारीयो देशः; प्रासादीया भूमिः इत्यादि ।

प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्, यहाँ प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि, यहाँ प्रकृति विकृति का प्रकरण है, देवदत्त प्रासाद का कारण नहीं है ॥ ५४७ ॥

**प्राग्वतेष्ठज् ॥ ५४८ ॥ अ० ५ । १ । १८ ॥**

यह अधिकार सूत्र है। (तेन तुल्यं किया चेद्वितिः) इस सूत्र से पूर्व २ जो २ अर्थ कहें, उन २ में सामान्य से ठज् प्रत्यय होगा। जैसे—चान्द्रायणं वर्त्यति चान्द्रायणिकः इत्यादि ॥ ५४८ ॥

**आर्हाद्गोपुच्छसङ्क्लयापरिमाणादुक् ॥ ५४९ ॥ अ० ५ । १ । १६ ॥**

ठज् अधिकार के अन्तर्गत यह ठक् प्रत्यय का अधिकार उसका वाधक किया दै। (तदहंति) इस सूत्र में जो अर्ह शब्द है, वहाँ तक ठक् प्रत्यय का अधिकार जानना चाहिये, परन्तु आडु उपसर्ग यहाँ अभिविधि अर्थ में है। इसी से अर्ह अधिकार में भी ठक् होता है।

\* यहाँ प्रकृतिग्रहण से उपादानकारण समझना चाहिये, व्योंकि विकृति शब्द इसीलिये पढ़ा है। तलवार का उपादानकारण लोहा है, और भ्यान नहीं, इसी से यहाँ छु प्रत्यय नहीं होता ॥

+ इस सूत्र में स्यात् किया सम्भावना अर्थ में है कि उसका वा उसमें जो होने का सम्भव हो, और हति शब्द विचार के लिये है, कि उससे प्रत्ययार्थ विवित हो ॥

गोपुच्छ संख्या और परिमाणवाचियों से ठक् का निषेध होने से सब अर्थों में ठज् ही होता है। जैसे—गोपुच्छेन क्रीतं गोपुच्छिकम्। संख्या—घाषिकम्। परिमाण—प्रास्त्रिकम्; कौडविकम् इत्यादि ॥ ५४६ ॥

### संख्याया अतिशदन्तायाः कन् ॥ ५५० ॥ अ० ५ । १ । २२ ॥

जिस संख्या के अन्त में ति और शत् शब्द न हों, उससे आर्हीये अर्थों में ठक् प्रत्यय हो। यह ठज् का अपवाद है। जैसे—पञ्चभिः क्रीतः घटः पञ्चकः; वहुकः; गणकः।

यहाँ ‘तिदन्त शब्दंत का निषेध’ इसलिये है कि—सा तिकः; चत्वारिंशत्कः, यहाँ कन् प्रत्यय न होवे ॥ ५५० ॥

### अद्वयर्ज्ञपूर्वद्विगोलुगसंज्ञायाम् ॥ ५५१ ॥ अ० ५ । १ । २८ ॥

जिस प्रातिपदिक के पूर्व अद्वयर्ज्ञ हो, उस और द्विसुसमास प्रातिपदिक से आर्हीय अर्थों में संख्याविषय को छोड़ के प्रत्यय का लुक् हो। जैसे— अद्वयर्ज्ञकंसेन क्रीतमद्वयर्ज्ञकंसम्; द्विकंसम्; त्रिकंसम्; अद्वयर्ज्ञशर्पम्; द्विशर्पम्; त्रिशर्पम्।

यहाँ ‘संज्ञा का निषेध’ इसलिये है कि—पाञ्चलोहितिकम्; पाञ्चकपातिकम्, यहाँ लुक् न होवे ॥ ५५१ ॥

### तेन क्रीतम् ॥ ५५२ ॥ अ० ५ । १ । ३७ ॥

ठज् से लेके तेरह (१३) प्रत्यय हैं, उनका अर्थ और समर्थविभक्ति इसी सूत्र से जानना चाहिये।

क्रीत अर्थ में कृतीयासमर्थे प्रातिपदिक से यथाविहित ठज् आदि प्रत्यय होवें। जैसे—सतत्या क्रीतं साप्ततिकम्; आर्शीतिकम्; नैषिककम्; पाणिकम्; पादिकम्; माधिकम्; शत्यम्; शतिकम् इत्यादि \* ॥ ५५२ ॥

### तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ × ॥ ५५३ ॥ अ० ५ । १ । ३८ ॥

जो निमित्त अर्थे संयोग वा उत्पातसम्बन्धी होवे, तो पछीसमर्थे प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—शतस्य निमित्तं संयोगः शत्यः; शतिकः; साहस्रः। शतस्य निमित्तमुत्पातः शत्यः; शतिकः; साहस्रः इत्यादि ॥ ५५३ ॥

\* देवदत्तेन क्रीतम् इत्यादि वाक्यों में प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि लोक में देवदत्तिक आदि एवं एवं से क्रीत अर्थ का बोध नहीं होता ॥

× अनुकूल वा प्रतिकूल प्राणी तथा अप्राणी के साथ सम्बन्ध होने को संयोग कहते हैं। और दसात उसको कहते हैं जो काँई श्रक्षमात् आश्र्वयरूप कार्य होवे, उससे किसी दूसरे कार्य का होना समझा जावे। जैसे पीढ़ी विजुली चमके तो वायु अधिक चले इत्यादि। यह एक पदार्थविद्या की बात है ॥

वा०-तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तश्लेषमभ्यः शमनकोपनयोरुप-  
सङ्ग्रह्यानम् ॥ ५५४ ॥

शांति और कुपित होने अर्थ में वात पित्त और श्लेष शब्दों से टक् प्रत्यय होते ।  
जैसे—वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्; पैत्तिकम्; श्लैषिकम् ॥ ५५४ ॥

वा०-सन्निपाताच्च ॥ ५५५ ॥

सन्निपात शब्द से भी शान्ति और कोप अर्थ में टक् प्रत्यय होते । जैसे—सन्नि-  
पातस्य शमनं कोपनं वा सान्निपातिकम् ।

ये दोनों वार्तिक अपूर्वविधायक हैं, क्योंकि इन शब्दों से टक् प्रत्यय किसी सूत्र  
करके प्राप्त नहीं है ॥ ५५५ ॥

सर्वभूमिपृथिवीभ्यामण्डौ ॥ ५५६ ॥ अ० ५ । १ । ४१ ॥

संयोग और उत्पातसम्बन्धी निमित्त अर्थ में पष्टीसमर्थ सर्वभूमि और पृथिवी  
प्रातिपदिक से यथासंख्य करके अण् और अञ् प्रत्यय होते । जैसे—सर्वभूमिनिमित्त  
संयोग उत्पातो वा सार्वभौमः; पार्थिवो वा । यहां अनुशतिकादिगण में होने से सर्वभूमि  
शब्द को उभयपदवृद्धि होती है ॥ ५५६ ॥

तस्येश्वरः ॥ ५५७ ॥ अ० ५ । १ । ४२ ॥

पष्टीसमर्थ सर्वभूमि और पृथिवी प्रातिपदिक से ईश्वर अर्थ में यथासंख्य करके  
अण् और अञ् प्रत्यय होते । जैसे—सर्वभूमेरीश्वरः सार्वभौमः; पार्थिवो वा ॥ ५५७ ॥

तत्र विदित इति च ॥ ५५८ ॥ अ० ५ । १ । ४३ ॥

सप्तमीसमर्थ सर्वभूमि और पृथिवी शब्द से विदित नाम प्रसिद्धि अर्थ में अण् तथा  
अञ् प्रत्यय होते । जैसे—सर्वभूमो विदितः सार्वभौमः; पार्थिवो वा ॥ ५५८ ॥

तस्य वापः ॥ ५५९ ॥ अ० ५ । १ । ४५ ॥

पष्टीसमर्थ प्रातिपदिक से खेत अर्थ वाच्य रहे, तो यथाविहित प्रत्यय होते । वाप  
कहते हैं खेत को, क्योंकि उसमें जो आदि अन्न वोये जाते हैं । [ जैसे— ] प्रश्नस्य वापः  
क्षेत्रं प्राणिकम्; द्रीणिकम्; खारिकम् इत्यादि ॥ ५५९ ॥

तदस्मिन् वृद्धचायलाभशुत्कोपदा दीयते ॥५६०॥ अ० ५ । १ । ४७ ॥

सप्तम्यर्थ में प्रथमात्मर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते, जो वृद्धि आय लाभ  
शुत्क और उपदा ये अर्थ दीयते किया के कर्मचाच्य होते तो ।

जो द्रव्य व्याज में देते हैं उसको वृद्धि कहते हैं। ग्राम आदि में जो जमीदार का भाग होता है वह आय। जो दुकानदारी के व्यवहार में मूल वस्तु से अधिक द्रव्य की प्राप्ति है, उसको लाभ। राजा के भग की शुल्क, और धूंस लेने की उपदा कहते हैं।

जैसे—पञ्चासिन् वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा उपदा वा दीयते पञ्चकः; सप्तकः; षट्यः; शतिकः; साहचः इत्यादि ॥ ५६० ॥

### वा०—चतुर्थर्थ उपसङ्ख्यानम् ॥ ५६१ ॥

वृद्धि आदि दीयते क्रिया के कर्मवाच्य हों, तो चतुर्थ के अर्थ में भी प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—पञ्चासम् वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा उपदा वा दीयते पञ्चको देवदत्तः इत्यादि ॥ ५६१ ॥

### तद्वरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः ॥ ५६२ ॥ अ० ५। ५०॥

द्वितीयासमर्थ, वंश आदि गणपठित शब्दों से परे जो भार शब्द, तदन्त से हरति वहति और आवहति क्रियाओं के कर्त्ता अर्थ में यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—वंशभारं हरति वहति आवहति वा वांशमारिकः; कौटजमारिकः; वाल्वजभारिकः \*।

यहाँ ‘भार’ ग्रहण इसलिये है कि—भारवंशं हरति, यद्वा न हो। और ‘वंशादि’ इसलिये है कि—व्रीहिभारं हरति, यद्वा भी प्रत्यय न हो ॥ ५६२ ॥

### सम्भवत्यवहरति पचति ॥ ५६३ ॥ अ० ५। १। ५२ ॥

द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से संभव समाप्ति और पकाने अर्थों में यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—प्रस्तं सम्भवति अवहरति पचति वा प्राप्तिकः; कौडविकः; सारीकः; प्रत्यक्षमनुमानं शब्दो वा यं व्यवहारं प्रति सम्भवति स प्राप्त्यक्षिकः; आनुमानिकः; शान्दिको वा व्यवहारः इत्यादि ॥ ५६३ ॥

### वा०—तत्पचतीति द्रोणादण् च ॥ ५६४ ॥

द्वितीयासमर्थ द्रोण प्रातिपदिक से पकाने अर्थ में अण् और ठञ् प्रत्यय हों। जैसे—द्रोणं पचति द्रोणी द्रीणिकी वा व्राहणी ॥ ५६४ ॥

### सोऽस्यांशवस्त्रभृतयः ॥ ५६५ ॥ अ० ५। १। ५६ ॥

अंश मूल्य और सेवन अर्थों में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से पष्टी के अर्थ में यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—पञ्चांशा वस्त्रानि भृतयो वा ऽस्य व्यापारस्य पञ्चकः; सप्तकः; साहचः इत्यादि ॥ ५६५ ॥

\* इस सुत्र का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जो भारस्प वंशादि प्रातिपदिक हैं, उनसे ले चलने भादि अर्थों में यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—भारभूतान् वंशान् वहति वांशिकः; वास्त्रजिकः इत्यादि ॥

**तदस्य परिमाणम् ॥ ५६६ ॥ अ० ५ । १ । ५७ ॥**

पञ्चवर्थ में परिमाणवाची प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—प्रस्थः परिमाणमस्य प्राण्यिको राशि'; स्वारीकः; शत्यः; शतिकः; साहसः; द्वौर्णिकः; कौडविकः; वर्षशतं परिमाणमस्य वार्षशतिकः; वार्षसहस्रिकः; पष्ठिजीवितं परिमाणमस्य पाण्यिकः इत्यादि ॥ ५६६ ॥

**सङ्ग्रह्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राऽध्ययनेषु ॥ ५६७ ॥ अ० ५ । १ । ५८ ॥**

पूर्वसूत्र की अनुवृत्ति यहां चली आती है।

संज्ञा सङ्घ सूत्र और अध्ययन अर्थों में परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पष्ठी के अर्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं ॥ ५६७ ॥

**वा०—संज्ञायां स्वार्थं ॥ ५६८ ॥**

संज्ञा अर्थ में कहे प्रत्यय स्वार्थ की संज्ञा में होते हैं। जैसे—पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः; त्रय एव त्रिकाः शालङ्कायानाः। सङ्घ अर्थ में—पञ्च परिमाणमस्य पञ्चकः सङ्घः; पञ्चका वृक्षाः; विकः; अष्टको वा। सूत्र अर्थ में—अष्टावद्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य अष्टकं पाणिनीयं सूत्रम्; पञ्चको गोतमो न्यायाः; द्वादशिका जैमिनीया मीमांसाः; चतुर्ष्कं व्यासीयं सूत्रम्; दशकं वैयाक्रपदीयम्; विकं काशकृत्स्नम्।

अध्ययों का समुदाय भी सङ्घ अर्थ में आ जाता है, फिर सूत्रग्रहण पृथक् इसलिये है कि—सङ्घ शब्द वहुधा प्राणियों के समुदाय में आता है। अध्ययन अर्थ में—पञ्चकोऽधीतः; सप्तकोऽधीतः; अष्टकः; नवकः इत्यादि ॥ ५६८ ॥

**वा०—स्तोमे डविधिः पञ्चदशाद्यर्थः ॥ ५६९ ॥**

स्तोमपरिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ पञ्चदशादि प्रातिपदिक से पष्ठी के अर्थ में ड प्रत्यय होते हैं। जैसे—पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य स्तोमस्य पञ्चदशः स्तोमः; सप्तदशः; एकविंशः इत्यादि ॥ ५६९ ॥

**वा०—शन्तातोऽर्दिनिश्छन्दसि ॥ ५७० ॥**

शन् और शत् जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिकों से वैदिकप्रयोग विषय में डिनि प्रत्यय हो। जैसे—पञ्चदश दिनानि परिमाणमेपां पञ्चदशिनोऽर्द्धमासाः; त्रिशिनो मासाः ॥ ५७० ॥

**वा०—विंशतेश्च ॥ ५७१ ॥**

विंशति शब्द से भी डिनि प्रत्यय हो। जैसे—विंशतिः परिमाणमेपां विशिनोऽङ्गिरसः ॥ ५७१ ॥

पंक्तिविंशतिविंशत्वा रिंशत्पञ्चाशत्पष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम् ।

॥ ५७२ ॥ अ० ५ । १ । ५६ ॥

परिमाण अर्थ में पड़कि आदि शब्द निपातन किये हैं। जो कुछ कार्य सूचों से सिद्ध नहीं होता, सो सब निपातन से सिद्ध जानना चाहिये। जैसे—पड़कि शब्द में पञ्चन् शब्द के टि भाग का लोप और ति प्रत्यय किया है। पञ्च परिमाणमस्य तत् पंक्तिशब्दन्तः।

दो दशत् शब्द को बिन् आदेश और शतिच् प्रत्यय हो। जैसे—द्वो दशतो परिमाण-मेषान्ते विश्वतिः पुरुषाः। तीन दशत् शब्दों को बिन् आदेश और शत् प्रत्यय। जैसे—त्रयो दशतः परिमाणमेषान्ते विश्वत्। चार दशत् शब्दों को चत्वारिन् आदेश और शत् प्रत्यय। जैसे—चत्वारो दशतः परिमाणमेषां ते चत्वारिंशत्। पांच दशत् शब्दों को पञ्चा आदेश और शत् प्रत्यय। जैसे—पञ्च दशतः परिमाणमेषां ते पञ्चाशत्। छः दशत् शब्दों को पय आदेश और ति प्रत्यय। जैसे—पड़ दशतः परिमाणमेषां ते पष्टिः।

सात दशत् शब्दों को सप्त आदेश और ति प्रत्यय। जैसे—सप्त दशतः परिमाणमेषां ते सप्ततिः। आठ दशत् शब्दों को अशी आदेश और ति प्रत्यय। जैसे—अष्टौ दशतः परिमाणमेषां ते अशीतिः। नव दशत् शब्दों को नव आदेश और ति प्रत्यय। जैसे—नव दशतः परिमाणमेषां ते नवतिः। और दश दशत् शब्दों को श आदेश और त प्रत्यय निपातन किया है। जैसे—दश दशतः परिमाणमेषां ते शतम् ॥ ५७२ ॥

पञ्चदशतौ वर्गे वा ॥ ५७३ ॥ अ० ५ । १ । ६० ॥

यद्यां संख्यावाची पञ्च और दश शब्द से कन् प्राप्त है, उसका यह अपवाद है, और पक्ष में कन् भी होजाता है।

पञ्चत् और दशत् ये डति प्रत्ययान्त वर्ग और परिमाण अर्थ में विकल्प करके निपातन किये हैं। जैसे—पञ्च परिमाणमस्य पञ्चदर्गः; दशदर्गः; पञ्चको वर्गः; दशको वर्गः ॥ ५७३ ॥

तदर्हति ॥ ५७४ ॥ अ० ५ । १ । ६३ ॥

योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे—श्वेतच्छ्रुत्रमर्हति श्वेतच्छ्रुत्रिकः; वाख्ययुरिमिकः; शतिकः इत्यादि ॥ ५७४ ॥

यज्ञत्विग्म्यां घञ्जो ॥ ५७५ ॥ अ० ५ । १ । ७१ ॥

यह सूत्र ठक् प्रत्यय का वाथक है।

योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थ यज्ञ और ऋत्विज् प्रातिपदिक से यथासंख्य करके य और सन् प्रत्यय होते हैं। जैसे—यज्ञमर्हति यज्ञियः; ऋत्विजमर्हति स आर्तिजीनो ग्रामणः ॥ ५७५ ॥-

## वा०-यज्ञर्त्वभ्यां तत्कर्महर्तीत्युपसङ्गख्यानम् ॥ ५७६ ॥

यह और ऋत्विज् शब्द से उन कर्मों के करने योग्य अर्थों में उक्त प्रत्यय हों। यह वार्त्तिक सूत्र का शेष है, क्योंकि यह विशेष अर्थ सूत्र से नहीं आता है। [ जैसे— ] यज्ञकर्महर्ति यज्ञियो देशः; ऋत्विकर्महर्ति आर्त्तिजीनं व्राह्मणकुलम् ।

अब यहां तक अर्ह अधिकार पूरा हुआ। इसी से ठज् प्रत्यय के अधिकार की समाप्ति जानो। अब यहां से आगे केवल ठज् प्रत्यय का ही अधिकार चलेगा ॥ ५७६ ॥

## पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्त्यति ॥ ५७७ ॥ अ० ५ । १ । ७२ ॥

द्वितीयासमर्थं पारायणं तुरायणं और चान्द्रायणं प्रातिपदिक से वर्त्तन किया का कर्त्ता वाच्य रहे, तो ठज् प्रत्यय होवे। जैसे—पारायणं वर्त्यति पारायणिकश्छात्रः; तुरायणं वर्त्यति तौरायणिको यज्ञमानः; चान्द्रायणं वर्त्यति चान्द्रायणिको व्राह्मणः ॥ ५७७ ॥

## संशयमापन्नः ॥ ५७८ ॥ अ० ५ । १ । ७३ ॥

प्राप्त होने अर्थे में द्वितीयासमर्थं संशय प्रातिपदिक से ठज् प्रत्यय होवे। जैसे— संशयमापन्नः सांशयिकश्चौरः ॥ ५७८ ॥

## योजनं गच्छात ॥ ५७९ ॥ अ० ५ । १ । ७४ ॥

चलने अर्थे में द्वितीयासमर्थं योजन प्रातिपदिक से ठज् प्रत्यय होवे। जैसे— योजनं गच्छति यौजनिकः ॥ ५७९ ॥

## वा०-क्रोशशतयोजनशतयोरुपसंख्यानम् ॥ ५८० ॥

चलने अर्थे में द्वितीयासमर्थं क्रोशशत और योजनशत प्रातिपदिक से भी ठज् प्रत्यय हो। जैसे—क्रोशशतं गच्छति क्रोशशतिकः; योजनशतिकः ॥ ५८० ॥

## वा०-ततोऽभिगमनमहर्तीति च ॥ ५८१ ॥

यहां चकार से पूर्व वार्त्तिक की अनुवृत्ति आती है।

निरन्तर चलने अर्थे में एचमीसमर्थं क्रोशशत और योजनशत शब्द से भी ठज् प्रत्यय होवे। जैसे—क्रोशशतादभिगमनमहर्ति क्रोशशतिको भिज्जुकः; योजनशतिक आचार्यः ॥ ५८१ ॥

## उत्तरपथेनाहृतं च ॥ ५८२ ॥ अ० ५ । १ । ७७ ॥

यहां चकार से गच्छति किया की अनुवृत्ति आती है।

ग्रहण करने और चलने अर्थ में तृतीयासमर्थ उच्चरपथ प्रातिपदिक से ठज् प्रत्यय होवे । जैसे—उच्चरपथेनाहृतमौचरपथिकम्; उच्चरपथेन गच्छति ओचरपथिकः ॥ ५८२ ॥

वा०-आहृतप्रकरणे

वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वपदादुप-

संख्यानम् ॥ ५८३ ॥

ले आने और चलने अर्थ में वारि जङ्गल स्थल और कान्तार शब्द जिसके पूर्व हों, पेसे द्वितीयासमर्थ पथ प्रातिपदिक से ठज् प्रत्यय हो । जैसे—वारिपथेनाहृतं वारिपथि-कम्; वारिपथेन गच्छति वारिपथिकः; जङ्गलपथेनाहृतं जङ्गलपथिकम्; जङ्गलपथेन गच्छति जङ्गलपथिकः; स्थलपथेनाहृतं स्थालपथिकम्; स्थलपथेन गच्छति स्थालपथिकः; कान्तारपथेनाहृतं कान्तारपथिकम्; कान्तारपथेन गच्छति कान्तारपथिकः ॥ ५८३ ॥

वा०-अजपथशङ्कुपथाभ्यां च ॥ ५८४ ॥

अजपथ और शङ्कुपथ शब्द से भी उक्त अर्थों में ठज् प्रत्यय हो । जैसे—अजपथे-नाहृतं गच्छति वा आजपथिकः; शङ्कुपथेनाहृतं गच्छति वा शाङ्कुपथिकः ॥ ५८४ ॥

वा०-मधुकमरिचयोरण् स्थलात् ॥ ५८५ ॥

मधुक और मरिच अभिवेय हों, तो स्थलशब्द से परे जो पथ प्रातिपदिक उससे ले आने अर्थ में अए प्रत्यय होवे । जैसे—स्थलपथेनाहृतं स्थालपथं मधुकम्; स्थालपथं मरिचम् ॥ ५८५ ॥

कालात् ॥ ५८६ ॥ अ० ५ । १ । ७८ ॥

यह अधिकार सूत्र है । यद्दृं से आगे जो २ प्रत्यय विधान करें, सो २ सामान्य करके कालवाची प्रातिपदिक से जानो । जैसे—मासेन निर्वृत्तं कार्यं मासिकम्; आर्द्ध-मासिकम्; सांवत्सरिकम् इत्यादि ॥ ५८६ ॥

तेन निर्वृत्तम् ॥ ५८७ ॥ अ० ५ । १ । ७६ ॥

सिद्ध होने अर्थ में तृतीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से ठज् प्रत्यय होवे । जैसे— सुहृत्तेन निर्वृत्तं भोजनं मौहृत्तिकम्; प्राहरिकम्; सप्ताहेन निर्वृत्तो विवादः साप्ताहिकः; पाच्चिकः; अहा निर्वृत्तमाहिकम् इत्यादि ॥ ५८७ ॥

तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ॥ ५८८ ॥ अ० ५ । १ । ८० ॥

अधीष्ट कहते हैं सत्कारपूर्वक उद्दरने को; जो धन देकर खरीद लिया हो उस नोकर को भृत, भूत हो चुकने को, और भावी जो आगे होगा इसको समझना चाहिये । इन अधीष्ट आदि अर्थों में द्वितीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से ठज् प्रत्यय ही ।

जैसे— मासमधीष्ठो मासिक आचार्यः; पक्षमभूतः पात्तिकः कर्मकरः; सप्ताहभूतः साप्ताहिको व्याधिः; पौर्णमासीं भावी पौर्णमासिक उत्सवः इत्यादि ॥ ५८८ ॥

## मासाद्वयसि यत्खज्ञौ ॥ ५८६ ॥ अ० ५ । १ । ८१ ॥

यह सूत्र ठज् प्रत्यय का अपवाद है। यहाँ अधीष्ठ आदि अर्थों का अधिकार तो है, परन्तु योग्यतों के न होने से एक भूत अर्थ ही लिया जाता है।

द्वितीयासमर्थ मास शब्द से अवस्था गम्यमान होते, तो यत् और खज् प्रत्यय हों।  
जैसे—मासं भूतो मास्यः, मासीनो वा शिशुः ॥ ५८६ ॥

## तेन परिजयलभ्यकार्यसुकरम् ॥ ५८० ॥ अ० ५ । १ । ६३ ॥

जीत सकने, प्राप्त होने योग्य, और जो अच्छेप्रकार सिद्ध हो, इन अर्थों से तृतीया-समर्थ कालवाची प्रातिपदिक से ठज् प्रत्यय होते।

जैसे—पक्षेन परिजेतुं शक्यते पात्तिकः सङ्ग्रामः; मासेन लभ्यं मासिकं धनम्;  
द्वादशाहेन कार्यं द्वादशाहिकं व्रतम्; वर्षेण सुकरो वार्षिकः प्रासादः ॥ ५८० ॥

## तदस्य ब्रह्मचर्यम् ॥ ५८१ ॥ अ० ५ । १ । ९४ ॥

प्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से पछ्ती के अर्थ में ठज् प्रत्यय हो, ब्रह्मचर्य वाच्य रहे तो। जैसे—पट्टिंशदद्वा अस्य ब्रह्मचर्यस्य पट्टिंशदाविद्कं ब्रह्मचर्यम्;  
अष्टादशाविद्कम्; नवाविद्कम् ।

इस सूत्र में जयादित्य ने द्वितीया विभक्ति काल के अत्यन्त संयोग में मान के अर्थ किया है। सो सूत्र में तो काल के साथ अत्यन्त संयोग है ही नहीं, उदाहरण में हो सकता है। फिर सूत्र में द्वितीया क्यों कर हो सकती है। और द्वितीयासमर्थ विभक्ति मानने से प्रत्ययार्थ का सम्बन्ध ब्रह्मचारी के साथ होता है। सो ऋषि लोगों के अभिप्राय से विरुद्ध है। क्योंकि मनुस्मृति में ‘पट्टिंशदाविद्कम्’ यह [पद ब्रह्मचर्य का विशेषण रखा है। फिर इन लोगों का अर्थ आदर के योग्य नहीं है] ॥ ५८१ ॥

## वा०—महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य उपसंख्यानम् ॥ ५८२ ॥

षष्ठीसमर्थ महानाम्नी आदि प्रातिपदिकों से सामान्य अर्थ में ठज् प्रत्यय हो। जैसे—  
महानाम्न्या इदम्पदं माहानामिकम्; गौदानिकम् इत्यादि ॥ ५८२ ॥

## वा०—तच्चरतीति च ॥ ५९३ ॥

यहाँ चकार से पूर्व वार्तिक की अनुवृत्ति आती है। महानाम्नी नाम ऋचाओं का है, उनके सहचारी अनुष्ठान का ग्रहण तत् शब्द से समझना चाहिये।

द्वितीयासमर्थ महानाम्नी आदि प्रातिपदिकों से आचरण अर्थ में ठज् प्रत्यय होवे ।  
जैसे—महानाम्नीचरति माहानामिकः ॥; आदित्यव्रतिकः इत्यादि ॥ ५६३ ॥

### वा०—अवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिः ॥ ५६४ ॥

द्वितीयासमर्थ अवान्तरदीक्षा आदि प्रातिपदिकों से आचरण अर्थ में डिनि प्रत्यय होवे । जैसे—अवान्तरदीक्षामाचरति अवान्तरदीक्षी; तिलब्रती इत्यादि ॥ ५६४ ॥

### वा०—अष्टाचत्वारिंशतो ढुबुँथ्रे ॥ ५६५ ॥

यहां चरति क्रिया और डिनि प्रत्यय की अनुवृत्ति पूर्व वार्त्तिकों से आती है ।

द्वितीयासमर्थ अष्टाचत्वारिंशत् प्रातिपदिक से आचरण अर्थ में ढुबुन् और डिनि प्रत्यय हों । जैसे—अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि व्रतमाचरति अष्टाचत्वारिंशकः, अष्टा-चत्वारिंशी ॥ ५६५ ॥

### वा०—चातुर्मास्यानां यलोपश्च ॥ ५६६ ॥

यहां भी पूर्व की सब अनुवृत्ति आती है ।

द्वितीयासमर्थ चातुर्मास्य प्रातिपदिक से आचरण अर्थ में ढुबुन् और डिनि प्रत्यय होवें । जैसे—चातुर्मास्यानि व्रतान्याचरति चातुर्मासिकः चातुर्मासी ॥ ५६६ ॥

### वा०—चतुर्मासागण्यो यज्ञे तत्र भवे ॥ ५६७ ॥

सत्तमीसमर्थ चतुर्मास शब्द से भव अर्थ यद्य होवे, तो एव प्रत्यय हो । जैसे—चतुर्पुर्ण मासेषु भवाच्चातुर्मास्या यद्याः ॥ ५६७ ॥

### वा०—संज्ञायामण् ॥ ५६८ ॥

भवार्थ संज्ञा अभिव्येय हो, तो सत्तमीसमर्थ चतुर्मास आदि शब्दों से अणु प्रत्यय होवे । जैसे—चतुर्पुर्णमासेषु भवा चातुर्मासी पौर्णमासी; आपाही; कार्त्तिकी; फाल्गुनी; चंद्री इत्यादि ॥ ५६८ ॥

### तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ॥ ५६९ ॥ अ० ५ । १ । ६५ ॥

पृष्ठीसमर्थ यज्ञवाची प्रातिपदिकों से दक्षिणा अर्थ में ठज् प्रत्यय हो । जैसे—अग्नियोमस्य दक्षिणा आश्चियोमिकी; आश्वमेधिकी; वाजपेयिकी; राजसूयिकी इत्यादि ।

यहां ‘आख्या’ ग्रहण इसलिये है कि—इस कालाधिकार में कालसमानाधिकरण यद्यों का ही ग्रहण न हो जावे ॥ ५६९ ॥

~ यहां नाम्नी शब्द में (भस्यादे तद्विते) इस वार्त्तिक से पुंवद्वाव होकर नान्त ग्रह के टिभाग का लोप हो जाता है ॥

तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णायतौ ॥६००॥ अ० ५ । १ । ६८ ॥

यथाकथाच यह अव्ययशब्द अनादर अर्थ में आता है। और पूर्व सुन्न से 'दीयते' और 'कार्यम्' इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है।

तृतीयासमर्थ कथाकथाच और हस्त प्रातिपदिक से देने और करने अर्थों में ण और यत् प्रत्यय यथासंख्य करके हों। [जैसे—यथाकथाच दीयते कार्यं वा यथाकथाचम्; हस्तेन दीयते कार्यं वा हस्त्यम् ॥ ६०० ॥]

सम्पादनि ॥ ६०१ ॥ अ० ५ । १ । ९९ ॥

यहां पूर्व से तृतीयासमर्थ की अनुवृत्ति आती है।

अवश्य सिद्ध होनेवाला कर्त्ता वाच्य रहे, तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से उच्च प्रत्यय होवे। [जैसे—ब्रह्मचर्येण सम्पद्यते विद्या ब्राह्मचर्यिकी; उपकारेण सम्पद्यते ओप-कारिको धर्मः; धर्मेण सम्पद्यते धार्मिकं सुखम् इत्यादि ॥ ६०१ ॥]

कर्मवेषाद्यत् ॥ ६०२ ॥ अ० ५ । १ । १०० ॥

सम्पन्न होने अर्थ में तृतीयासमर्थ कर्म और वेष प्रातिपदिक से यत् प्रत्यय हो। यह उच्च का अपवाद है। [जैसे—] कर्मणा सम्पद्यते कर्मण्यं शरीरम्; वेषेण सम्पद्यते वेष्यो नटः; वेष्या नटिनी ।

यही वेष्या शब्द आज कल शकार से प्रवृत्त है, सो ठीक नहीं। क्योंकि जो अर्थ उनमें घट सकता है वह यही है। और विश्ववेशने धारु से भी वन सकता है, परन्तु ठीक २ अर्थ गणिकाओं में नहीं घटता ॥ ६०२ ॥

तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः ॥ ६०३ ॥ अ० ५ । १ । १०१ ॥

चतुर्थासमर्थ सन्ताप आदि गणपठित प्रातिपदिकों से प्रभव अर्थात् सामर्थ्यवान् अर्थ में उच्च प्रत्यय हो। [जैसे—सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः; संग्रामाय प्रभवति सांग्रामिकः; प्रवासाय प्रभवति प्रावासिकः ॥ ६०३ ॥]

समयस्तदस्य प्राप्तम् ॥ ६०४ ॥ अ० ५ । १ । १०४ ॥

प्राप्तसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ समय प्रातिपदिक से पछी के अर्थ में उच्च प्रत्यय हो। [जैसे—समयः प्राप्तोऽस्य सामयिक उद्वाहः; सामयिकं वस्त्रम्, सामयिको योगाभ्यासः; सामयिकमोपधम् इत्यादि ॥ ६०४ ॥]

छन्दसि वस् ॥ ६०५ ॥ अ० ५ । १ । १०६ ॥

यहां कृतु शब्द से अणु प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है।

प्रात्समानाधिकरण प्रथमासमर्थं ऋतुं प्रातिपदिक से पष्टी के अर्थं से वैदिकप्रयोग-विषयक ठज् प्रत्यय होते। जैसे—ऋतुः प्रातोऽस्य ऋत्विषः—अयन्ते योनिर्मृत्विषः; यहां वस् प्रत्यय के सित् होने से भसंजा होकर पदसंज्ञा का कार्य जस्त्व नहीं होता। ॥६०५॥

**प्रयोजनम् ॥ ६०६ ॥ अ० ५ । १ । १०६ ॥**

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं प्रातिपदिक से पष्टी के अर्थ में ठज् प्रत्यय हो। जैसे—उपदेशः प्रयोजनमस्य औपदेशिकः; आध्यायनिकः; खी प्रयोजनमस्य लैणः; पौङ्गाः; धर्मः प्रयोजनमस्य धार्मिकः; वितरणा प्रयोजनमस्य वैतरणिकः; पारोक्तिकः इत्यादि ॥६०६॥

**अनुप्रवचनादिभ्यः ॥ ६०७ ॥ अ० ५ । १ । १११ ॥**

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं अनुप्रवचनादि गणपठित प्रातिपदिकों से पष्टी के अर्थ में छु प्रत्यय हो। ठज् का अपवाद है। [ जैसे— ] अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्; उत्थापनीयम्; अनुवासनीयम्; आरम्भणीयम् इत्यादि ॥६०७॥

**वा०—विशिष्पूरिपात्रहिपदिप्रकृतेरनात्सपूर्वपदादुपसंख्यानम् ॥६०८॥**

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं विशिष्पूरि पति रुहि पदि इन ल्युट् प्रत्ययान्त धातुओं के प्रयोग जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिकों से छु प्रत्यय होते। जैसे—  
गृहप्रवेशनं प्रयोजनमस्य गृहप्रवेशनीयम्; प्रपापूरणीयम्; अस्प्रपतनीयम्, प्रासादारोहणीयम्; गोप्रपदनं प्रयोजनमस्य गोप्रपदनीयम् ॥६०८॥

**वा०—स्वर्गादिभ्यो यत् ॥ ६०९ ॥**

प्रयोजनसमानाधिकरण स्वर्गादि प्रातिपदिकों से पष्टी के अर्थ में यत् प्रत्यय हो। जैसे—स्वर्गः प्रयोजनमस्य स्वर्गेयम्; यशस्यम्; आयुष्यम् इत्यादि ॥६०९॥

**वा०—पुण्याहवाचनादिभ्यो लुक् ॥ ६१० ॥**

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं पुण्याहवाचन आदि प्रातिपदिकों से पष्टी के अर्थ में विहित प्रत्यय का लुक् होते। जैसे—पुण्याहवाचनं प्रयोजनमस्य पुण्याहवाचनम्; स्वस्तिवाचनम्; शान्तिवाचनम् इत्यादि ॥६१०॥

**समापनात्सपूर्वपदात् ॥ ६११ ॥ अ० ५ । १ । ११२ ॥**

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं समापन शब्द जिनके अन्त में हो, उन प्रातिपदिकों से पष्टी के अर्थ में छु प्रत्यय होते। जैसे—छन्दः समापनं प्रयोजनमस्य छन्दः समापनीयम्; न्यायसमापनीयम्; व्याकरणसमापनीयम् इत्यादि ॥६११॥

**तेन लुल्यं क्रिया चेद्वतिः ॥ ६१२ ॥ अ० ५ । १ । ११५ ॥**

तुल्य अर्थे क्रिया होवे, तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से वति प्रत्यय होवे । जैसे—  
ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत्; सिंहश्वत्; व्याघ्रवत् इत्यादि ।

यहाँ 'क्रिया' ग्रहण इसलिये है कि—जहाँ गुण और द्रव्य का सावृश्य हो वहाँ प्रत्यय  
न होवे । जैसे—भ्रात्रा तुल्यः स्यूलः; भ्रात्रा तुल्यः पिङ्गलः, यहाँ वति प्रत्यय न होवे ॥६१२॥

**तदर्हस् ॥ ६१३ ॥ अ० ५ । १ । ११७ ॥**

अर्ह अर्थ में, द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से वति प्रत्यय होवे । जैसे—राजान्मर्हति  
राजवत् पालनम्; ब्राह्मणवद्विवाप्रचारः; चूषपिवत् इत्यादि ॥ ६१३ ॥

**तस्य भावस्त्वतत्त्वां ॥ ६१४ ॥ अ० ५ । १ । ११६ ॥**

जिस गुण के होने से शब्द का अर्थ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध समझा जाता है,  
उस गुण की विवक्षा में पछीसमर्थ प्रातिपदिकमात्र से त्व और तत् प्रत्यय हों ।

जैसे—ब्राह्मणस्य भावो ब्राह्मणत्वम्, ब्राह्मणता; तस्य भावस्त्वत्त्वम्, तत्त्वा; स्त्रीत्वम्, पुंस्त्वम्;  
स्यूलत्वम्, स्यूलता; कृशत्वम्, कृशता; चेतनत्वम्, चेतनता; जडत्वम्, जडता इत्यादि ।

यहाँ से ले के इस पाद की समाप्तिपर्यन्त त्व और तत् प्रत्यय का अधिकार समझना  
चाहिये ॥ ६१४ ॥

**पृथ्वादिभ्य इमनिष्वा ॥ ६१५ ॥ अ० ५ । १ । १२२ ॥**

पछीसमर्थ पृथु आदि गणपठित प्रातिपदिकों से भाव अर्थ में इमनिच् प्रत्यय विकल्प  
करके होवे, पक्ष में त्व और तत् प्रत्यय होवे ।

जैसे—पृथुर्भावः प्रथिमा; च्रदिमा; महिमा; लग्निमा; गरिमा; पृथुत्वम्, पृथुता;  
सृदुत्वम्, सृदुता; महत्वम्, महत्ता; लघुत्वम्, लघुता; गुरुत्वम्, गुरुता इत्यादि ॥ ६१५ ॥

**वर्णद्वादिभ्यः द्यञ्च ॥ ६१६ ॥ अ० ५ । १ । १२३ ॥**

यहाँ चकार से इमनिच् और विकल्प की भी अनुदृति आती है ।

पछीसमर्थ वर्णवाची और द्वादादि प्रातिपदिकों से भाव अर्थ में व्यञ् और इमनिच्  
प्रत्यय हो । जैसे—शुक्लस्य भावः शोक्लत्वम्, शुक्लिमा, शुक्लत्वम्, शुक्लता; काञ्छर्यम्, कृप्लिमा,  
कृष्णत्वम्, कृष्णता; नैत्यम्, नीलिमा, नीलित्वम्, नीलता इत्यादि । द्वादादिकों से—  
दाढर्यम्, द्रढिमा, दहरत्वम्, दहता; पारिडत्यम्, परिडिमा, परिडत्वम्, परिडतता;  
मधुरस्य भावो माधुर्यम्, मधुरिमा, मधुरत्वम्, मधुरता इत्यादि ॥ ६१६ ॥

**गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ॥ ६१७ ॥ अ० ५ । १ । १२४ ॥**

जिन शब्दों से शीत उच्छ आदि गुणों का वीध हो, उनको गुणवचन कहते हैं । यहाँ  
चकार भाव अर्थ का समुच्चय होने के लिये है ।

पष्टीसमर्थ गुणवाची और ब्राह्मणादि प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थ में व्यञ्ज प्रत्यय होवे। जैसे—शीतस्य भावः कर्म वा शैत्यम्; ओधयम्; शीतत्वम्, शीतता; उष्णत्वम्, उष्णता। ब्राह्मणादिकों से—ब्राह्मणस्य भावः कर्म वा ब्राह्मणम्; चौर्यम्; मौक्यम्; कौशल्यम्; चापल्यम्; नैपुरायम् इत्यादि।

और अधिकार से त्व और तल् भी होते हैं। [ जैसे— ] ब्राह्मणत्वम्, ब्राह्मणता इत्यादि। यहां से आगे भाव और कर्म दोनों अर्थों का अधिकार चलेगा ॥ ६१७ ॥

### वा०-चातुर्वर्षादीनां स्वार्थं उपसंख्यानम् ॥ ६१८ ॥

चतुर्वर्षा आदि शब्दों से स्वार्थ में व्यञ्ज प्रत्यय हो। जैसे—चत्वार एव वर्णाद्यातुर्वर्षर्यम्; चातुराश्रम्यम्; ब्रैलोक्यम्; ब्रेसर्यम्; ऐकस्वर्ण्यम्; पाङ्गुरायम्; सैन्यम्; सान्निध्यम्; सार्माध्यम्; ओपम्यम्; सौख्यम् इत्यादि ॥ ६१८ ॥

### स्तेनाद्यन्नलोपश्च ॥ ६१९ ॥ अ० ५ । १ । १२५ ॥

भाव और कर्म अर्थ में स्तेन शब्द से यत् प्रत्यय और नकार का लोप होवे। जैसे—स्तेनस्य भावः कर्म वा स्तेयम् ॥ ६१९ ॥

### सख्युर्यः ॥ ६२० ॥ अ० ५ । १ । १२६ ॥

भाव और कर्म अर्थ में सखि शब्द से य प्रत्यय होवे। जैसे—सख्युर्भविः कर्म वा सख्यम् ॥ ६२० ॥

### वा-द्रूतवणिरभ्यां च ॥ ६२१ ॥

द्रूत और वणिक् शब्दों से भी य प्रत्यय हो। जैसे—द्रूतस्य भावः कर्म वा द्रूत्यम्; वणिज्यम्। वणिक् शब्द का पाठ ब्राह्मणादिगण में होने से व्यञ्ज प्रत्यय भी हो जाता है। जैसे—वाणिज्यम् ॥ ६२१ ॥

### पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् ॥ ६२२ ॥ अ० ५ । १ । १२८ ॥

पष्टीसमर्थ पति शब्द जितके अन्त में हो, उन और पुरोहितादि प्रातिपदिकों से यक् प्रत्यय होवे भाव और कर्म अर्थ वाच्य रहे तो। जैसे—सेनापतित्वम्, सेनापतिता इत्यादि। पत्यन्तपुरोहितादिकों से—पौरोहित्यम्; राज्यम्; वाल्यम्; पुरोहितत्वम्, पुरोहितता इत्यादि ॥ ६२२ ॥

अधिकार के होने से त्व तल् भी होते हैं। जैसे—सेनापतित्वम्, सेनापतिता इत्यादि। पुरोहितादिकों से—पौरोहित्यम्; राज्यम्; वाल्यम्; पुरोहितत्वम्, पुरोहितता इत्यादि ॥ ६२२ ॥

अथ द्वितीयः पादः—

**धान्यानां भवने क्षेत्रे खज् ॥ ६२३ ॥ अ० ५ । २ । १ ॥**

यहां बहुवचन का निर्वेश होने से धान्य के विशेषवाची शब्दों का ग्रहण होता है।

पष्टीसमर्थ धान्यविशेषवाची शब्दों से उत्पत्ति का स्थान खेत अर्थे वाच्य रहे, तो खज् प्रत्यय हो। जैसे—गोधूमानां भवने क्षेत्रं गौधूमीनम्; मौद्रीनम्; कौलत्थीनम् इत्यादि।

यहां 'धान्यवाचियों का' ग्रहण इसलिये है कि—त्रणानां भवनं क्षेत्रम्, यहां न हो। और 'खेत का' ग्रहण इसलिये है कि—गोधूमानां भवनं कुशलम्, यहां भी खज् प्रत्यय न होवे। ६२३ ॥

**तत्सर्वादेः पश्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति ॥ ६२४ ॥ अ० ५ । २ । ७ ॥**

सर्वे शब्द जिनके आदि में हो, ऐसे पथिन् अङ्ग कर्मन् पत्र और पात्र द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से व्याप्ति अर्थे में ख प्रत्यय होवे।

जैसे—सर्वपथं व्याप्रोति सर्वपथीनं शकटम्; सर्वाण्यङ्गानि व्याप्नोति सर्वाङ्गीणमोषधम्; सर्वं कर्म व्याप्नोति सर्वकर्माणः पुरुषः; सर्वपत्रीणः सारथिः; सर्वपात्रीणः सूपः इत्यादि। ६२४ ॥

**तस्य पाकमूले पीत्वादिकर्णादिभ्यः कुण्ड्जाहचौ ॥ ६२५ ॥**

**अ० ५ । २ । २४ ॥**

पाक और मूल अर्थों में पष्टीसमर्थ पीत्वादि और कर्णादि गणपठित प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके कुण्डपु और जाहच् प्रत्यय हों।

जैसे—पीतूनां पाकः पीतुकुणः; खदरकुणः; खदिरकुणः इत्यादि। कर्णादिकों से—कर्णस्य मूलं कर्णजाहम्; नखजाहम्; केशानां मूलं केशजाहम्; दन्तजाहम् इत्यादि। ६२५ ॥

**तेन वित्तश्चुञ्चुपचणपौ ॥ ६२६ ॥ अ० ५ । २ । २६ ॥**

तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ह्रात अर्थे में चुञ्चुप् और चणप् प्रत्यय हों। जैसे—विद्या वित्तो ह्रातो विद्याचुञ्चुः; उपदेशेन वित्त उपदेशचणः इत्यादि। ६२६ ॥

**विनश्चभ्यां नानाऽयौ नसह ॥ ६२७ ॥ अ० ५ । २ । २७ ॥**

नसह अर्थात् पृथग्भाव अर्थे में वि और नञ् अव्यय प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके ना और नञ् प्रत्यय हों। जैसे—विना; नाना। नञ् अव्यय के अनुवन्ध का लोप होकर वृद्धि हो जाती है। ६२७ ॥

\* इत्यादि जिन २ सूत्र वाचिकों में अव्ययों से प्रत्यय विधान किये हैं, वहां २ महाविभाषा अर्थात् (समर्थानां०) इस अधिकार सूत्र के विकल्प की प्रवृत्ति न होने से बाक्य नहीं रहता। अर्थात् नित्य प्रत्यय हो जाते हैं।

वे: शालच्छङ्कटचौं ॥ ६२८ ॥ अ० ५ । २ । २८ ॥

वि अव्यय प्रातिपदिक से शालच् और शङ्कटच् प्रत्यय हों। जैसे—विशालः, विशङ्कटो वा पुरुषः ॥ ६२८ ॥

सम्प्रोदश्च कटच् ॥ ६२९ ॥ अ० ५ । २ । २९ ॥

यहां चकार ग्रहण से वि उपसर्ग की अनुवृत्ति आती है।

सम्, प्र, उट् और वि इन उपसर्ग शब्दों से कटच् प्रत्यय हो। जैसे—सङ्कटम्; प्रकटम्; उत्कटम्; विकटम् ॥ ६२९ ॥

वा०—कटच्चप्रकरणेऽलावूतिलोमाभङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम् ॥ ६३० ॥

अलावू तिल उमा और भङ्गा प्रातिपदिकों से रज अर्थ में कटच् प्रत्यय हो। जैसे—अलावूनां रजोऽलावूकटम्; तिलकटम्; उमाकटम्; भङ्गाकटम् ॥ ६३० ॥

वा०—गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य उपसंख्यानम् ॥ ६३१ ॥

स्थान आदि अर्थों में पशु आदि के विशेषनामवाची शब्दों से गोष्ठ आदि प्रत्यय हों। जैसे—गवां स्थानं गोगोष्ठम्; माहिरीगोष्ठम्; अजागोष्ठम्; अविगोष्ठम् इत्यादि ॥ ६३१ ॥

वा०—संघाते कटच् ॥ ६३२ ॥

यहां पूर्व वार्तिक की अनुवृत्ति आती है।

संघात अर्थ में पशुओं के विशेष नामवाची प्रातिपदिकों से कटच् प्रत्यय हो। जैसे—अर्धीनां संघातोऽविकटम्; अजाकटम्; गोकटम् इत्यादि ॥ ६३२ ॥

वा०—विस्तारे पटच् ॥ ६३३ ॥

विस्तार अर्थ में पशुओं के विशेषनामवाची प्रातिपदिकों से पटच् प्रत्यय होते। जैसे—गवां विस्तारो गोपटम्; उप्रूपटम्; वृकपटम् इत्यादि ॥ ६३३ ॥

वा०—द्वित्वे गोयुगच् ॥ ६३४ ॥

पशुओं के द्वित्व अर्थ में उक्त शब्दों से गोयुगच् प्रत्यय होते। जैसे—उप्राणां द्वित्वम् उप्रूगोयुगम्; द्वित्तिगोयुगम्; व्याव्रगोयुगम् इत्यादि ॥ ६३४ ॥

\* विशाल आदि शब्द कि जिनका निर्वचन कहने में नहीं आता वे अव्युपल्ल शब्द कहते हैं। वस्तुतः ये शब्द अव्युत्पन्न ही हैं, वर्षोंकि प्रकृति और प्रत्ययों का मिल अर्थ कुछ विदित नहीं होता। फिर इनमें प्रत्यय विधान के बाल स्वर आदि का बोध होने के लिये हैं ॥

\* इन सूत्र वार्तिकों से कटच् आदि प्रत्ययों के विधान में दूसरा पक्ष यह भी है कि कट आदि शब्द रज आदि अर्थों के वाचक हैं, उनके साथ पर्याप्त्युपर्य समाप्त होकर ये शब्द बनते हैं। जैसे गोष्ठ नाम स्थान का है—गवां गोष्ठ गोगोष्ठम् इत्यादि। इस पक्ष में इन वार्तिकों का कुछ प्रयोजन नहीं है ॥

वा०-प्रकृत्यर्थस्य पटुत्वे पड़गवच् ॥ ६३५ ॥

उक्त प्रातिपदिकों से छुः व्यक्तियों के दोध होने अर्थ में पड़गवच् प्रत्यय हो । जैसे—  
पट् हस्तिनो हस्तिपड़गवम्; अश्वपड़गवम् इत्यादि ॥ ६३५ ॥

वा०-स्नेहे तैलच् ॥ ६३६ ॥

स्नेह अर्थात् धी तेल आदि अर्थों में सामान्य प्रातिपदिकों से तैलच् प्रत्यय हो ।  
जैसे—एरण्डतैलम्; तिलतैलम्; सर्पपैलम्; इड्गुदीतैलम् इत्यादि ॥ ६३६ ॥

वा०-भवने चेत्रे इच्चादिभ्यः शाकटशाकिनौ ॥ ६३७ ॥

उत्पत्ति का स्थान खेत वाच्य रहे, तो इचु आदि शब्दों से शाकट और शाकिन प्रत्यय हों । जैसे—इच्चाणां चेत्रमिन्नशाकटम्; इचुशाकिनम्; यवशाकटम्; यवशाकिनम् इत्यादि ॥ ६३७ ॥

नते नासकायाः संज्ञायां टीटाटनाटचभ्रटचः ॥ ६३८ ॥ अ० ५ । २ । ३१ ॥

यहां पूर्व सूत्र से अव उपसर्ग की अनुवृत्ति आती है ।

नासिका के टेढे होने अर्थ में संज्ञा अभिशेष रहे, तो अव शब्द से टीटाटनाटच और भ्रटच प्रत्यय हों । जैसे—नासिकाया नतम् अवटीटम्; अवनाटम्; अवभ्रटम् ।

ऐसी नासिका से चुक्त पुरुष के भी ये नाम पड़ जाते हैं । जैसे—अवटीटः; अवनाटः; अवभ्रटो वा पुरुषः इत्यादि ॥ ६३८ ॥

इन्दिपटच्चिकचि च ॥ ६३९ ॥ अ० ५ । २ । ३२ ॥

यहां नि उपसर्ग और नासिका के नत की अनुवृत्ति आती है ।

नि शब्द से नासिका के नम जाने अर्थ में इनच् और पिटच् प्रत्ययों के परे नि शब्द को यथासंख्य करके चिक और चि आदेश होते । जैसे—चिकिनः; चिपिटः ॥ ६३९ ॥

वा०-ककारप्रत्ययो वक्तव्यश्चिकच प्रकृत्यादेशः ॥ ६४० ॥

नि शब्द को चिक् आदेश और उससे क प्रत्यय भी हो । जैसे—चिकः ॥ ६४० ॥

वा०-क्लिन्नस्य चिल्पिल्लुल्लथास्य चक्षुपी ॥ ६४१ ॥

इसके नेत्र इस अर्थ में क्लिन्न शब्द को चिल् पिल् और चुल् आदेश और ल प्रत्यय होते । जैसे—क्लिन्ने अस्य चक्षुपी चिलः; पिलः; चुलः ॥ ६४१ ॥

उपाधिभ्यां स्वकन्नासन्नारुढयोः ॥ ६४२ ॥ अ० ५ । २ । ३४ ॥

यहां ( नते नासिकार० ) इस सूत्र से संज्ञा की अनुवृत्ति चली आती है ।

आसन्न और आहूद् अर्थ में वर्तमान उप और अधि उपसगों से संज्ञाविषयक स्वार्थ में त्यक्त ग्रन्थ्य हो। जैसे—पर्वतस्यासन्नमुपत्यका; पर्वतस्यालृष्टमधित्यका + ॥ ६४२ ॥

**तदस्य सज्जातं तारकादिभ्य इतच् ॥६४३॥ अ० ५ । २ । ३६ ॥**

सज्जात समानाधिकरण ग्रथमासमर्थ तारक आदि गत्यपठित शब्दों से पर्याके अर्थ में इतच् ग्रन्थ्य होते हैं।

जैसे—तारकाः सज्जावा अस्य तारकितं नभः; पुष्पितो वृक्षः; परहडा सज्जाता अस्य परिगृहतः; तन्द्रा सज्जावाऽस्य तन्द्रितः; सुद्रा सज्जावाऽस्य सुद्रितं पुस्तकम् इत्यादि। तारकादि आकृतिगण समकृता चाहिये ॥ ६४३ ॥

**प्रमाणे द्वयसज्जद्वज्मात्रचः ॥ ६४४ ॥ अ० ५ । २ । ३७ ॥**

प्रमाण समानाधिकरण ग्रथमासमर्थ प्रतिपदिकों से पर्याके अर्थ में द्वयसच् द्वज्मच् और मात्रच् ग्रन्थ्य होते हैं ॥ ६४४ ॥

**वा०-प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊर्ध्वमाने मर्तों सम ॥ ६४५ ॥**

द्वयसच् और द्वज्मच् वे दोनों ग्रन्थ्य ऊर्ध्वमान अर्थात् ऊंचाई के इतने अर्थ में होते हैं, और मात्रच् सामान्य इतना में जाते।

यह कारिका सूत्र का शेष है। जैसे—ऊरु प्रमाणमस्य ऊरुद्वयसमुदकम्; ऊरुद्वज्म-सुदकम्; ऊरुमात्रम्; जानुद्वयसम्; जानुद्वज्मम्; जानुमात्रम्; प्रस्यमात्रम् इत्यादि ॥ ६४५ ॥

**वा०-प्रमाणे लः ॥ ६४६ ॥**

प्रमाणवाची शब्दों से पर्याके अर्थ में हुए ग्रन्थ्य का लुक् हो। जैसे—शमः प्रमाण-मस्य शमः; द्विष्ठिः; विवस्तिः इत्यादि ॥ ६४६ ॥

**वा०-द्विगोर्नित्यम् ॥ ६४७ ॥**

द्विगुसंष्क्रक प्रमाणवाची शब्दों से नित्य ही उत्पन्न ग्रन्थ्य का लुक् हो। जैसे—द्वौ शुरों प्रमाणमन्य द्विशमः; त्रिशमः; द्विवित्स्तिः इत्यादि।

इस वार्त्तिक में ‘नित्यं ग्रहण इसलिये है कि—अगले वार्त्तिक में संशय अर्थ में मात्रच् कहा है, वहां भी द्विगु से लुक् ही होजावे। जैसे—द्वे द्विष्ठी स्यातां वा न वा द्विद्विष्ठः ॥ ६४७ ॥

**वा०-प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशये मात्रच् ॥६४८॥**

प्रमाणवाची परिमाणवाची और संख्यावाची प्रतिपदिकों से संशय अर्थ में मात्रच् ग्रन्थ्य होते हैं। जैसे—प्रमाणवाची—शममात्रम्; द्विष्ठिमात्रम्। परिमाणवाची—प्रस्यमात्रम्। संख्यावाची—पञ्चमात्रा वृक्षाः; दशमात्रा नावः इत्यादि ॥ ६४८ ॥

५ यहां पद्मश्ल्य कक्षार से पूर्व हत्य प्राप्त है, सो इन शब्दों के संज्ञावाची होने से नहीं होता। अयोंत् वे शब्द इसी प्रकार के पर्वत के आसन्न आहूद अयों में लट्टे हैं।

**वा०-वत्वन्तात्स्वार्थे द्वयसज्जमात्रचौ वहुलम् ॥ ६४६ ॥**

वतुप् प्रत्ययान्तं प्रातिपदिक से द्वयसच् और मात्रच् प्रत्यय स्वार्थ में वहुल करके हों। जैसे—तावदेव तावद्वयसम्; तावन्मात्रम्; एतावद्वयसम्; एतावन्मात्रम्; यावद्वयसम्; यावन्मात्रम् ॥ ६४६ ॥

**यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् ॥ ६५० ॥ अ० ५ । २ । ३६ ॥**

प्रथमासमर्थं परिमाणासमानाधिकरण यत् तत् और एतत् सर्वनामधाची प्रातिपदिकों से पष्टी के अर्थ में वतुप् प्रत्यय हो। जैसे—यत्परिमाणमस्य यावान्; तावान्; एतावान् ।

प्रमाण ग्रहण की अनुबृति पूर्व से चली आती, किर परिमाणग्रहण से इन दोनों का भेद विदित होता है ॥ ६५० ॥

**वा०-वतुप् प्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्य उपसंख्यानम् ॥ ६५१ ॥**

युष्मद् असद् शब्दों से सादृश्य अर्थ में वैदिकप्रयोगों में वतुप् प्रत्यय हो। जैसे—त्वत्सदृशस्त्वावान्; मत्सदृशो मावान्; त्वावतः पुरुषसो यज्ञं विप्रस्य मावतः ॥ ६५१ ॥

**किमिदम्भ्यां वा घः ॥ ६५२ ॥ अ० ५ । २ । ४० ॥**

परिमाणासमानाधिकरण प्रथमासमर्थं किम् और इदम् शब्दों से वतुप् प्रत्यय और वतुप् के बकार को घकारादेश होते। जैसे—किमपरिमाणमस्य कियान्; इदमपरिमाणमस्य इयान् ॥ ६५२ ॥

**संख्याया अवयवे तयप् ॥ ६५३ ॥ अ० ५ । २ । ४२ ॥**

अवयवों का अवयवी के साथ सम्बन्ध होने से प्रत्ययार्थं अवयवी समझा जाता है।

अवयवसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं संख्याधाची प्रातिपदिकों से पष्टी के अर्थ में तयप् प्रत्यय हो। जैसे—पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्; दशतयम्; चतुष्प्रयम्; चतुष्पृष्ठीं शब्दानां प्रवृत्तिः इत्यादि ॥ ६५३ ॥

**द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ॥ ६५४ ॥ अ० ५ । २ । ४३ ॥**

पूर्व सब से विहित जो द्वि शब्दों से तयप् प्रत्यय, उसके स्थान में अयच् आदेश विकल्प करके होते। जैसे—द्वाववयवावस्य द्वयम्; द्वितयम्; त्रयम्; त्रितयम्।

इस अयच् आदेश को जो प्रत्ययान्तर मानें, तो तयप् ग्रहण न करना पड़े। परन्तु शान्तिवद्वाव मान के जी त्रयी शब्द में उपीप् और जस् विभक्ति में सर्वनामसंष्ठा का विकल्प होता है, सो नहीं पावे ॥ ६५४ ॥

उभादुदात्तो नित्यम् ॥ ६५५ ॥ अ० ५ । २ । ४४ ॥

‘यहाँ पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति आती है।

उम शब्द से परे जो तयप् उसके स्थान में अयच् आदेश उदात्त नित्य ही होवे।  
जैसे—उभाववयवावस्थ उभयो मणिः; उभये देवमनुष्याः।

यहाँ उदात्त के कहने से आयुदात्त होता है, क्योंकि अन्तोदात्त तो चित् होने से हो ही जाता ॥ ६५५ ॥

तदस्मिन्नधिकामति दशान्ताडूडः ॥ ६५६ ॥ अ० ५ । २ । ४५ ॥

अधिक समानाधिकरण प्रथमासमर्थ दश जिनके अन्त में हो, ऐसे संख्यावाची प्रातिपदिक से ड प्रत्यय हो। जैसे—एकादश अधिका अस्मिन् शते एकादशं शतम्; एकादशं सहस्रम्; द्वादशं शतम्; द्वादशं सहस्रम् इत्यादि।

यहाँ ‘दशान्त’ ग्रहण इसलिये है कि—पञ्चाधिका अस्मिन् शते, यहाँ प्रत्यय न हो। और ‘अन्त’ ग्रहण इसलिये है कि—दशाधिका अस्मिन् शते, यहाँ भी ड प्रत्यय न हो।

‘इति’ शब्द इसलिये पढ़ा है कि—जहाँ प्रत्ययार्थ की विवक्षा हो वहाँ प्रत्यय हो, और—एकादश माघा अधिका अस्मिन् कार्यपणशते, यहाँ तथा—एकादशाधिका अस्यां विंशतीति, यहाँ भी विवक्षा के न होने से प्रत्यय नहीं होता ॥ ६५६ ॥

तस्य पूरणे डट् ॥ ६५७ ॥ अ० ५ । २ । ४८ ॥

पर्यासमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण अर्थ में डट् प्रत्यय हो। जैसे—एकादशानां पूरण एकादशः; द्वादशः; त्रयोदशः इत्यादि।

डट् प्रत्यय के डित् होने से टिलोप हो जाता है। दश व्यक्तियों में एक व्यक्ति ग्यारह को पूरण करती है ॥ ६५७ ॥

नान्तादसड्ख्यादेर्मट् ॥ ६५८ ॥ अ० ५ । २ । ४९ ॥

यहाँ पूर्व से डट् की अनुवृत्ति आती है।

संख्या जिनके आदि में न हो ऐसे नकारान्त संख्यावाची प्रातिपदिक से विहित पूरण अर्थ में जो डट् उसको मट् का आगम होवे। जैसे—पञ्चानां पूरणः पञ्चमः; सप्तमः; अष्टमः; नवमः इत्यादि।

यहाँ ‘नान्त’ ग्रहण इसलिये है कि—विंशतेः पूरणो विशः, यहाँ न हो। और आदि में ‘संख्या का निपेध’ इसलिये है कि—एकादशानां पूरण एकादशः, यहाँ भी मट् का आगम न हो ॥ ६५८ ॥

**षट् कतिकतिपयचतुरान्थुक् ॥ ६५६ ॥ अ० ५ । २ । ५१ ॥**

डट् की अनुवृत्ति यहां भी आती है ।

पट् कति कतिपय और चतुर् शब्दों को डट् प्रत्यय के परे थुक् का आगम हो ।  
जैसे—परणां पूरणः पष्टः; कतिथः; कतिपयथः; चतुर्थः ॥ ६५६ ॥

**वा०—चतुरश्छयतावायच्चरलोपश्च ॥ ६६० ॥**

पष्टीसमर्थं चतुर् प्रातिपदिक से डट् के अपवाद छ और यत् प्रत्यय हों, और चतुर् शब्द के व्यक्तार का लोप हो । जैसे—चतुर्णां पूरणः तुरीयः, तुर्थः ॥ ६६० ॥

**द्वेस्तीयः ॥ ६६१ ॥ अ० ५ । २ । ५४ ॥**

यह भी डट् का अपवाद है ।

द्वि शब्द से पूरण अर्थ में तीय प्रत्यय हो । जैसे—द्वयोः पूरणो द्वितीयः ॥ ६६१ ॥

**त्रेः सम्प्रसारणञ्च ॥ ६६२ ॥ अ० ५ । २ । ५५ ॥**

त्रि शब्द से तीय प्रत्यय और उसके परे उसको सम्प्रसारण भी हो जावे । जैसे—त्रयाणां पूरणस्तीयः + ॥ ६६२ ॥

**विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् ॥ ६६३ ॥ अ० ५ । २ । ५६ ॥**

विंशति आदि प्रातिपदिकों से परे डट् प्रत्यय को तमट् का आगम विकर्षण करके हो । जैसे—विंशते: पूरणो विंशतितमः, विंशः; एकविंशतितमः, एकविंशः; विंशत्तमः, विंशः; एकविंशत्तमः, एकविंशः इत्यादि ॥ ६६३ ॥

**नित्यं शतादिमासार्द्धमाससंवत्सराच्च ॥ ६६४ ॥ अ० ५ । २ । ५७ ॥**

पूरणार्थ में शत आदि मास अर्द्धमास और संवत्सर शब्दों से परे डट् प्रत्यय को तमट् का आगम नित्य ही होवे । जैसे—शतस्य पूरणः शततमः; सहस्रतमः; लक्षतमः; इत्यादि; मासतमो द्विवसः; अर्द्धमासतमः; संवत्सरतमः ॥ ६६४ ॥

**षष्ठ्यादेश्वासंख्यादेः ॥ ६६५ ॥ अ० ५ । २ । ५८ ॥**

पूरणार्थ में संख्या जिनके आदि में न हो ऐसे जो वष्टि आदि शब्द हैं, उनसे परे डट् प्रत्यय को तमट् का आगम हो । जैसे—पष्टेः पूरणः पष्टितमः; सततितमः; अशीतितमः; नवतितमः ।

+ यहां हज् से परे ऋकार सम्प्रसारण को दीर्घ इसलिये नहीं होता कि (हजः) इस सूत्र में भय् की अनुवृत्ति आती, और अण् पूर्व शकार से किमा जाता है ॥

यहाँ 'संख्यादि का निषेध' इसलिये है कि—एकपष्टः, एकप्रथमः, एकसप्ततः, एकसप्ततितमः, यहाँ विश्वत्यादि सूत्र से विकल्प हो जाता है ॥ ६६५ ॥

**स एषां ग्रामणीः ॥ ६६६ ॥ अ० ५ । २ । ७८ ॥**

पश्चात्यर्थ वाच्य रहे, तो ग्रामणी अर्थ में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से कन् प्रत्यय हों । ग्रामणी मुख्य का नाम है । जैसे—देवदत्तो ग्रामणीरेषां देवदत्तकाः; यज्ञदत्तकाः ।

यहाँ 'ग्रामणी' प्रहण इसलिये है कि—देवदत्तः शब्दरेषाम्, इत्यादि में कन् प्रत्यय न हो ॥ ६६६ ॥

**कालप्रयोजनाद्रोगे ॥ ६६७ ॥ अ० ५ । २ । ८१ ॥**

रोग अर्थ में सत्तमीसमर्थ कालवाची और प्रयोजन नाम कारणवाची तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से कन् प्रत्यय हो । जैसे—[ कालवाची ] द्वितीयेऽहि भवो द्वितीयको ज्वरः; तृतीयको ज्वरः; चतुर्थकः । प्रयोजन से—विषपुष्पेऽर्जनितो विषपुष्पको ज्वरः; काशपुष्पको ज्वरः; उषण कार्यमस्य उषणकः; शीतको ज्वरः इत्यादि ॥ ६६७ ॥

**श्रोत्रियँश्छन्दोऽधीते ॥ ६६८ ॥ अ० ५ । २ । ८४ ॥**

यश्छन्दोऽधीते स श्रोत्रियः, यहाँ छन्द के पढ़ने अर्थ में छन्दस् शब्द को श्रोत्रभाव और नन् प्रत्यय निपातन किया है ॥ ६६८ ॥

**श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ ॥ ६६९ ॥ अ० ५ । २ । ८५ ॥**

'अनेन भुक्तं' इस अर्थ में प्रथमासमर्थ श्राद्ध प्रातिपदिक से इनि और ठन् प्रत्यय हों । जैसे—श्राद्धं भुक्तमनेन श्राद्धीः; श्राद्धिकः ॥ ६६९ ॥

**साक्षाद्वद्रष्टुरि संज्ञायाम् ॥ ६७० ॥ अ० ५ । २ । ६१ ॥**

द्रष्टा की संज्ञा अर्थ में साक्षात् अव्यय से इनि प्रत्यय हो । जैसे—साक्षाद्वद्रष्टा साक्षी ॥ ६७० ॥

**इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रहृष्टमिन्द्रस्तुष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ॥**

**६७१ ॥ अ० ५ । २ । ६३ ॥**

यहाँ इन्द्र जीवात्मा और लिङ्ग चिह्न का नाम है ।

लिङ्गादि अर्थों में इन्द्र शब्द से घन् प्रत्यय निपातन करने से इन्द्रिय शब्द सिद्ध होता है । जैसे—इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम् । इन्द्र नाम जीवात्मा का लिङ्ग जो प्रकाशक चिह्न हो, उसको इन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रेण दृष्टम् इन्द्रियम् । इन्द्रेण जुष्टम् इन्द्रियम्, यहाँ ईश्वर का प्रहण है । इन्द्रेण जुष्टम् इन्द्रियम्, यहाँ जीव का प्रहण है । इन्द्रेण दत्तम् इन्द्रियम्, और यहाँ ईश्वर का प्रहण होता है ॥ ६७१ ॥

तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप् ॥ ६७२ ॥ अ० ५ । २ । ६४ ॥

अस्ति और प्रथमासमानाधिकरण उच्चाप् प्रातिपदिकों से पष्टी और सप्तमी के अर्थ में मतुप् प्रत्यय हो । जैसे—गोवोऽस्य सन्ति गोमान् देवदत्तः; वृक्षाः सन्त्यस्मिन् स वृक्षवान् पर्वतः; यवा अस्य सन्ति यवमान्, सक्षवान् इत्यादि ॥ ६७२ ॥

मादुपधायाश्च मतोर्वेऽयवादिभ्यः ॥६७३॥ अ० ८ । २ । ६ ॥

मकारान्त मकारोपध अवर्णन्ति और अवर्णोपध प्रातिपदिकों से परे मतुप् प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो, परन्तु यवादि प्रातिपदिकों से परे न हो ।

जैसे—मकारान्त—किवान्, शंवान् । मकारोपध—शमीवान्; दाढिमीवान्; लद्मीवान् । अवर्णन्ति—वृक्षवान्; सक्षवान्; घटवान्; खट्वावान्; मालावान् । अवर्णोपध—पयस्वान्; यशस्वान्; भास्वान् ।

यहां 'मकारान्त आदि' का ग्रहण इसलिये है कि—अग्निमान्; वायुमान्; बुद्धिमान्, यहां वकार न हो । और 'अयवादि' इसलिये कहा है कि—यवमान्; दलिमान्; ऊर्मिमान् इत्यादि, यहां भी मकार को वकार आदेश न होवे ॥ ६७३ ॥

भयः ॥ ६७४ ॥ अ० ८ । २ । १० ॥

भय् प्रत्याहारान्त प्रातिपदिक से परे मतुप् के मकार को वकारादेश हो । जैसे—अग्निचित्वान् ग्रामः; उदग्निचित्वान् घोषः; विद्युत्यान् बलाहकः; मरुत्वानन्दः; वृषद्वान् देशः इत्यादि ॥ ६७४ ॥

संज्ञायाम् ॥ ६७५ ॥ अ० ८ । २ । ११ ॥

संज्ञाविषय में मतुप् के मकार को वकारादेश हो । जैसे—अहीषती; कपीषती; ऋषीषती; मुनीषती वा नगरी इत्यादि ॥ ६७५ ॥

का०-भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने ।

सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ ६७६ ॥

बहुत्व निन्दा प्रशंसा नित्ययोग अतिशय सम्बन्ध और अस्ति-होने की विवक्षा अर्थों में मतुप्, और इस प्रकरण में जितने प्रत्यय हैं, वे सब होते हैं । यह कारिका इसी सत्र पर महाभाष्य में है ।

जैसे—भूम अर्थ में—गोमान्; यवमान् इत्यादि । निन्दा में—कुष्ठी; ककुदावर्हिनी इत्यादि । प्रशंसा में—रूपवती इत्यादि । नित्ययोग अर्थ में—क्षीरिणी वृक्षाः; कण्टकिनी वृक्षाः इत्यादि । अतिशय में—उदरिणी कन्या इत्यादि । सम्बन्ध में—दण्डी; छुश्री इत्यादि । होने की विवक्षा में—अस्तिमान् ॥ ६७६ ॥

**वा०-गुणवचनेभ्यो मतुपा लुक् ॥ ६७७ ॥**

गुणवाची प्रातिपदिकों से परे मतुप् प्रत्यय का लुक् हो। जैसे—शुक्रो गुणोस्या-  
स्तीति शुक्रः पटः; कृष्णः; इत्यादि ॥ ६७७ ॥

**रसादिभ्यश्च ॥ ६७८ ॥ अ० ५ । २ । ६५ ॥**

रस आदि प्रातिपदिकों से पछी सप्तमी के अर्थ में मतुप् प्रत्यय हो। जैसे—रसोऽस्या-  
स्तीति रसवान्; रूपवान्; गन्धवान्; शब्दवान् इत्यादि ।

यहाँ रसादि शब्दों से प्रत्यंयविधान इसलिये किया है कि इनके गुणवाची होने से  
मतुप् का लुक् पूर्व वार्तिक से पाया था, सो न हो ॥ ६७८ ॥

**प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् ॥ ६७९ ॥ अ० ५ । २ । ६६ ॥**

मत्त्वर्थ में प्राणिस्थवाची आकारान्त शब्द से लच् प्रत्यय विकल्प करके हो। जैसे—  
चूडालः; चूङ्घावान्; कर्णिकालः; कर्णिकावान्; जिह्वालः; जिह्वावान्; जंघालः; जंघावान् ।

यहाँ ‘प्राणिस्थ’ ग्रहण इसलिये है कि—शिखावान् प्रदीपः; यहाँ न हो। और ‘आका-  
रान्त’ ग्रहण इसलिये है कि—इस्तवान् पादवान् इत्यादि में भी लच् प्रत्यय न हो ॥ ६७९ ॥

**वा०-प्राणयज्ञादिति वक्तव्यम् ॥ ६८० ॥**

प्राणिस्थ आकारान्त शब्दों से जो लच् प्रत्यय कहा है, वह प्राणियों के अज्ञवाचियों  
से हो। अर्थात् चिकीर्षास्यास्तीति, जिह्वीर्षास्यास्ति चिकीर्षावान्; जिह्वीर्षावान् इत्यादि  
में लच् प्रत्यय न हो ॥ ६८० ॥

**सिध्मादिभ्यश्च ॥ ६८१ ॥ अ० ५ । २ । ६७ ॥**

मत्त्वर्थ में सिध्म आदि प्रातिपदिकों से लच् प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में मतुप्  
हो। जैसे—सिध्मोऽस्यास्तीति सिध्मलः; सिध्मवान्; गङ्गलः; गङ्गमान्; मणिलः; मणिमान्  
इत्यादि ॥ ६८१ ॥

**लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः इनेलचः ॥ ६८२ ॥ अ० ५ । २ । १०० ॥**

मत्त्वर्थ में लोमादि पामादि और पिच्छादि गणपठित प्रातिपदिकों से श न ओर  
इलच् प्रत्यय यथा संख्य करके हों, तथा मतुप् भी होवे।

जैसे—लःमान्यस्य सन्ति लोमशः; लोमवान्; पामनः; पामवान्; पिच्छलः; पिच्छवान्;  
उरसिलः; उरस्वान् इत्यादि ॥ ६८२ ॥

**प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो राः ॥ ६८३ ॥ अ० ५ । २ । १०१ ॥**

मत्वर्थ में प्रह्ला अद्वा और अचार्चा प्रातिपदिकों से ये प्रत्यय हो। जैसे—प्रह्लाऽस्यास्ति प्राह्लः, प्रह्लावान् शास्तः, अद्वावान् आचार्चः, अचार्चावान् न् ॥ ६८३ ॥

**तपःसहस्राभ्यां विनीनी ॥ ६८४ ॥ अ० ५ । २ । १०२ ॥**

मत्वर्थ में तपस् और सहस्र प्रातिपदिक से विनि और इनि प्रत्यय हों। जैसे—तपोऽसिन्नस्तीति तपसी; सहस्री ॥ ६८४ ॥

**अणु च ॥ ६८५ ॥ अ० ५ । २ । १०३ ॥**

मत्वर्थ में तपस् और सहस्र प्रातिपदिक से अणु प्रत्यय भी हो। जैसे—तापसः; साहस्रः ॥ ६८५ ॥

**दन्त उज्जत उरच् ॥ ६८६ ॥ अ० ५ । २ । १०६ ॥**

उञ्ज्रतसमानाधिकरण दन्त शब्द से मतुप्र के अर्थ में उरच् प्रत्यय हो। जैसे—दन्ता उज्जता अस्य सन्ति स दन्तुरः ।

यहां 'उज्जत' विशेषण इसलिये है कि—दन्तवान्, यद्यां निन्दा आदि अर्थों में उरच् प्रत्यय न होवे ॥ ६८६ ॥

**ऊषसुषिमुष्कमधो रः ॥ ६८७ ॥ अ० ५ । २ । १०७ ॥**

ऊष सुषि मुष्क और मधु प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में र प्रत्यय होवे। जैसे—ऊषमसि-  
श्वस्ति ऊपरा भूमिः; सुषिरं काष्ठम्; मुष्करः पष्टुः; मधुरो गुडः ॥ ६८७ ॥

**वा०-रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम् ॥ ६८८ ॥**

ख मुख और कुञ्ज शब्दों से भी मत्वर्थ में र प्रत्यय हो। जैसे—खमस्यास्तीति खरः;  
मुखमस्यास्तीति मुखरः; कुञ्जरः न् ॥ ६८८ ॥

**वा०-नगपांसुपाराङ्गुभ्यश्च ॥ ६८९ ॥**

नग पांसु और पाराङ्गु शब्दों से भी मत्वर्थ में र प्रत्यय हो। जैसे—नगमसिश्वर्तीति  
नगरम् नैः; पांसुरम्; पाराङ्गुरम् ॥ ६८९ ॥

**वा०-कच्छवा हस्तत्वं च ॥ ६९० ॥**

कच्छवा भार्द शब्दों से ये और मतुप्र प्रत्यय प्रहस्ता अर्थ में समझना चाहिये। और यहां सामान्य अर्थ में अपांत बुद्धि जिसमें हो एक्षा समझने से साधारण्ये प्राण्यों के नाम प्राह और प्रह्लावान् होंगे, इसलिये उसका विशेष अर्थ समझो ॥

१ जिसके कठ में ख नाम विशेष अवकाश हो उसको खर। खुल का काम निरन्तर उच्चारण करना जिसका हो उसको मुखर। और कुञ्जर वही ठोड़ी होने से हाथी को कहते हैं ॥

२ नग अर्थात् वृक्ष और वर्षत जिसमें हो उसको नगर कहते हैं ॥

कच्छु शब्द से व प्रत्यय और उसको हस्तांश मी हो। जैसे—कच्छुसामर्त्तिः कच्छुह सूमिः ॥ ६५० ॥

**केशाद्वौऽन्यतरस्याम् ॥ ६५१ ॥ अ० ५ । २ । १०६ ॥**

इस चुव्र में अपातविभाग इसलिये समझता चाहिये कि केश शब्द से व प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है। केश प्रातिपदिक से व प्रत्यय विकल्प करके हो।

यहाँ महाविभाग अर्थात् (समयानां०) इस चुव्र से विकल्प की अनुवृत्ति चर्ती आती है, और इसरे इस विकल्प के हाते से चार प्रयोग होते हैं। जैसे—प्रश्नस्ताः केशा अस्य सन्तातिः केशवः, केशी, केशिका, केशवान्। केश शब्द ज्योति अर्थात् प्रकाश गुण का भी नाम है ॥ ६५१ ॥

**वा०—वपकरणे मणिहिनरथाभ्यासुपसंख्यानम् ॥ ६५२ ॥**

मणि और हिनरथ प्रातिपदिक से भी व प्रत्यय हो। जैसे—मणिरसिद्धस्त्वतिः मणिवः सर्पः; हिनरथवः ॥ ६५२ ॥

**वा०—छन्दसीवनिषो च ॥ ६५३ ॥**

वैदिक प्रयोगों में सामान्य प्रातिपदिकों से मत्त्वर्य में ई और वनिष् प्रत्यय हो।

जैसे—रथारम्भनुदग्लानी गविष्टी, यहाँ नर्थीः शब्द में ई प्रत्यय हुआ है; हुमझर्णी-लिं वधू, इत्यादि। अटवानम्; नववानमीमहे, यहाँ ऋत और मत्र शब्द से वनिष् होता है ॥ ६५३ ॥

**वा०—मेधारथाभ्यासिरन्त्रिरचो वक्तव्यो ॥ ६५४ ॥**

मेधा और रथ शब्दों से मत्त्वर्य में इरन् और इत्य् प्रत्यय हो। जैसे—मेधिरः; रथिरः। ये भी मतुप् के वायक हैं ॥ ६५४ ॥

**वा०—अपर आह—वपकरणे अन्येभ्योपि हृष्यत हृति वक्तव्यम् ॥ ६५५ ॥**

इस विषय में वहुतेरे ऋषियों का ऐसा मत है कि अविहित सामान्य प्रातिपदिकों से व प्रत्यय देखते में आता है। जैसे—विनावमः कुर्मावमः; इष्टकावम् इत्यादि।

प्रयोजन यह है कि—पूर्व वार्त्तिक में जो मणि और हिनरथ शब्दों से व प्रत्यय कहा है, उसका भी इस पक्ष में कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६५५ ॥

**रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच् ॥ ६५६ ॥ अ० ५ । २ । ११२ ॥**

रजस् कृषि आसुति और परिषद् प्रातिपदिकों से मत्त्वर्य में वलच् प्रत्यय हो। जैसे—रजोऽद्या: प्रवर्त्तत इति रजस्तता अः; हर्षवित्तो आर्मःउः; आसुतिवतः शर्विडकः; परिषद्वतो राजा इत्यादि ॥ ६५६ ॥

\* मणिव किसी विठ्ठेष संघ भी और हिनरथ वन्न विठ्ठेष की संज्ञा है।

**वा०-बलच्छकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यते ॥ ६६७ ॥**

विहितों से पृथक् प्रातिपदिकों से भी बलच् प्रत्यय देखने में आता है। जैसे—  
आताऽस्यास्तीति भावुवलः; पुन्रवलः; उत्सङ्घवलः इत्यादि ॥ ६६७ ॥

**अत इनिठनौ ॥ ६६८ ॥ अ० ५ । २ । ११५ ॥**

मत्वर्थ में अकारान्त प्रातिपदिक से इनि और ठन् प्रत्यय हों। जैसे—द्राडी,  
दण्डकः; सुञ्ची, छुष्टिकः।

यहाँ विकल्प की अनुवृत्ति आने से पक्ष में मरुप् प्रत्यय भी होता है। जैसे—  
दण्डवान्, दण्डकः; छुष्टवान्, छुष्टिकः इत्यादि।

यहाँ 'तपरकरण' इसलिये है कि—स्टट्वावान्, यहाँ इनि ठन् न हो ॥ ६६८ ॥

**का०-एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ ॥ ६६९ ॥**

एकाक्षर शब्द कृदन्त जातिवाची और सप्तमी के अर्थ में इनि और ठन् प्रत्यय न  
हों। सूत्र से जो प्राप्ति है, उसका विशेष विषय में निषेध किया है।

जैसे—एकाक्षर से—खवान्; खवान् इत्यादि। कृदन्त से—कारकवान्; हारकवान्।  
जातिवाचियों से—वृक्षवान्; सक्षवान्; व्याव्रवान्; सिंहवान् इत्यादि। सप्तम्यर्थ में—  
दण्डा अस्यां शालायां सन्तीति द्राडवर्ती शाला इत्यादि ॥ ६६९ ॥

**ब्रीह्यादिभ्यश्च ॥ ७०० ॥ अ० ५ । २ । ११६ ॥**

ब्रीहि आदि गणपटित प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि और ठन् प्रत्यय हों। जैसे—  
ब्रीही, ब्रीहिकः; ब्रीहमान्; मायी, मायिकः; मायावान् इत्यादि ॥ ७०० ॥

**का०-शिखादिभ्य इनिर्वच्य इकन्यवखदादिषु ॥ ७०१ ॥**

पूर्व सूत्र में ब्रीह्यादि शब्दों में शिखादिगण हैं, उनसे इनि, और यवखदादि प्रातिपदिकों  
से इकन् (ठन्) कहना चाहिये।

प्रयोगन यह है कि सब ब्रीहादिकों से दोनों प्रत्यय प्राप्त हैं सो न हो, किन्तु शिखा-  
दिकों से इनि ही हो, ठन् न हो, और यवखदादिकों से ठन् ही हो, रून नहीं, यह नियम  
समझना चाहिये। जैसे—शिखी, मेघली इत्यादि। यवखदिकः इत्यादि ॥ ७०१ ॥

**असमायमेधास्तजो विनिः ॥ ७०२ ॥ अ० ५ । २ । १२१ ॥**

असन्त माया मेधः और स्वज् प्रातिपदिकों से मरुप् के अर्थ में विनि प्रत्यय हो,  
और मरुप् तो सर्वत्र होता ही है। और माया शब्द ब्रीहार्दगण में यह है, उससे इनि  
ठन् भी होते हैं। असन्तों से—पयस्वी; यशस्वी इत्यादि; मायार्थी, मायी, मायिकः,  
मायावान्; मेधार्थी, मेधावान्; स्वर्गी, ऋग्वान् ॥ ७०२ ॥

**बहुलं छन्दसि ॥ ७०३ ॥** अ० ५ । २ । १२२ ॥

वैदिकप्रयोगविषय में सामान्यप्राप्तिविदिकों से मत्तवैयाविषयक विनि प्रत्ययबहुल करके हो । जैसे—अस्ते हेऽस्तिन्, यद्यां हो गया । और सूच्यों वर्चस्तान्, यद्यां नदीं भी हुआ इत्यादि । बहुल से अनेक प्रयोजन समझना चाहिये ॥ ७०३ ॥

**वा०-छन्दोविन्प्रकरणोऽष्टामेखलाद्योभयरुजाहृदयानां दीर्घश्च ॥ ७०४ ॥**

अष्टामेखला द्वय उभय रुजा और हृदय शब्दों से विनि प्रत्यय और इनको दीर्घदिश मी होते । जैसे—अश्वार्दीः सेकलार्दीः द्वयार्दीः उभयार्दीः [ रुजार्दीः ] हृदयार्दी ॥ ७०४ ॥

**वा०-मर्मणश्च ॥ ७०५ ॥**

मर्मन् शब्द से भी विनि प्रत्यय और उसको दीर्घदिश हो । जैसे—मर्दीर्दी ॥ ७०५ ॥

**वा०-मर्वित्रामयस्योपसङ्गाल्यानम् ॥ ७०६ ॥**

पूर्व के दोनों वार्तिकों से वैदि. में प्रत्ययविवाह समझना चाहिये. इसीलिये इस वार्तिक में सर्वत्र शब्द पढ़ा है ।

सर्वत्र—ज्ञानिक वैदिक सब प्रणोगों में—आमय शब्द से विनि प्रत्यय और दीर्घदिश मी होते । जैसे—आमदार्दी ॥ ७०६ ॥

**वा०-शृङ्गवृन्दान्यामारकन् ॥ ७०७ ॥**

पूर्व वार्तिक से अगले सब वार्तिकों में सर्वत्र शब्द की अनुवृत्ति समझनी चाहिये ।

शृङ्ग और वृन्द ग्रावियदिक से मत्तवैय में आरकन् प्रत्यय हो । जैसे—शृङ्गारेयस्य सम्प्रति शृङ्गारकः, वृन्दारकः ॥ ७०७ ॥

**वा०-कलवर्हाभ्यामिनच् ॥ ७०८ ॥**

कल और वर्ह शब्दों के इनक हो । जैसे—कलान्यस्तिस्तिं कलिनः, वर्हिरः ॥ ७०८ ॥

**वा०-हृदयाचालुरन्यतरस्याम् ॥ ७०९ ॥**

हृदय शब्द से जातु प्रत्यय विकल्प करते हो, और पक्ष में इनि उन वया मतुप भी हो जाते । जैसे—हृदयालुः, हृदयीः, हृदयिकः, हृदयवान् ॥ ७०९ ॥

**वा०-शीतोष्णात्प्रेभ्यस्तन्न सहत इति चालुर्वक्तव्यः ॥ ७१० ॥**

शीत उमा और तृष्ण प्राप्तिविदिकों से प्रकल्पवर्य के न सह सकने अर्थ में चालु प्रत्यय हो । जैसे—शीतं न सहते स शीतानुः उष्णानुः तृष्णानुः ॥ ७१० ॥

**वा०-हिमाच्चेलुः ॥ ७११ ॥**

हिम शब्द से उसके न सहते अर्थ में चेलु प्रत्यय हो । जैसे—हिमं न सहते स हिमेलु ॥ ७११ ॥

**वा०-बलाच्चोलः ॥ ७१२ ॥**

बल शब्द से उसके न सहने अर्थ में ऊल प्रत्यय हो। जैसे—बलं न सहत इति बलूलः ॥७१२॥

**वा०-वातात्समूहे च ॥ ७१३ ॥**

वात शब्द से उसके न सहने और समूह अर्थ में ऊल प्रत्यय हो। जैसे—वातानं समूहो वातं न सहते वा स वातूलः ॥ ७१३ ॥

**वा०-पर्वमरुद्धयां तप् ॥ ७१४ ॥**

पर्व और मरुत् प्रातिपदिक से मत्वर्थ में तप् प्रत्यय हो। जैसे—पर्वमस्मिन्नस्ति स पर्वतः; मरुतः ।

और यह मरुत् शब्द 'मरुतों ने दिया' ऐसे भी अर्थ में कुदन्त प्रत्यय होने से धन जाता है ॥ ७१४ ॥

**वाचो गिमिः ॥ ७१५ ॥ अ० ५ । २ । १२४ ॥**

वाक् प्रातिपदिक से मत्वर्थ में गिमि प्रत्यय हो। जैसे—प्रशुस्ता वागस्य स वाग्मी, वाग्मिनी, वाग्मिनः ॥ ७१५ ॥

**आलजाटचौ वहुभाषिणि ॥ ७१६ ॥ अ० ५ । २ । १२५ ॥**

यहां पूर्व सूत्र से वाक् शब्द की अनुवृत्ति आती है।

बहुत बोलने वाले के अर्थ में वाक् प्रातिपदिक से आलच् और आटच् प्रत्यय हों। जैसे—बहु भाषत इति वाचालः; वाचाटः। यह गिमी प्रत्यय का अपवाद है।

और यह भी समझना चाहिये कि जो विद्या के अनुकूल विचारपूर्वक बहुत बोलता है, उसको वाचाल और वाचाट नहीं कहते हैं, किन्तु जो अंड बंड बोले। यह वात नहामाय में है ॥ ७१६ ॥

**स्वामिन्नैश्वर्ये ॥ ७१७ ॥ अ० ५ । २ । १२६ ॥**

यहां पेश्वर्यवाची स शब्द से मत्वर्थ में आमिन् प्रत्यय करके स्वामिन् शब्द निपातन किया है। जैसे—स्वमेश्वर्यमस्यास्तीति स्वामी, स्वामिनी, स्वामिनः ।

ऐश्वर्य अर्थ इसलिये समझना चाहिये कि—स्ववान्, यहां आमिन् न हो ॥ ७१७ ॥

**वातातीसाराभ्यां कुक् च ॥ ७१८ ॥ अ० ५ । २ । १२८ ॥**

वात और अतीसार प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय और कुक् का आगम भी हो। जैसे—वातकी; अतीसारकी।

यहां रोग अर्थ में प्रत्यय होना इष्ट है, इससे वातवती गुहा, यहां इनि और कुक् नहीं होते ॥ ७१८ ॥

**वा०-पिशाचाच्च ॥ ७१६ ॥**

पिशाच शब्द से भी इनि और उसको कुक् का आगम होते । जैसे—पिशाचकी वैश्रवणः ॥ ७१६ ॥

**वयसि पूरणात् ॥ ७२० ॥ अ० ५ । २ । १३० ॥**

वयस् नाम अवस्था अर्थ में पूरण प्रत्ययान्तं प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय हो । जैसे—पञ्चमोऽस्यास्ति मासः संवत्सरो वा पञ्चमी उष्णः; नवमी; दशमी इत्यादि ।

यहाँ 'अवस्था' प्रहण इसलिये किया है कि पञ्चमवान् ग्रामरागः, यहाँ इनि न हुआ ॥ ७२० ॥

**सुखादिभ्यश्च ॥ ७२१ ॥ अ० ५ । २ । १३१ ॥**

सुख आदि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय हो । जैसे—सुखमस्यास्ति सुखी, दुखी इत्यादि ॥ ७२१ ॥

**धर्मशीलवर्णन्ताच्च ॥ ७२२ ॥ अ० ५ । २ । १३२ ॥**

धर्म शील और वर्ण ये शब्द जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिकों से इनि प्रत्यय हो । जैसे—ग्राहणस्य धर्मः; ग्राहणधर्मः; सोऽस्यास्तीति ग्राहणधर्मी; ग्राहणशीली; ग्राहणवर्णी इत्यादि ॥ ७२२ ॥

**हस्ताजातौ ॥ ७२३ ॥ अ० ५ । २ । १३३ ॥**

हस्त शब्द से जाति अर्थ में इनि प्रत्यय हो । जैसे—हस्ती, हस्तिनौ, हस्तिनः ।

यहाँ 'जाति' इसलिये है कि—हस्तवान् पुरुषः, यहाँ इनि न हो ॥ ७२३ ॥

**पुष्करादिभ्यो देशे ॥ ७२४ ॥ अ० ५ । २ । १३५ ॥**

देश अर्थ में पुष्कर आदि शब्दों से इनि प्रत्यय हो । जैसे—पुष्करी देशः; पुष्करिणी पद्मिनी ।

यहाँ 'देश' प्रहण इसलिये है कि—पुष्करवान् तडागः+, यहाँ इनि प्रत्यय न हो ॥ ७२४ ॥

**वा०-इनिप्रकरणे बलाद्वाहूरपूर्वपदादुपसंख्यानम् ॥ ७२५ ॥**

बाहु और ऊरु जिसके पूर्व हों, ऐसे वल प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय हो । जैसे—बाहुवलमस्यास्ति स बाहुवली; ऊरुवली ॥ ७२५ ॥

**वा०-सर्वादेश ॥ ७२६ ॥**

+ यहाँ ( बातातीसारभ्यां० ) इस सूत्र से लेकर जो इनि प्रत्यय विधान किया है, सो ( अत इनिठनौ ) इस लिखित सूत्र से इनि होजाता, फिर विधान नियमार्थ है । अर्थात् उन २ प्रातिपदिकों और उन २ विशेष अर्थों में इनि ही हो ठंग न हो ॥

सर्वं शब्दं जिसके आदि में हो, ऐसे प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय हो ।

जैसे—सर्वधनमस्यास्ति स सर्वधर्मी; सर्ववैशी; सर्वकेशी न इत्यादि ॥ ७२६ ॥

### वा०—अर्थाच्चासंनिहिते ॥ ७२७ ॥

जिसके निकट यथा न हों, और उनकी चाहना हो, ऐसे अर्थ में अर्थ शब्द से इनि प्रत्यय हो । जैसे—अर्थमनीपस्ति अर्थो ।

यहां ‘असन्निहित’ प्रहलू इसलिये है कि—अर्थवान्, यहां इनि प्रत्यय न हो ॥ ७२७ ॥

### वा०—तदन्ताच्च ॥ ७२८ ॥

अर्थे शब्द जिसके अन्त में हो, उनसे भी इनि प्रत्यय हो । जैसे—धान्यार्थः हिरण्यार्थः इत्यादि ।

इन सब वाचिकों में भी यही त्रियम समस्ता चाहिये कि इन विशेष अर्थों में और शब्दों से इनि ही हो, उन न हो ॥ ७२८ ॥

### बलादिभ्यो मतुवन्यतरस्याम् ॥ ७२९ ॥ अ० ५ । २ । १३६ ॥

बलादि प्रातिपदिकों से मतुप्र प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में इनि समझो । जैसे—बलमस्यास्तीति बलवान्, बली; उत्साहवान्, उत्साही; उद्ग्राववान्, उद्ग्रावी इत्यादि ॥ ७२९ ॥

### संज्ञार्थं मन्माभ्याम् ॥ ७३० ॥ अ० ५ । २ । १३७ ॥

मत्वर्थे में मन्त्र और मान्त्र प्रातिपदिकों से संज्ञाविषय में इनि प्रत्यय हो । जैसे—प्रथिमिनी; द्विमिनी; होमिनी; सोमिनी ।

यहां ‘संज्ञा’ प्रहलू इसलिये है कि—सोमवान्; दोमवान् इत्यादि में इनि न हो ॥ ७३० ॥

### कंत्रांस्यां च भयुस्तितुत्यसः ॥ ७३१ ॥ अ० ५ । २ । १३८ ॥

जल और सुख के आची कम् और शम् मकारान्त प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में व, भ, युस्, ति, तु, त और यस् प्रत्यय हों । जैसे—कंत्रः; शुन्दः; कंस्मः; शुन्मः; कंयुः; शुन्युः कन्तिः; शुन्तिः; कन्तुः; शुन्तुः; कन्तः; शून्तः; कंयः; शूयः ।

यहां युस् और यस् प्रत्यय में सकार पदसंज्ञा होने के लिये है । इससे मकार को अनुस्तार और परस्वर्ण होते हैं, और जो भसंज्ञा हो तो मकार ही बना रहे ॥ ७३१ ॥

### अहंशुभयोर्युस् ॥ ७३२ ॥ अ० ५ । २ । १४० ॥

अहं और शुभ्य मकारवसंक्षक शब्दों से मत्वर्थ में युस् प्रत्यय हो । जैसे—अहंयु, यह अद्वकारी का नाम है; शुभंयु, यह कल्पालकारी की संज्ञा है ॥ ७३२ ॥

अथ त्रीयः पादः—

**प्राग्निदेशो विभक्तिः ॥ ७३३ ॥ अ० ५ । ३ । १ ॥**

यह अधिकार सूत्र है ।

जो दिक् शब्द के उचागत से पूर्व द प्रत्यय विधान करेंगे, उन २ की विभक्तिसंहा जाननी चाहिये ॥ ७३३ ॥

**किंसर्वनामवहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः ॥ ७३४ ॥ अ० ५ । ३ । २ ॥**

यह भी अधिकार सूत्र है ।

यहां से आगे किम् शब्द, द्वि आदि से मिन्न सर्वनाम और वह प्रातिपदिकों से प्रत्ययों का विधान जानना चाहिये ॥ ७३४ ॥

**इदम् इश् ॥ ७३५ ॥ अ० ५ । ३ । ३ ॥**

विभक्तिसंहक प्रत्ययों के परे इदम् शब्द को इश् आदेश हो । जैसे—इतः; इह ।

यहां इश् आदेश में शकार सूत्र के स्थान में आदेश होने के लिये है ॥ ७३५ ॥

**एतेतौ रथोः ॥ ७३६ ॥ अ० ५ । ३ । ४ ॥**

जो ग्रन्दिशीघ रेकादि और यकारादि विभक्ति परे हों, तो इदम् शब्द को पत और इत् आदेश होवें । जैसे—एतर्द्विः इत्यम् ॥ ७३६ ॥

**सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ॥ ७३७ ॥ अ० ५ । ३ । ६ ॥**

जो द्वकारादि प्रत्यय परे हों, तो सर्व शब्द को स आदेश विकल्प करके हो । जैसे— सर्वदा; सदा ॥ ७३७ ॥

**पञ्चम्यास्तसिल् ॥ ७३८ ॥ अ० ५ । ३ । ७ ॥**

किम् सर्वनाम और वहु प्रातिपदिकों से पञ्चमी विभक्ति के स्थान में तसिल् प्रत्यय हो । जैसे—कस्तादिति कुठः; यस्तादिति यतः; वतः; वहुतः इत्यादि ॥ ७३८ ॥

**पर्यमिभ्याच्च ॥ ७३९ ॥ अ० ५ । ३ । ८ ॥**

परि और अभि शब्दों से तसिल् प्रत्यय हो । जैसे—परितः—चारों और से; अभितः—सन्मुख से ॥ ७३९ ॥

**सप्तम्याच्चल् ॥ ७४० ॥ अ० ५ । ३ । १० ॥**

किम् सर्वनाम और वहु शब्दों से परे सप्तमी विभक्ति के स्थान में चल् प्रत्यय हो । जैसे—कस्तिन्निति कुचः; सर्वसिन्निति सर्वच्छ्रः यत्र; तत्र इत्यादि ॥ ७४० ॥

इदमो हः ॥ ७४१ ॥ अ० ५ । ३ । ११ ॥

इदम् शब्द से सप्तमी के स्थान में ह प्रत्यय हो । जैसे—अस्मिन्निति इह ॥ ७४१ ॥

किमोऽत् ॥ ७४२ ॥ अ० ५ । ३ । १२ ॥

किम् शब्द से सप्तमी के स्थान में अत् प्रत्यय हो । जैसे—कस्मिन्निति क ॥ ७४२ ॥

इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ ७४३ ॥ अ० ५ । ३ । १४ ॥

इतर अर्थात् पञ्चमी सप्तमी से अन्य विभक्तियों के स्थान में भी उक्त प्रत्यय देखने में आते हैं ॥ ७४३ ॥

इसमें विशेष यह है कि—

वा०—भवदादिभिर्योगे ॥ ७४४ ॥

भवान्, दीर्घायुः, आयुष्मान्, देवानांप्रियः इन चार शब्दों के योग में पूर्व सूत्र से प्रत्ययविधान समझना चाहिये । अर्थात् सूत्र से जो सामान्य विधान था, उसको वार्त्तिक से विशेष जनाया है ।

जैसे—स भवान्; तत्र भवान्; ततो भवान्; तस्मभवन्तम्; तत्र भवन्तम्; ततो भवन्तम्; तेन भवता; तत्र भवता; ततो भवता; तस्मै भवते; तत्र भवते; ततो भवते; तस्माद्भवतः; तत्र भवतः; ततो भवतः; तस्य भवतः; तत्र भवतः; ततो भवतः; तस्मिन् भवति; तत्र भवति; ततो भवति । स दीर्घायुः; तत्र दीर्घायुः; ततो दीर्घायुः । स आयुष्मान्; तत्रायुष्मान्; तत आयुष्मान् । स देवानांप्रियः; तत्र देवानांप्रियः; ततो देवानांप्रियः इत्यादि ॥ ७४४ ॥

सर्वैकान्यकिंयत्तदः काले दा ॥ ७४५ ॥ अ० ५ । ३ । १५ ॥

सर्व एक अन्य किम् यद् और तद् प्रातिपदिकों से काल अर्थ में सप्तमी के स्थान में दा प्रत्यय हो ।

यह सूत्र ब्रह्म प्रत्यय का बाधक है । जैसे—सर्वसिन् काले इति सर्वदा; एकसिन् काले एकदा; अन्यदा; कदा; यदा; तदा इत्यादि ।

यहां 'काल' इसलिये कहा है कि—सर्वत्र देशे, यहां दा प्रत्यय न हो ॥ ७४५ ॥

इदमो हिंल् ॥ ७४६ ॥ अ० ५ । ३ । १६ ॥

काल अर्थ में इदम् शब्द से सप्तमी के स्थान में हिंल् प्रत्यय हो । जैसे—अस्मिन् काले एतहि ।

यहां काल की अनुवृत्ति आने से 'इह देशे' इस प्रयोग में हिंल् प्रत्यय नहीं होता ॥ ७४६ ॥

अधुना ॥ ७४७ ॥ अ० ५ । ३ । १७ ॥

कालाधिकरण अर्थ में इदम् शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में छुना प्रत्यय और इदम् शब्द को अशुभाव निपातन करने से अछुना शब्द बनता है। जैसे—अस्मिन् काले इति अछुना ॥ ७४७ ॥

**दार्नीं च ॥ ७४८ ॥ अ० ५ । ३ । १८ ॥**

काल अर्थ में वर्तमान इदम् शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में दार्नीं प्रत्यय हो। जैसे—अस्मिन् काले दार्नीम् ॥ ७४८ ॥

**तदो दा च ॥ ७४९ ॥ अ० ५ । ३ । १९ ॥**

काल अर्थ में वर्तमान तद् शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में दा, और चकार से दार्नीं प्रत्यय हों। जैसे—तस्मिन् काले तदा; तदार्नीम् ॥ ७४९ ॥

**तयोर्दाहिलौ च छन्दसि ॥ ७५० ॥ अ० ५ । ३ । २० ॥**

इदम् और तद् दोनों शब्दों से वैदिकप्रयोगविषय में सप्तमी विभक्ति के स्थान में यथा-संख्य करके दा और हिल् प्रत्यय हों। जैसे—अस्मिन् काले इदा; तस्मिन् काले तर्हि ॥ ७५० ॥

**सद्यः परुत्परायैषमः परेद्यद्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरतरेद्युरपरेद्युर-धरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः ॥ ७५१ ॥ अ० ५ । ३ । २२ ॥**

यहां सप्तमी विभक्ति और काल की अनुबृति आती है।

इस सूत्र में काल अर्थ में सद्यः आदि शब्द सप्तमी विभक्ति के स्थान में द्यस् आदि प्रत्ययान्त निपातन किये हैं।

जैसे—समाने अहनि सद्यः—समान शब्द को स आदेश और द्यस् प्रत्यय दिवस् अर्थ में हुआ है। पूर्वस्मिन् सम्बन्धसरे परवत्; पूर्वतरे सम्बन्धसरे परारि—पूर्व और पूर्वतर शब्दों को पर आदेश और उत्तरतथा आरीच् प्रत्यय सम्बन्धसर अर्थ में यथासंख्य करके होते हैं। अस्मिन् सम्बन्धसरे एषमः—यहां इदम् शब्द से सम्बन्धसर अर्थ में समसाण् प्रत्यय हुआ है, उसके अशुभाव का लोप होकर इदम् के इकार को वृद्धि होजाती है। परस्मिन्नहनि परेद्यवि—यहां पर शब्द से दिन अर्थ में एद्यवि प्रत्यय होगया है। अस्मिन्नहनि अद्य—यहां इदम् शब्द को अशुभाव और द्य प्रत्यय दिन अर्थ में किया है।

और पूर्व अन्यतर इतर अपर अधर उभय और उत्तर शब्दों से दिन अर्थे अभिव्येय रहे, तो एद्युन् प्रत्यय निपातन किया है। जैसे—पूर्वस्मिन्नहनि वृद्धेद्युः; अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्युः; अन्यतरस्मिन्नहनि अन्यतरेद्युः; इतरस्मिन्नहनि इतरेद्युः; अपरस्मिन्नहनि अपरेद्युः; अधरस्मिन्नहनि अधरेद्युः; उत्तरस्मिन्नहनि उत्तरेद्युः; उभयोरहोः उभयेद्युः ॥ ७५१ ॥

**वा०-द्युश्चोभयात् ॥ ७५२ ॥**

उभय शब्द से द्यु प्रत्यय भी हों। जैसे—तस्मान्मनुष्येभ्य उभयेद्युः ॥ ७५२ ॥

प्रकारवचने थालू ॥ ७५३ ॥ अ० ५ । ३ । २३ ॥

यहाँ भी किम् सर्वेनाम आदि शब्दों की अनुवृत्ति चली आती है ।

प्रकारसमानाधिकरण किम् सर्वेनाम और यहु प्रातिपदिकों से स्वार्थ में थालू प्रत्यय हो । जैसे—तेन प्रकारेण तथा; यथा; सर्वथा; इतरथा; अन्यथा; यहुधा इत्यादि ॥ ७५३ ॥

इदमस्यमुः ॥ ७५४ ॥ अ० ५ । ३ । २४ ॥

प्रकारसमानाधिकरण इदम् शब्द से स्वार्थ में थालू का अपवाद थमु प्रत्यय हो ।

उकार की इत्संज्ञा होकर लोप होजाता है । [जैसे—] अनेन प्रकारेण इत्यम् ॥ ७५४ ॥

किमश्च ॥ ७५५ ॥ अ० ५ । ३ । २५ ॥

प्रकारसमानाधिकरण किम् शब्द से भी स्वार्थ में थमु प्रत्यय होते । जैसे—केन प्रकारेण कथम् ॥ ७५५ ॥

था हेतौ च छन्दसि ॥ ७५६ ॥ अ० ५ । ३ । २६ ॥

यहाँ पूर्व सूत्र से किम् और प्रकारवचन शब्द की अनुवृत्ति आती है ।

वैदिक प्रयोगविवरण में हेतुसमानाधिकरण किम् प्रातिपदिक से था प्रत्यय हो ।

यह थमु प्रत्यय का वाधक है । [जैसे—] केन हेतुना इति कथा; केन प्रकारेण इति कथा ॥ ७५६ ॥

दिक्कञ्चदेभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातः ॥

॥ ७५७ ॥ अ० ५ । ३ । २७ ॥

सप्तमी, पञ्चमी और प्रथमा समर्थ दिशा देश और काल अर्थों में दिशाधाची पूर्वादि शब्दों से स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होते । जैसे—[सप्तमीसमर्थ से—] पूर्वस्यां दिशि पूर्वस्मिन् देशो काले वा पुरस्तात्; अधस्तात् । पञ्चमीसमर्थ से—पुरस्तादागतः; प्रथमा-समर्थ से—पुरस्ताद्रमणीयम् इत्यादि ।

यहाँ समर्थविभक्ति और दिशा आदि अर्थों का यथासंस्य अभीष्ट नहीं है । यहाँ ‘दिशाधाचियों का’ ग्रहण इसलिये है कि—ऐन्द्रिय दिशि वसति, यहाँ ऐन्द्री शब्द दिशा का गौण नाम है । ‘सप्तमी आदि समर्थविभक्तियों का’ ग्रहण इसलिये है कि—पूर्वं ग्रामं गतः, यहाँ भी अस्ताति प्रत्यय नहीं होता । और ‘दिग् देश काल अर्थों’ का ग्रहण इसलिये है कि—पूर्वस्मिन् गुरुरी वसति, यहाँ भी प्रत्यय न होते ।

अस्ताति प्रत्यय में इकार तकार की रक्षा के लिये है ॥ ७५७ ॥

दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् ॥ ७५८ ॥ अ० ५ । ३ । २८ ॥

यह सूत्र, अस्ताति प्रत्यय पूर्वसूत्र से प्राप्त है, उसका अपवाद है ।

दिशा देश और काल अर्थों में वर्तमान सतमी पञ्चमी और प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से स्वार्य में अत्युच्च प्रत्यय होते। जैसे—दक्षिणतो वसति; दक्षिणत आगतः; दक्षिणतो रमणीयम्; उत्तरतो वसतिः उत्तरत आगतः; उत्तरतो रमणीयम्।

अत्युच्च प्रत्यय के उत्तमात्र की इत्संब्दा छोकर लोप हो जाता है। और इस स्त्र में दक्षिण शब्द का समन्वय काल के साथ असम्भव होने से नहीं होता, किन्तु दिशा और देश ही ही अर्थों के साथ होता है ॥ ७५८ ॥

**विभाषा परावराभ्याम् ॥ ७५६ ॥ अ० ५ । ३ । २६ ॥**

यहां अप्राप्तविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि अत्युच्च प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं। अत्युच्च का विकल्प होने से पक्ष में अस्ताति भी होजाता है।

अस्ताति प्रत्यय के अर्थों में पर और अवर शब्दों से अत्युच्च प्रत्यय विकल्प करके हो, और पक्ष में अस्ताति होजावे।

जैसे—परतो वसति; परत आगतः; परतो रमणीयम्; परस्ताद्वसति; परस्तादागतः; परस्ताद्रमणीयम्; अवरतो वसति; अवरत आगतः; अवरतो रमणीयम्; अवस्ताद्वसति; अवस्तादागतः; अवस्ताद्रमणीयम् ॥ ७५६ ॥

**अञ्जेलुक् ॥ ७६० ॥ अ० ५ । ३ । ३० ॥**

किवन्त अञ्जुधातु जिनके अन्त में हो, ऐसे दिशावाची शब्दों से परे अस्ताति प्रत्यय का लुक् हो जावे। जैसे—प्राच्यां दिशि वसति प्राग्वसति; प्रागागतः; प्राप्रमणीयम्।

यहां वद्वितसंब्दक अस्ताति प्रत्यय का लुक् होने के पश्चात् (लुक्तद्वित०) इस स्त्र से छाप्रत्यय का भी लुक् होजाता है ॥ ७६० ॥

**उपर्युपरिष्टात् ॥ ७६१ ॥ अ० ५ । ३ । ३१ ॥**

यहां ऊर्ध्व शब्द को उपमाव और रित्व तथा रिष्टातित्व प्रत्यय अस्ताति के अर्थ में निपातन किये हैं। जैसे—ऊर्ध्वायां दिशि वसति उपरि वसति; उपर्यगतः; उपरि रमणीयम्; उपरिष्टाद्वसति; उपरिष्टादागतः; उपरिष्टाद्रमणीयम् ॥ ७६१ ॥

**पश्चात् ॥ ७६२ ॥ अ० ५ । ३ । ३२ ॥**

यहां अपर शब्द को पश्च आदेश और आति प्रत्यय निपातन किया है। जैसे—अपरस्यां दिशि वसति पश्चाद्वसति; पश्चादागतः; पश्चाद्रमणीयम् ॥ ७६२ ॥

**वा०—दिव्यपूर्वपदस्य च ॥ ७६३ ॥**

दिशा जिसके पूर्वपद में हो, उस अपर शब्द को भी पश्च आदेश और आति प्रत्यय हो। जैसे—दक्षिणपश्चात्; उत्तरपश्चात् ॥ ७६३ ॥

**वा०—अद्वौत्तरपदस्य च समासे ॥ ७६४ ॥**

दिशावाची शब्द जिसके पूर्वपद में हों, और समास में अर्थ शब्द जिसके उत्तरपद में हों, ऐसे अपर शब्द को पश्च आदेश होवे। जैसे—दक्षिणपश्चाद्वः; उत्तरपश्चाद्वः ॥७६४॥

**वा०—अर्द्धे च ॥ ७६५ ॥**

पूर्व पद के विना भी अर्द्ध जिसके उत्तरपद में हो, उस अपर शब्द को भी पश्च आदेश हो। जैसे—पश्चाद्वः ॥ ७६५ ॥

**पश्च पश्चा च छन्दसि ॥ ७६६ ॥ अ० ५ । ३ । ३३ ॥**

यहाँ अपर शब्द को पश्च आदेश अ तथा आ प्रत्यय वैदिकप्रयोगविषय में होते हैं, और चकार से आति प्रत्यय भी हो। जैसे—पश्च सिंहः; पश्चा सिंहः; पश्चात् सिंहः ॥७६६॥

**उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥ ७६७ ॥ अ० ५ । ३ । ३४ ॥**

उत्तर अधर और दक्षिण शब्दों से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में आति प्रत्यय होवे। जैसे—उत्तरस्यां दिशि वसति उत्तराद्वसतिः; उत्तरादागतः; उत्तराद्रमणीयम्; अधराद्वसतिः; अधरादागतः; अधराद्रमणीयम्; दक्षिणाद्वसतिः; दक्षिणादागतः; दक्षिणाद्रमणीयम् ॥७६७॥

**एनवन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः ॥ ७६८ ॥ अ० ५ । ३ । ३५ ॥**

यहाँ एनप् प्रत्यय में अप्राप्तविभावा है, क्योंकि एनप् प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है। और पूर्व सूत्र से उत्तर आदि तीनों शब्दों की अनुवृत्ति आती है।

सप्तमी और प्रथमासमर्थ उत्तर अधर और दक्षिण शब्दों से निकट अर्थ में आति प्रत्यय का वाधक एनप् प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में आति भी हो जावे।

जैसे—उत्तरस्यां दिशि वसति उत्तरेण वसतिः; उत्तराद्वसतिः; उत्तरतो वसतिः; उत्तरेण रमणीयम्; उत्तराद्रमणीयम्; उत्तरतो रमणीयम्; अधरेण वसतिः; अधराद्वसतिः; अधस्ताद्वसतिः; अधरेण रमणीयम्; अधराद्रमणीयम्; अधस्ताद्रमणीयम्; दक्षिणेन वसतिः; दक्षिणाद्वसतिः; दक्षिणतो रमणीयम्।

यहाँ ‘अदूर’ ग्रहण इसलिये है कि—उत्तराद्वसति, यहाँ एनप् न होवे। और ‘पञ्चमीसमर्थ’ का नियेध इसलिये किया है कि—उत्तरादागतः, यहाँ भी एनप् प्रत्यय न होवे।

और यहाँ से आगे असि प्रत्यय के पूर्व २ सब सूत्रों में पञ्चमीसमर्थ का नियेध समझना चाहिये ॥७६८॥

**दक्षिणादात्र ॥ ७६९ ॥ अ० ५ । ३ । ३६ ॥**

सप्तमी और प्रथमासमर्थ दक्षिण शब्द से अस्ताति के अर्थ में आच् प्रत्यय हो। जैसे—दक्षिणा वसतिः; दक्षिणा रमणीयम्।

यहां 'पञ्चमी का निषेध' इसलिये है कि—दक्षिणत आगतः, यहां आच् प्रत्यय न हो ॥ ७६६ ॥

**आहि च दूरे ॥ ७७० ॥ अ० ५ । ३ । ३७ ॥**

यहां पूर्व सूत्र से दक्षिण शब्द की अनुवृत्ति आती है।

दक्षिण प्रातिपदिक से अस्ताति के अर्थ में आहि, चकार से आच् प्रत्यय होते। जैसे—दक्षिणाहि वसति; दक्षिणा वसति; दक्षिणाहि रमणीयम्; दक्षिणा रमणीयम्।

यहां 'दूर' ग्रहण इसलिये है कि—दक्षिणतो वसति, यहां न हो। और 'पञ्चमीसमर्थ का निषेध' इसलिये है कि—दक्षिणत आगतः, यहां भी आहि प्रत्यय न होते ॥ ७७० ॥

**उत्तराच्च ॥ ७७१ ॥ अ० ५ । ३ । ३८ ॥**

उत्तर शब्द से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में दूर अर्थ बाच्य रहे, तो आच् और आहि प्रत्यय हों। जैसे—उत्तरा वसति; उत्तराहि वसति; उत्तरा रमणीयम्; उत्तराहि रमणीयम्।

यहां 'दूर' ग्रहण इसलिये है कि—उत्तरेण प्रयाति, यहां न हो। और 'पञ्चमीसमर्थ का निषेध' इसलिये है कि—उत्तरादागतः, यहां भी आहि प्रत्यय न होते ॥ ७७१ ॥

**पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् ॥ ७७२ ॥ अ० ५ । ३ । ३९ ॥**

सतमी पञ्चमी और प्रथमासमर्थ पूर्व अधर और अवर प्रातिपदिकों से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में असि प्रत्यय, और पूर्व आदि शब्दों को कम से पुर् अध् और अव् आदेश भी होते।

जैसे—पूर्वस्यां दिशि वसति पुरो वसति; पुर आगतः; पुरो रमणीयम्; अधो वसति; अध आगतः; अधो रमणीयम्; अवो वसति; अव आगतः; अवो रमणीयम् ॥ ७७२ ॥

**अस्ताति च ॥ ७७३ ॥ अ० ५ । ३ । ४० ॥**

अस्ताति प्रत्यय परे हो, तो भी पूर्व आदि तीनों शब्दों को पुर आदि आदेश कम से हों। और यहां अस्ताति प्रत्यय भी इस आदेश-विधानरूप ज्ञापक से ही समझना चाहिये। जैसे—पुरस्ताद्वसति; पुरस्तादागतः; पुरस्ताद्रमणीयम्; अधस्ताद्वसति; अधस्तादागतः; अधस्ताद्रमणीयम् ॥ ७७३ ॥

**विभाषाऽवरस्य ॥ ७७४ ॥ अ० ५ । ३ । ४१ ॥**

यहां प्रातिविभाषा है। पूर्व सूत्र से नित्य ही अव् आदेश प्राप्त है।

अवर शब्द को अस्ताति प्रत्यय के परे अव् आदेश विकल्प करके हो। जैसे—अवस्ताद्वसति; अवस्तादागतः; अवस्ताद्रमणीयम् ॥ ७७४ ॥

संख्याया विधार्थे धा ॥ ७७५ ॥ अ० ५ । ३ । ४२ ॥

किया के प्रकार अर्थ में वर्तमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में धा प्रत्यय हो ।  
जैसे—एकधा भुड़क्षे; द्विधा गच्छति; चतुर्धा पञ्चधा इत्यादि ॥ ७७५ ॥

याप्ये पाशप् ॥ ७७६ ॥ अ० ५ । ३ । ४७ ॥

याप्य—निन्दित—अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में पाशप् प्रत्यय हो ।  
जैसे—कुत्सितो वैयाकरणो वैयाकरणपाशः; याङ्किपाशः इत्यादि ।

जो पुरुष व्याकरण शाला में प्रवीण और उरे आचरण करता हो, उसकी 'वैयाकरणपाश' संज्ञा इसलिये नहीं होती कि जिस गुण के विद्यमान होने से वैयाकरण शब्द की प्रवृत्ति उस पुरुष में होती है, उसी गुण की निन्दा में प्रत्यय होता है ॥ ७७६ ॥

एकादाकिनिच्चासहाये ॥ ७७७ ॥ अ० ५ । ३ । ५२ ॥

असहायवाची एक शब्द से स्वार्थ में आकिनिच् प्रत्यय हो, और चकार से कन् प्रत्यय और लुक् भी हों । जैसे—एकाकी, एककः, एकः ।

यहां आकिनिच् और कन् दोनों का लुक् समझना चाहिये, परन्तु प्रत्ययविधान व्यर्थ न हो इसलिये पक्ष में लुक् होता है ॥ ७७७ ॥

आतशायने तमविष्टनौ ॥ ७७८ ॥ अ० ५ । ३ । ५५ ॥

अतिशायन—प्रकृत्यर्थ की उन्नति—अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमप् और इष्टन् प्रत्यय हों ।

जैसे—अतिशयितः श्रेष्ठः श्रेष्ठतमः; वैयाकरणतमः; आढ़यतमः; दर्शनीयतमः; सुकु-मारतमः इत्यादि । अथमेषामतिशयेन पद्मः पटिष्ठः; लघिष्ठः; गरिष्ठः इत्यादि ॥ ७७८ ॥

तिडश्च ॥ ७७९ ॥ अ० ५ । ३ । ५६ ॥

यहां तद्वितप्रकरण में चतुर्थाध्याय के आदि में डीवन्त आधन्त और प्रातिपदिकों से प्रत्ययविधान का अधिकार कर चुके हैं । इस कारण तिडन्त शब्दों से प्रत्ययविधान नहीं प्राप्त है, इसीलिये यह सूत्र पढ़ा है ।

तिडन्त शब्दों से अतिशय अर्थ में तमप् प्रत्यय हो । जैसे—अयमेषु भृशं पचति पचतितमाम्; जहपतितमाम् इत्यादि ।

यहां पूर्वसूत्र से इष्टन् प्रत्यय इसलिये नहीं आता कि प्रत्ययान्त गुणवाची शब्दों से लोक में वाच्य अर्थों के साथ सम्बन्ध दीखता है, किया शब्दों के साथ नहीं ॥ ७७९ ॥

द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ ॥ ७८० ॥ अ० ५ । ३ । ५७ ॥

यहां तिडन्त की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आती है ।

जहाँ विभाग करने योग्य दो और व्यक्तियों का कहना उपपद हो, वहाँ सामान्य प्रातिपदिकों और तिङ्गन्त शब्दों से अतिशय अर्थ में तरप् और ईयसुन् प्रत्यय हों।

जैसे—द्वाविमाधाहौंचौं अयमनयोरतिशयेनाहृवः आहृथतरः; द्वाविमी विद्वांसौ अयमनयोरतिशयेन विद्वान् विद्वत्तरः; प्राहृतरः; पचतिराम्; जल्पतिराम् इत्यादि। ईयसुन्—द्वाविमी गुरु, अयमनयोरतिशयेन गरीयान्; पटीयान्; लघीयान् इत्यादि।

विभज्योपपद से—माधुराः पाटलिपुष्टेभ्य आहृथतराः; वाराणसेयाऽतरेभ्योविद्वत्तराः; दर्शनीयतराः इत्यादि। ईयसुन्—गरीयांसः; पटीयांसः इत्यादि ॥ ७८० ॥

**अजादी गुणवचनादेव ॥ ७८१ ॥ अ० ५ । ३ । ५८ ॥**

पूर्व सुब्रों में जो अजादि—इष्टन्, ईयसुन्—प्रत्यय सामान्य करके कहे हैं, उनका यहाँ विषयनियम करते हैं, कि वे दोनों प्रत्यय गुणवाची प्रातिपदिक से ही होवें, अन्य से नहीं। उदाहरण पूर्व दे चुके हैं।

नियम होने से पाचकतरः, पाचकतमः इत्यादि में इष्टन् और ईयसुन् प्रत्यय नहीं होते। और प्रत्यय का नियम समझना चाहिये, प्रकृति का नहीं। अर्थात् गुणवाची प्रातिपदिकों से तरप् तमप् प्रत्यय भी होते हैं, और द्रव्यवाचक शब्दों से तरप् तमप् ही होते हैं, इष्टन् और ईयसुन् नहीं होते ॥ ७८१ ॥

**तुश्छन्दसि ॥ ७८२ ॥ अ० ५ । ३ । ५६ ॥**

यहाँ पूर्व सूत्र से अजादि की अनुबृति चली आती है। पूर्व सूत्र में गुणवाचियों से नियम किया है, इससे यहाँ प्राप्ति नहीं थी।

तृच् और तृन् प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से वेदविषय में इष्टन् और ईयसुन् प्रत्यय होवें। जैसे—आसुरिं करिष्टः; ‘अतिशयेन कर्त्ता’ ऐसा विश्रह होगा; अतिशयेन दोग्धी दोहीयसी घेनुः।

यहाँ सामान्य भसंष्ठा में (भस्याद०) इससे पुंबङ्गाव होकर तृच् तृन् प्रत्ययों का लुक् हो जाता है ॥ ७८२ ॥

**प्रशस्यस्य श्रः ॥ ७८३ ॥ अ० ५ । ३ । ६० ॥**

अजादि प्रत्ययों के परे प्रशस्य शब्द को श्र आदेश होवे। जैसे—सर्व इमे प्रशस्याः अयमतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः; द्वाविमी प्रशस्यो अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्।

तद्वितप्रत्ययों के परे भसंष्ठक एकाच् शब्दों को प्रकृतिभाव होने से श शब्द के टिभाग का लोप नहीं होता ॥ ७८३ ॥

**ज्य च ॥ ७८४ ॥ अ० ५ । ३ । ६१ ॥**

प्रशस्य शब्द को अजादि प्रत्ययों के परे ज्य आदेश भी हो। जैसे—सर्व इमे प्रशस्याः अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः ज्येष्ठः; द्वाविमी प्रशस्यो अयमतिशयेन प्रशस्यः ज्यायान्।

यहां ईयसुन् के ईकार को आकारादेश ( ज्यादादी० ) इस वद्यमाण सूच से हो जाता है ॥ ७८४ ॥

**वृद्धस्य च ॥ ७८५ ॥ अ० ५ । ३ । ६२ ॥**

वृद्ध शब्द को भी अजादि प्रत्ययों के परे ज्य आदेश होवे । जैसे—सर्व इसे वृद्धः अयमेषामतिशयेन वृद्धः ज्येष्ठः; उभाविमौ वृद्धौ अयमनयोरतिशयेन वृद्धः ज्यायान् ।

और ( प्रियस्थिर० ) इस वद्यमाण सूच से वृद्ध शब्द को वर्ष आदेश भी होता है, परन्तु वृद्ध आदेश कहना व्यर्थ न होजावे, इसलिये पक्ष में समझना चाहिये । जैसे—वर्षिष्ठः, वर्षीयान् ॥ ७८५ ॥

**अन्तिकवाढयोनेदसाधौ ॥ ७८६ ॥ अ० ५ । ३ । ६३ ॥**

अन्तिक और वाढ शब्दों को यथासंख्य करके अजादि प्रत्ययों के परे नेद और साध आदेश होवें । जैसे—सर्वाणीमान्यन्तिकानि इदमेषामतिशयेनान्तिकं नेदिष्ठम्; उभे इसे अन्तिके इदमनयोरतिशयेनान्तिकं नेदीयः; सर्व इसे वाढमधीयते नेदिष्ठमधीयते; अयमसात् साधीयोऽधीते ॥ ७८६ ॥

**युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् ॥ ७८७ ॥ अ० ५ । ३ । ६४ ॥**

इस सूच में अप्राप्तविभाषा इसलिये समझनी चाहिये, कि अजादि प्रत्ययों के परे कन् आदेश किसी सूच से प्राप्त नहीं ।

युव और अल्प शब्दों के स्थान में अजादि प्रत्ययों के परे कन् आदेश विकल्प करके होवे ।

जैसे—सर्व इसे युवान् अयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठः, यविष्ठः; द्वाविमौ युवान् अयमनयोरतिशयेन युवा कनीयान्, यवीयान्, सर्व इमेऽल्पाः अयमतिशयेनाल्पः कनिष्ठः, अल्पिष्ठः; द्वाविमावल्पो अयमतिशयेनाल्पः कनीयान्, अल्पीयान् ॥ ७८७ ॥

**विनमतोर्लुक् ॥ ७८८ ॥ अ० ५ । ३ । ६५ ॥**

विन् और मतुप् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अजादि प्रत्यय परे हों, तो विन् और मतुप् प्रत्यय का लुक् हो जावे ।

जैसे—सर्व इसे स्त्रिविलः अयमेषामतिशयेन स्त्रग्भी स्त्रजिष्ठः; मायिष्ठः इत्यादि; उभाविमौ स्त्रिविलः अयमनयोरतिशयेन स्त्रग्भी स्त्रजीयान्; अयमसात् स्त्रजीयान्; सर्व इसे धनवन्तः अयमेषामतिशयेन धनवान् धनिष्ठः; उभाविमौ धनवन्तौ अयमनयोरतिशयेन धनवान् धनीयान्; अयमसात् धनीयान् इत्यादि ।

( प्रशास्यस्य अः ) इस सूच से ले के यहां तक सब सूत्रों में आदेश विधानरूप ज्ञापक से अजादि प्रत्ययों—इष्ठन्, ईयसुन्—की उत्पत्ति उन २ प्रशास्य आदि प्रातिपदिकों से समझनी चाहिये ॥ ७८८ ॥

प्रशंसायां रूपपू ॥ ७८६ ॥ अ० ५ । ३ । ६६ ॥

प्रकृत्यर्थी की प्रशंसा अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में रूपपू प्रत्यय होवे । जैसे—प्रशस्तो वैयाकरणो वैयाकरणरूपः; वाङ्गिकरूपः; पाचकरूपः; उपदेशकरूपः; प्राह्लरूपः इत्यादि ।

यहां पूर्व से तिडन्त की भी अनुबृत्ति चली आती है । जैसे—पचतिरूपम्; पठति-रूपम्; जलपतिरूपम् ।

तद्वित प्रत्ययान्त आव्यात क्रियाओं से द्विवचन वहुवचन विभक्ति नहीं आती, और सब विभक्तियों के एकवचन भी नहीं होते, किन्तु अव्ययसंहा होजाने से सब विभक्तियों के स्थान में अम् आदेश हो जाता है । परन्तु द्विवचनान्त और वहुवचनान्त क्रियाओं से वो तद्वित प्रत्यय हो जाते हैं । जैसे—पठतोरूपम्; पठन्तिरूपम् इत्यादि ॥ ७८६ ॥

ईषदसमाप्तौ कल्पदेश्यदेशीयरः ॥७८०॥ अ० ५ । ३ । ६७ ॥

समाप्ति होने में थोड़ी न्यूनता अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में कल्पपू देश्य और देशीयर् प्रत्यय होवें । जैसे—ईषदसमाप्ता विद्या विद्याकल्पः; विद्यादेश्यः; विद्यादेशीयः; ईषदसमाप्तः पटः पटकल्पः; पटदेश्यः; पटदेशीयः; मृदुकल्पः; मृदुदेश्यः; मृदुदेशीयः इत्यादि ।

तिडन्त की भी अनुबृत्ति चली आती है । जैसे—पचतिकल्पम्; पठतिकल्पम्; पठतिदेश्यम्; पठतिदेशीयम्; पठरःकल्पम्; पठन्तिकल्पम् इत्यादि ॥ ७८० ॥

विभाषा सुपो वहुच्च पुरस्तात् ॥ ७८१ ॥ अ० ५ । ३ । ६८ ॥

यहां भी अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि सुवन्त से पूर्व वहुच्च प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं । और यहां पूर्वसूत्र से ईषदसमाप्ति अर्थ की अनुबृत्ति भी चली आती है । ईषदसमाप्ति अर्थ में वर्तमान सुवन्त से पूर्व वहुच्च प्रत्यय विकल्प करके होवे ।

तृतीयाव्याय के तारम्भ में प्रत्ययों के धातु प्रातिपदिकों से परे होने का अधिकार कर द्युके हैं, इसलिये यहां पुरस्तात् शब्द पढ़ा है कि प्रातिपदिकों के आदि में प्रत्यय हों । जैसे—ईषदसमाप्तो लेखः वहुलेखः; वहुपद्मः; वहुमृदुः; वहुगुडा द्राक्षा इत्यादि ।

विकल्प के कहने से ‘कल्पपू’ आदि प्रत्यय भी इन प्रातिपदिकों से होते हैं । और सुवन्तप्रदृश तिडन्त की निबृत्ति के लिये है ॥ ७८१ ॥

प्रकारवचने जातीयर ॥ ७८२ ॥ अ० ५ । ३ । ६९ ॥

प्रकार के कहने अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में जातीयर् प्रत्यय होवे । जैसे—एवम्प्रकारः एवज्ञातीयः; मृदुप्रकारः मृदुज्ञातीयः; प्रमाणज्ञातीयः; प्रमेयज्ञातीयः इत्यादि ॥ ७८२ ॥

## प्रागिवात्कः ॥ ७६३ ॥ अ० ५ । ३ । ७० ॥

यह अधिकार सूत्र है। यहां से आगे (इवे प्रतिकृती) इस सूत्रपर्यन्त सब सूत्रों तथा अर्थों में सामान्य करके क प्रत्यय होगा। जैसे—अश्वकः; वृषभकः; गोकः इत्यादि।

तिडन्त की अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आती, किन्तु उच्चरसूत्र में तो आती है। ७६३॥

## अव्ययसर्वनामामकच् प्राक् टे: ॥ ७६४ ॥ अ० ५ । ३ । ७१ ॥

यहां तिडन्त की भी अनुवृत्ति आती है। और यह सूत्र क प्रत्यय का अपवाद है। अव्यय सर्वनामसंज्ञकः और तिडन्त शब्दों के टि भाग से पूर्व अकच् प्रत्यय होते।

यहां भी प्रत्ययों का पर होना अधिकार होने से टि से पूर्व नहीं प्राप्त है, इसलिये प्राक्ग्रहण किया है। जैसे अव्ययों से—उच्चकैः; नीचकैः; शमकैः इत्यादि। सर्वनाम-संज्ञकों से—सर्वके, सर्वे; विश्वके, विश्वे; उभयके, उभये, यका; सका, या; सा; यकः; सकः; यः; सः; एषकः; एषः।

यहां प्रातिपदिक और सुवन्त दोनों की अनुवृत्ति चली आती है, इस कारण कहीं प्रातिपदिक के टि से पूर्व, और कहीं सुवन्त के टि से पूर्व अकच् प्रत्यय होता है।

प्रातिपदिक के टि से पूर्व—जैसे—युष्मकाभिः; अस्सकाभिः; युष्माभिः; अस्साभिः; युष्मकासु; अस्सकासु; युष्मासु; अस्सासु; युष्मकयोः; अस्सकयोः; युष्मयोः; अस्सयोः इत्यादि। सुवन्त के टि से पूर्व—जैसे—त्वयका; मयका; त्वया; मया; त्वयकि; मयकि; त्वयिः; मयि इत्यादि। तिडन्त से—भवतकि; पचतकि; पठतकि; जल्पतकि इत्यादि। ७६४॥

## वा०—अकच्चप्रकरणे तूष्णीमः काम् ॥ ७६५ ॥

तूष्णीम् मकारान्त अव्यय शब्द के टि भाग से पूर्व अकच् प्रत्यय का बाधक काम् प्रत्यय होते। जैसे—आसितव्यं किल तूष्णीकाम् ॥ ७६५ ॥

## वा०—शीले को मलोपश्च ॥ ७६६ ॥

शील अर्थ में तूष्णीम् अव्यय शब्द से क प्रत्यय और तूष्णीम् शब्द के मकार का लोप हो जाते। जैसे—तूष्णीशीलः तूष्णीकः ॥ ७६६ ॥

## कस्य च दः ॥ ७६७ ॥ अ० ५ । ३ । ७२ ॥

यहां अव्ययों के सम्बन्ध का सूत्रार्थ के साथ सम्पर्य होने से अव्यय की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आती है, सर्वनाम की नहीं। क्योंकि सर्वनाम शब्द कोई ककारान्त नहीं है।

ककारान्त अव्ययों को अकच् प्रत्यय के संयोग में दकारान्त आवेश होते। जैसे—विक्, धकित्, हिरुक्, हिरकृत्, पृथक्, पृथकत् इत्यादि ॥ ७६७ ॥

अनुकम्पायाम् ॥ ७६८ ॥ अ० ५ । ३ । ७६ ॥

दूसरों के दुःखों को यथाशक्ति निवारण करने को 'अनुकम्पा' कहते हैं। अनुकम्पा अर्थ में वर्चमान सामान्य प्रातिपदिकों और तिङ्गन्त शब्दों से यथाप्राप्त प्रत्यय हों।

जैसे—पुत्रकः; वत्सकः; दुर्योगकः; वृभुक्षितकः; वरितकः इत्यादि। तिङ्गन्तों से—शेतके; विश्वसितकिः; स्वपितकिः; ग्राहितकिः इत्यादि ॥ ७६८ ॥

टाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः ॥ ७९९ ॥ अ० ५ । ३ । ८३ ॥

यहां पूर्व सूत्र से लोप की अनुवृत्ति आती है।

इस प्रकरण में जो ठ अज्ञादि प्रत्यय हैं, उनके परे प्रकृति के द्वितीय अच् से अन्य जो घटदरूप हैं उसका लोप हो। ऊर्ध्व शब्द के ग्रहण से सब का लोप होजाता है।

जैसे—अनुकम्पितो देवदत्तः; देविकः; देवियः; देविलः; यज्ञिकः; यज्ञियः; यज्ञिलः—यहां देवदत्त और यज्ञदत्त शब्द से ठ, घ और इलच् प्रत्यय कम से हुए हैं। अनुकम्पित उपेन्द्रदत्तकः; उपडः; उपकः; उपियः; उपिलः; उपिकः—यहां उपेन्द्रदत्त शब्द से अडच्, बुच्, घ, इलच् तथा ठच् प्रत्यय होते हैं।

इस सूत्र में ठ को भी इक् आदेश हो जाता है। फिर अज्ञादि के कहने से ठ प्रत्यय का भी ग्रहण हो जाता, फिर 'ठ प्रत्यय का' ग्रहण इसलिये है कि—जहां उक् प्रत्याहार से परे ठ के स्थान में क आदेश होता है, वहां भी दो अच् से अन्य वर्णों का लोप हो जावे। जैसे—अनुकम्पितो वायुदत्तः; वायुकः; पितृकः ॥ ७६६ ॥

**वा०—द्वितीयादचो लोपे संध्यक्षरस्य द्वितीयत्वे तदादेलोपे**

**वक्तव्यः ॥ ८०० ॥**

दो अक्षरों से अन्य वर्णों का जो लोप सूत्र से कहा है, सो जो द्वितीय अक्षर सन्ध्यक्षर—ए, ऐ, ओ, औ—हों, तो वहां सन्ध्यक्षर का भी लोप हो जावे। जैसे—लहोडः; लहिकः; कहोडः; कहिकः।

यहां लहोड कहोड किसी मनुष्यविशेष की संज्ञा है, उन में हकारविशिष्ट ओकार का भी लोप हो जाता है ॥ ८०० ॥

**वा०—चतुर्थात् ॥ ८०१ ॥**

द्वितीय अच् से परे अन्य भाग का जो लोप कहा है, सो चतुर्थ अच् से परे भी हो जावे। जैसे—वृहस्पतिदत्तकः; वृहस्पतिकः; वृहस्पतियः; वृहस्पतिलः इत्यादि ॥ ८०१ ॥

**वा०—अनजादौ च ॥ ८०२ ॥**

अज्ञादि प्रत्यय के परे लोप कहा है, सो हलादि प्रत्ययों के परे भी द्वितीय अच् से ऊर्ध्व का लोप हो। जैसे—देवदत्तकः; देवकः; यज्ञदत्तकः; यज्ञकः—यहां कन् प्रत्यय हुआ है ॥ ८०२ ॥

**वा०-लोपः पूर्वपदस्य च ॥ द०३ ॥**

अजादि हलादि सामग्र्य प्रत्ययों के परे संज्ञावाची शब्दों के पूर्वपद का भी लोप हो जावे। जैसे—देवदत्तको दत्तकः; यज्ञदत्तको दत्तकः; दत्तिकः; दत्तियः; दत्तिलः इत्यादि ॥ द०३॥

**वा०-अप्रत्यये तर्थैवेष्टः ॥ द०४ ॥**

कोई भी प्रत्यय न परे हो, तो भी पूर्वपद का लोप होवे। जैसे—देवदत्तो दत्तः इत्यादि ॥ द०४॥

**वा०-उवर्णाल्ल इलस्य च ॥ द०५ ॥**

उवर्णान्त संज्ञा शब्द से परे जो इलच् प्रत्यय उसके इकार का लोप हो । जैसे—भानुदत्तो भानुलः; वसुदत्तो वसुलः इत्यादि ॥ द०५॥

**वा०-एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपदलोपः ॥ द०६ ॥**

एकाक्षर जिनका पूर्वपद हो, उनके उत्तरपद का लोप हो, अजादि प्रत्ययों के परे। जैसे—वागाशीः; वाचिकः; स्त्रिचिकः; त्वचिकः इत्यादि ॥ द०६॥

**किंयत्तदो निर्द्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् ॥ द०७ ॥ अ०५ । ३ । ६२ ॥**

दो मैं से एक का जहाँ निर्द्धारण—पृथक्—करना हो, वहाँ किम् यत् और तत् प्रातिपदिकों से डरतच् प्रत्यय होवे।

जातिवाची कियावाची गुणवाची वा संज्ञा शब्दों के समुदाय से एकदेश का पृथक् करना होता है। जैसे—कतरो भवतोः कठः; कतरो भवतोः कारकः; कतरो भवतोः पट्ठः; कतरो भवतोर्देवदत्तः; यतरो भवतोः कठः; यतरो भवतोः कारकः; यतरो भवतोः पट्ठः; यतरो भवतोर्देवदत्तः ततर आगच्छतु इत्यादि।

यहाँ महाविभाषा अर्थात् (समर्थनां०) इस सूत्र से विकल्प की अनुवृत्ति चली आती है। इससे को भवतोर्देवदत्तः स आगच्छतु इत्यादि वाक्यों में डतरच् प्रत्यय नहीं होता ॥ द०७॥

**वा वहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् ॥ द०८ ॥ अ०५ । ३ । ६३ ॥**

पूर्व सूत्र से किम् आदि शब्दों और एक के निर्द्धारण की अनुवृत्ति आती है।

वहूतों मैं से एक का निर्द्धारण करना अर्थ हो, तो जाति के पृछने अर्थ मैं वर्त्तमान किम् आदि शब्दों से विकल्प करके डतरच् प्रत्यय होवे। जैसे—कतमो भवतां कठः; यतमो भवतां कठः ततम आगच्छतु इत्यादि।

यहाँ विकल्प के होने से पक्ष मैं इसी अर्थ मैं अकच् भी होता है। जैसे—यको भवतां कठः सक आगच्छतु। और महाविभाषा के चले आने से वाक्य भी बना रहता है। जैसे—यो भवतां कठः स आगच्छतु।

यहां 'जातिपरिपश्न' का ग्रहण इसलिये है कि—को भवतां देवदत्तः, यहां निज की संघा के प्रश्न में किम् शब्द से डवमत् प्रत्यय नहीं होता। और परिप्रश्न का सम्बन्ध एक किम् शब्द के साथ ही समझना चाहिये, क्योंकि यद् तद् के साथ वह अर्थ सम्पर्चित नहीं होता ॥ ८०८ ॥

इवे प्रतिकृतौ ॥ ८०६ ॥ अ० ५ । ३ । ६६ ॥

यहां पूर्व से परिप्रश्न की अनुवृत्ति आती है।

उपमावाचक अर्थ में वर्तमन प्रतिपदिक से कन् प्रत्यय होते। जैसे—अश्व इव प्रतिकृतिः अश्वकः; गर्दभकः; उष्णकः।

यहां 'प्रतिकृति' ग्रहण इसलिये है कि—गोरिव गवयः, यहां केवल उपमा ही है प्रतिकृति नहीं, इससे कन् प्रत्यय नहीं होता ॥ ८०६ ॥

लुम्मनुष्ये ॥ ८१० ॥ अ० ५ । ३ । ६८ ॥

प्रतिकृति सादृश्यार्थसंघा हो, तो उस अर्थ में विहित कन् प्रत्यय का लुप् होजाये। जैसे—चञ्चेव मनुष्यः चञ्चा; दासी; खरकुटी इत्यादि, यदां तद्वित-प्रत्यय का लुप् होते से लिङ्ग और वचन पूर्व के ही हो जाते हैं।

यहां 'मनुष्य' ग्रहण इसलिये है कि—अश्वकः; उष्णकः; इत्यादिप्रे लुप् न होते ॥ ८१० ॥

जीविकार्थं चापराये + ॥ ८११ ॥ अ० ५ । ३ । ६९ ॥

यहां मनुष्यग्रहण की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से समझनी चाहिये, क्योंकि उत्तर सूत्र में भी जाती है।

+ जीविका शब्द का अर्थ सुख्य करके दीवानोपाय करना है। इस प्रकरण में सिवाय प्रतिकृति और मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति नहीं आती। यहां प्रयोजन यह है कि तिन स्त्री सुत्र आदि सम्बन्धीया सिद्धांतिकों के साथ अत्यन्त प्रेम होता है; उनके वियोग में उनकी प्रतिकृति देखते और युद्ध कर्म वया उपकार आदि का समर्थ करते हुए। अपने चित्त में सन्तोष करते हैं। परन्तु इस प्रकरण में यह बात विचासना चाहिये कि संसार में वित्तने वश पदार्थ हैं, उन सदकी प्रतिकृति होती है वा नहीं? को बहुवर्ते चोरे हार्या आदि जीवों की अतिदिग्नायि मृण्यादि की प्रतिकृतिबां बना २ कर बेचते हैं, वे जीविकार्थपरम होते हैं। और को बहुनेरे द्वाष द्वीपान्तर देश देशान्तरों में पशु पश्यादि तथा श्रति स्त्री पुत्रादि की प्रतिकृतियां रखते हैं, वे अपरखजीविकार्थ अर्थात् बेचने के लिये न हों, किन्तु देश और दिवक्षा के जीविका करते हों। परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं।

इस सूत्र से बहुदेरे देवाकरणों का यह अभिग्राह है कि—जीविका के लिये जो पदार्थ हो और वह बेचा न जावे, तो उस अर्थ में कन् प्रत्यय का लुप् हो जावे, और (लुम्मनुष्ये) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध न करके, वहा आदि देवताओं की मूर्चियां, जो कि भज्निरों में बना २ कर रखते हैं, उनसे जीविका—बन का आगम—जो है परन्तु वे प्रतिमा बेचने के लिये नहीं हैं। इसलिये उन्हीं का प्रह्य होना चाहिये।

परय उसको कहते हैं कि जो वेचा जावे, जो पदार्थ वेचने के लिये न हो और उससे किसी प्रकार की जीविका होती होवे, वह पदार्थ बाच्य रहे, तो प्रतिकृति अर्थ में विद्वित प्रत्यय का लुप् हो जावे । जैसे—वसिष्ठस्य प्रतिकृतिर्विसिष्टः; विश्वामित्रः; अर्जुनस्य प्रति-कृतिर्जुनः; युधिष्ठिरः; रामः; कृष्णः; शिवः; विष्णुः; स्कन्दः; आदित्यः इत्यादि । ये वसिष्ठ आदि मनुष्यों के विशेष नाम भूत भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल में होते हैं ।

यहाँ 'मनुष्य' ग्रहण की अनुवृत्ति इसलिये है कि—अस्त्रकं दर्शयति, यदां न हो । और 'अपरय' ग्रहण इसलिये है कि—हस्तिकान् चिकीणीते, यदां भी कन् का लुप् न हो ॥८१॥

## समासाच्च तद्विषयात् ॥ ८२ ॥ अ० ५ । ३ । १०६ ॥

यदां तत् शब्द से पूर्वोक्त उपमावाचक शब्द लिया जाता है ।

उपमार्थ में समास किये प्रातिपदिकों से दूसरे उपमार्थ में छु प्रत्यय होते । जैसे—काकागमतमिव तालपतनमिव काकतालं काकतालमिव यत्कार्यं काकतालीयम्; अजाकृपाणीयम्; अन्धकर्वतकीयम् इत्यादि ।

और इस सूत्र पर महाभाष्यकार ने भी लिखा है कि—जो धनार्थों लोग शिव आदि की प्रतिमा बना २ कर वेचते हैं, वहाँ लुप् नहीं पावेगा । क्योंकि सूत्रकार ने अपरय शब्द पढ़ा है कि जो वेचने के लिये न हो । इस महाभाष्य से भी अपना ही अभिप्राय सिद्ध करते हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिकृति और मनुष्य शब्द ही की अनुवृत्ति है, अन्य की नहीं । देवता शब्द भी जहाँ चेतन व्यक्तियों के साथ सर्वशब्द होता है, वहाँ मनुष्यों ही की संज्ञा होती है । और वैदिक शब्द सब यौगिक ही हैं, देवता शब्द भी वैदिक है । जो इस सूत्र में मनुष्य शब्द की अनुवृत्ति जयादित्य आदि लोगों ने नहीं की, यंह उनको भ्रम है । क्योंकि वे लोग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्तार्थाचारी समझते हैं, परन्तु सामान्य ग्रहण होने से लो २ प्रतिकृति जीविका के लिये हो और वेची न जावे, तो उस २ सबके अभिप्राय में प्रत्यय का लुप् होना चाहिये ।

और जहाँ कोइं मनुष्य किन्हीं जीवों की प्रतिकृतियों को दिखा के सर्वत्र अपनी जीविका करता हो, वहाँ भी लुप् होना चाहिये । और पूजा का अर्थ भी आदर सत्कार ही होता है, सो चेतन का होना चाहिये । फिर महाभाष्यकार ने लिखा है कि लो इस समय पूजा के लिये हैं, वहाँ लुप् होगा । इसका भी यही अभिप्राय है कि जो शिव आदि मनुष्य की प्रतिकृति पूजा सत्कार के लिये है, उनसे प्रत्यय का लुप् हो जावे । क्योंकि अच्छे सुरुपों की जो प्रतिकृति है उसके वेचने में सज्जन लोग बुराहे समझते हैं ।

देव और देवता शब्द से मनुष्यों के ग्रहण में प्रमाण—

'विश्वे देवास आगत शुलुतेम् द्वृष्टः ।' यह यजुर्वेद का प्रमाण है । 'निष्ठार्थं सो हि देवाः ।' यह शतपथ व्राह्मण का वचन है । 'मातृदेवो मव । पितृदेवो मव । आचार्यदेवो मव । अतिथिदेवो मव ।' यह तैतिरीय आरत्यक का वाक्य है ॥

इत्यादि सब प्रमाणवचनों से बिंदू व्यक्ति आदि का ग्रहण देव और देवता शब्द से होता है । इसकिये पाणिनि आदि अपि लोगों का अभिप्राय भी वेदों से विस्तृद कभी न होना चाहिये । इस प्रकरण को पद्धपात छोड़ के वेदानुकूलता से सब सज्जन लोग विचारें ॥

यहाँ कोवे का बृक्ष के नीचे आना और ताल के फल का गिरना एक काल में होने से उस फल से द्रव के मरजाना अथवा उस फल को खा के बृक्ष होना दोनों अर्थों का सम्बद्ध है। ऐसे ही संसार में जो कार्य हो, उस को 'काकतालीय न्याय' कहते हैं।

इस सूत्र में पहले उपमार्थ में समास और दूसरे में प्रत्यय की उत्पत्तिहोत्री है ॥ ८१२ ॥

**प्रत्यपूर्वविश्वेमात्याल् छन्दसि ॥ ८१३ ॥ अ० ५ । ३ । १११ ॥**

प्रत्यपूर्वविश्व और इम शब्दों से उपमार्थ में वेदविषयक थाल्-प्रत्यय होते। जैसे—  
प्रत्ययः; पूर्वयः; विश्वथा; इमथा ॥ ८१३ ॥

**पूरगञ्ज ज्योऽग्रामणीपूर्वात् ॥ ८१४ ॥ अ० ५ । ३ । ११२ ॥**

यहाँ से उपमार्थ लिखृत हुआ। अर्थ और कामों में आसक्त पुरुषों को 'पूरग' कहते हैं।

ग्रामणी शब्द जिसके पूर्व न हो, ऐसे पूरगवाची प्रातिपदिक से स्वार्थ में ज्य प्रत्यय हो। जैसे—लोहव्यज्यः; लोहव्यज्यो; लोहव्यज्याः; शैव्यः; शैव्यो; शिवयः; चातक्यः; चातक्यो; चातकाः।

यहाँ 'ग्रामणी पूर्व का निषेध' इसलिये है कि—देवदत्तो ग्रामणीरेणां त इमे देवदत्तकाः;  
यद्यदत्तकाः इत्यादि से ज्य प्रत्यय न होते ॥ ८१४ ॥

**ब्रातच्चफज्जोरस्त्रियाम् ॥ ८१५ ॥ अ० ५ । ३ । ११३ ॥**

जो पुरुष जीवों को मार द के जीविका करें उनको 'ब्रात' कहते हैं।

ब्रातवाची और चक्षु प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ज्य प्रत्यय हो, लौलिङ्ग को छोड़ के। जैसे—कापोतपाञ्चः; कापोतपाञ्ची, कपोतपाकाः इत्यादि। चक्षुन्त से—कौञ्जायन्यः; कौञ्जायन्यो; कौञ्जायन्नाः इत्यादि।

यहाँ 'लौलिङ्ग का निषेध' इसलिये है कि—कपोतपाकी; कौञ्जायनी, यहाँ ज्य न होते ॥ ८१५ ॥

**ज्यादृयस्तद्राजाः ॥ ८१६ ॥ अ० ५ । ३ । ११६ ॥**

(पूराज्योऽ) इस सूत्र में जो ज्य प्रत्यय पढ़ा है, वहाँ से यहाँ तक वीच में जितने प्रत्यय हैं, उन सब की 'तद्राज' संज्ञा होती है।

उसका प्रयोजन यही है कि वहुवचन में प्रत्यय का लुक़् हो जाता है ॥ ८१६ ॥

—इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥

अथ चतुर्थः पादः—

पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां बुन् लोपश्च ॥ द१७ ॥ अ० ५ । ४ । १ ॥

संख्या जिसके आदि में हो, ऐसे पाद और शतशब्दान्त प्रातिपदिक से वीप्सा अर्थ में बुन् प्रत्यय, और पाद शत शब्दों के अन्त का लोप होते । जैसे—द्वौ द्वौ पादौ ददाति द्विपदिकां ददाति; द्वै शते ददाति द्विशतिकां ददाति इत्यादि ।

यहां भसंज्ञक प्रत्ययों के परे अन्त का लोप हो जाता, फिर 'लोप' ग्रहण इसलिये है कि—उस लोप के परन्तुमिच्चक होने से स्यानिवद्वाव होकर पाद शब्द को पत् आदेश नहीं पाते । यह लोप परन्तुमिच्च नहीं है, इस कारण स्यानिवद्वाव का निषेध होकर पत् आदेश हो जाता है ।

इस स्त्रे में पाद और शत शब्दों का ग्रहण किया है, परन्तु पाद शत शब्दों से अन्यत्र भी संख्यादिशब्दों से वीप्सा अर्थ में बुन् प्रत्यय होता है । जैसे—'द्विमोदिकिकामाददाति' इत्यादि प्रयोगों का आश्रय लेकर महामाप्यकार ने पाद शत ग्रहण की उपेक्षा की है ॥ द१७ ॥

अषड्काशितद्वृवलङ्गमर्लम्पुरुषाध्युत्तरपदात्खः ॥ द१८ ॥

अ० ५ । ४ । ७ ॥

अषड्काश, आशितद्वृगु, अलङ्गमर्ल, अलम्पुरुष और अधि जिनका उत्तरपद हो, उन प्रातिपदिकों से स्वार्थ में स्व प्रत्यय होते । जैसे—अविद्यमानानि पत् अक्षीएथस्य, इस प्रकार वहुवीहि समास किये पञ्चात् अक्षि शब्द से समासान्त पञ्च प्रत्यय हो जाता है । उस अषड्काश शब्द से स्व प्रत्यय हुआ है । अषड्काशीणो मन्त्रः ।

आशिता गात्रोऽसिन्नरग्ये आशितद्वनीनमरण्यम्, यहां निपातन पूर्वपद को मुक् का आगम हुआ है । अलङ्गमर्लण्यम्; अलम्पुरुषीण्यम्; कार्याधीनः; राजाधीनः इत्यादि ॥ द१८ ॥

विभाषा अचेरदिकिन्त्रयाम् ॥ द१९ ॥ अ० ५ । ४ । ८ ॥

यहां अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि स्व प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है ।

किप् प्रत्ययान्त अञ्चु जिसके अन्त में हो, उस प्रातिपदिक से खीर्णिंग दिशा अर्थ को छोड़के स्वार्थ में विकल्प से स्व प्रत्यय होते । जैसे—प्राक्, प्राचीनम्; अवाक्, अर्वाचीनम् ।

'दिशा व्यीलङ्ग का निषेध' इसलिये है कि—प्राची दिक्; प्रतीची दिक् । 'दिशा' का ग्रहण इसलिये है कि—प्राचीना ग्राहणी; अर्वाचीना शिशा इत्यादि से छु प्रत्यय न होते ॥ द१९ ॥

स्थानान्ताद्विभाषा स्थानेनेति चेत् ॥ ८२० ॥ ३० ५ । ४ । १० ॥

तुल्यता अर्थ में स्थानान्त प्रातिपदिक से विकल्प करके छु प्रत्यय होवे स्वार्थ में । जैसे—पित्रा तुल्यः पितृस्थानीयः; पितृस्थानः; मातृस्थानीयः; मातृस्थानः; भ्रातृस्थानीयः; भ्रातृस्थानः; राजस्थानीयः; राजस्थानः इत्यादि ।

यहाँ ‘स्थान’ ग्रहण इसलिये है कि—गोस्थानम्; अज्ञस्थानम्, यहाँ न हो ॥ ८२० ॥

किमेत्तिङ्गुड्डव्ययघादास्वद्रव्यप्रकर्षे ॥ ८२१ ॥ ३० ५ । ४ । ११ ॥

किम्, एकारान्त निपात, तिङ्गन्त और अव्यय शब्दों से परे जो न प्रत्यय तदन्त प्रातिपदिकों से अद्रव्य—क्रिया और गुण—की अधिकता में आमु प्रत्यय होवे ।

यद्यपि गुण कर्मों के बिना केवल द्रव्य की कुछ उन्नति नहीं होती, तथापि क्रिया और गुणों की उन्नति की जब द्रव्य में विवक्षा होती है, उस द्रव्यस्थ प्रकर्ष का निषेध यहाँ समझना चाहिये । जैसे—किन्तराम्, किन्तमाम्; पूर्वाहेतराम्, पूर्वाहेतमाम्; पठतितराम्, पठतितमाम्; उच्चेस्तराम्, उच्चेस्तमाम् इत्यादि ।

यहाँ आमु प्रत्यय में उकारानुवन्ध मकार की रक्षा के लिये है ॥ ८२१ ॥

णचः स्त्रियामज् ॥ ८२२ ॥ ३० ५ । ४ । १४ ॥

स्त्रीलिङ्ग में जो कृदन्त णच् प्रत्यय होता है, तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्गविपयक स्वार्थ में अञ्ज प्रत्यय होवे । जैसे—व्यावक्रोशी; व्यावहासी इत्यादि ॥ ८२२ ॥

संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् ॥ ८२३ ॥ ३० ५ । ४ । १७ ॥

एक ही जिनका कर्त्ता हो, ऐसी एक ही प्रकार की क्रियाओं के बार २ गणने अर्थ में वर्तमान संख्यावाची शब्दों से स्वार्थ में कृत्वसुच् प्रत्यय होवे । जैसे—पञ्च बारान् भुज्के पञ्चकृत्वो भुज्के; सप्तकृत्वः; अष्टकृत्वः; दशकृत्वः इत्यादि ।

यहाँ ‘संख्या’ ग्रहण इसलिये है कि—भूरीन् बारान् भुज्के, यहाँ प्रत्यय न हो । और बार २ होना क्रिया का ही हो सकता है, द्रव्य गुण का नहीं, फिर यहाँ ‘क्रिया’ ग्रहण इसलिये है कि—उच्चर सूत्रों में जहाँ क्रिया ही गिनी जाती और अभ्यावृत्ति नहीं होती, वहाँ भी होजावे । और ‘अभ्यावृत्ति’ ग्रहण इसलिये है कि—क्रियामात्र के गणने में न हो । जैसे—पञ्च पाकाः; दश पाकाः ॥ ८२३ ॥

द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् ॥ ८२४ ॥ ३० ५ । ४ । १८ ॥

क्रिया के बार २ गणने अर्थ में वर्तमान संख्यावाची द्वि त्रि और चतुर् शब्दों से कृत्वसुच् का वाधक सुच् प्रत्यय होवे । जैसे—द्वि; पठति; त्रि; स्ताति; चतुः पिवति इत्यादि ॥ ८२४ ॥

एकस्य सकुच्च ॥ द२५ ॥ अ० ५ । ४ । १६ ॥

क्रिया की संख्या में व मान एक शब्द से कृत्वसुच का अपवाद सुच प्रत्यय और एक शब्द को सकृद आदेश होते । जैसे—सकृदधीतः सकृददातिः सकृद कन्या प्रदीयते इत्यादि ॥ द२५ ॥

तत्प्रकृतवचने मयट् ॥ द२६ ॥ अ० ५ । ४ । २१ ॥

जिस शब्द से प्रत्ययार्थी की विवज्ञा हो, उसी के निरन्तर कहने अर्थात् जात्यन्तर के मेल की निवृत्ति करने अर्थ में वर्तमान प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से स्वार्थ में मयट् प्रत्यय होते । जैसे—आनन्दमयं ब्रह्म—अर्थात् ईश्वर में दुःख का लेश भी नहीं है; अन्नमयम् प्राणमयम्; मनोमयम् इत्यादि ॥ द२६ ॥

अनन्तावसथेतिहभेषजाऽङ्गयः ॥ द२७ ॥ अ० ५ । ४ । २३ ॥

अनन्तः आवसथ, इतिह और भेषज शब्दों से स्वार्थ में इय प्रत्यय होते । जैसे—अनन्त एव आनन्दम्; आवसथ एव आवसथ्यम्; इतिह एव ऐतिहाम्; भेषजपेव भैषज्यम् ॥ द२७ ॥

देवतान्तात्तादर्थ्ये यत् ॥ द२८ ॥ अ० ५ । ४ । २४ ॥

देवता शब्द जिसके अन्त में हो, उस चतुर्थीसमर्थ प्रातिपदिक से, प्रत्ययार्थ प्रकृत्यर्थ के लिये होते, तो यत् प्रत्यय होते । जैसे—अग्निदेवतायै इदम् अग्निदेवत्यम्; पितृदेवत्यम्; मातृदेवत्यम्; बायुदेवत्यम् इत्यादि ॥ द२८ ॥

अतिथेऽर्यः ॥ द२९ ॥ अ० ५ । ४ । २६ ॥

तादर्थ्य अर्थ में, चतुर्थीसमर्थ अतिथि प्रातिपदिक से इय प्रत्यय हो । जैसे—अतिथये इदमातिथ्यम् ॥ द२९ ॥

देवात्तल् ॥ द३० ॥ अ० ५ । ४ । २७ ॥

देव शब्द से स्वार्थ में तल् प्रत्यय होते । जैसे—देव एव देवता ॥ द३० ॥

लोहितान्मणौ ॥ द३१ ॥ अ० ५ । ४ । ३० ॥

मणिवाची लोहित शब्द से स्वार्थ में कन् प्रत्यय हो । जैसे—लोहितो मणिः लोहितकः ।

‘मणि’ ग्रहण इसलिये है कि—लोहितः, यहां प्रत्यय न हो ॥ द३१ ॥

वा०—लोहिताल्लिङ्गवाधनं वा ॥ द३२ ॥

लोहित शब्द से प्रतिपदविधि में कन् प्रत्यय के वलवान् होने से खीलिङ्ग में तकार को नकार आनेश नहीं प्राप्त है, इसलिये यह वार्तिक पढ़ा है कि—

लोहित शब्द से कन् प्रत्यय नकारादेश का वाधक विकल्प करके होते । उसे—लोहितिका, लोहितिका ॥ द३२ ॥

**वा०-अक्षरसमूहे छन्दसि यत् उपसंख्यानम् ॥ ८३३ ॥**

अक्षरों के समूह अर्थ में वेदविपय में यत् प्रत्यय होते। जैसे—एष वै सप्तदशाक्षर-शब्दस्यः प्रजापतिः, यदां छन्दस्य शब्द में यत् प्रत्यय हुआ है ॥ ८३३ ॥

**वा०-छन्दसि वहुभिर्वसठयैरुपसंख्यानम् ॥ ८३४ ॥**

वेद में वसु शब्द से यत् प्रत्यय होते। जैसे—हस्तैः पृणाम् वहुभिर्वसव्यैः, यदां वसव्य शब्द में यत् प्रत्यय हुआ है ॥ ८३४ ॥

**वा०-अपस्, ओक, कवि, उदक, वर्चस्, निष्केवल, उक्थ, जन इत्येतेभ्यश्च वा ॥ ८३५ ॥**

यदां चकार से छन्दसि और यत् की अनुवृत्ति आती है।

इन अपस् आदि प्रातिपदिकों से वेद में स्वार्थिक यत् प्रत्यय विकल्प करके होते। जैसे—अपस्यो वसानाः; अपो वसानाः; स्व ओक्ये, स्व ओकः; कव्योऽसि, कविरसि; [उदक्यम्, उदकम्] वर्चस्य; वर्चः; निष्केवलम्, निष्केवलम्; उक्थ्यम्, उक्थम्; जनम्; जनम् ॥ ८३५ ॥

**वा०-समादावतुः ॥ ८३६ ॥**

सम शब्द से स्वार्थ में आवतु प्रत्यय होते। जैसे—समावद्वस्ति, समावद् गृह्णाति इत्यादि ॥ ८३६ ॥

**वा०-नवस्य नूलतनप्लवाश्च ॥ ८३७ ॥**

नव शब्द को नूल आदेश और उससे स्वार्थ में ल्प्, तनप् तथा ख प्रत्यय होते। जैसे—नूलम्; नूलनम्; नवीनम् ॥ ८३७ ॥

**वा०-नश्च पुराणे श्रात् ॥ ८३८ ॥**

प्राचीन अर्थ में वर्तमान प्र शब्द से न प्रस्तय, और चकार से ल्प् तनप् और ख प्रस्तय भी होते। जैसे—प्रणम्; प्रलम्; प्रतनम्; प्रीणम् ॥ ८३८ ॥

**तद्युक्तात्कर्मणोऽप्ण ॥ ८३९ ॥ ॐ ५ । ४ । ३६ ॥**

यदां पूर्व सूत्र से अव्याहृतवाणी की अनुवृत्ति आती है।

व्याहृतवाणी के युक्त—योग्य—कर्म शब्द से स्वार्थ में अण् प्रत्यय होते। जैसे—कर्मेव कार्मणम्। वाणी को सुन के वैसे ही जो कर्म किया जावे उसको ‘कार्मण’ कहते हैं ॥ ८३९ ॥

**वा०-अणप्रकरणे कुलालवरुडनिषादचरणालामित्रेभ्यश्छन्दस्युप-संख्यानम् ॥ ८४० ॥**

कुलाज्ञ, वरुड, निषाद, चरणाल और अमित्र प्रातिपदिकों से भी वेद में अण् प्रत्यय कहना चाहिये। जैसे—कौलालः; वारुडः; नैषादः; चारणालः; आमित्रः ॥ ८४० ॥

**वा०-भागरूपनामभ्यो धेयः ॥ ८४१ ॥**

भाग, रूप और नाम शब्दों से धेय प्रत्यय हो। जैसे—भागधेयम्; रूपधेयम्; नामधेयम् ॥ ८४१ ॥

**वा०-मित्राच्छन्दास धेयः ॥ ८४२ ॥**

मित्र शब्द से वेदविषयक स्वार्थ में धेय प्रत्यय हो। जैसे—मित्रधेये यतस्म ॥ ८४२ ॥

**वा०-अण् मित्राच्च ॥ ८४३ ॥**

मित्र और अमित्र शब्दों से स्वार्थ में अण् प्रत्यय भी हो। जैसे—मित्रमेव मैत्रम् । अमित्र एव आमित्रः ॥ ८४३ ॥

**वा०-सान्नाय्यानुजावरानुपूकचातुष्प्राश्यराक्षोद्भैयातवैकृतवारि-**

**वस्कृतायायणायहायणसान्तपनानि निपात्यन्ते ॥ ८४४ ॥**

सान्नाय्य आदि शब्द स्वार्थिक अणप्रत्ययान्त लोक वेद में सर्वत्र निपातन किये हैं। जैसे— सान्नाय्यः; आनुजावरः; आनुपूकः; चातुष्प्राश्यः; राक्षोद्भः; वैयातः; वैकृतः; वारिवस्कृतः; आग्रायणः; आग्रहायणः; सान्तपनः ॥ ८४४ ॥

**वा०-आशीधसाधारणाद्ब्रू ॥ ८४५ ॥**

आशीध और साधारण शब्दों से स्वार्थ में अब्रू प्रत्यय हो। जैसे—आशीधम्; साधारणम् ॥ ८४५ ॥

**वा०-अपवस्मरुद्धयां छन्दस्यज् ॥ ८४६ ॥**

अपवस्म और मरुत् शब्दों से स्वार्थ में अब्रू प्रत्यय हो। जैसे—आपवस्मे वर्द्धन्तम्; मारुतं शब्दः ॥ ८४६ ॥

**वा०-नवसूरमर्त्तयविषेभ्यो चत् ॥ ८४७ ॥**

यहाँ भी पूर्व वार्त्तिक से छन्द की अनुवृत्ति समझनी चाहिये।

नव, सूर, मर्त्त, और यविष्ठ शब्दों से स्वार्थ में यत् प्रत्यय होते। जैसे—नवयः; सूर्यः; मर्त्तः; यविष्ठयः ॥ ८४७ ॥

**वा०-क्षेमायः ॥ ८४८ ॥**

क्षेम शब्द से स्वार्थ य में प्रत्यय हो। जैसे—क्षेम्यस्तिष्ठन् प्रतरणः सुवीरः, यहाँ चत् और य प्रत्यय में केवल स्वर का भेद है, रूपभेद नहीं ॥ ८४८ ॥

**ओषधेरजातौ ॥ ८४९ ॥ अ० ५ । ४ । ३७ ॥**

ओषधि शब्द से जाति अर्थ न होते, तो स्वार्थ में अण् प्रत्यय हो। जैसे—ओषधं पिषति, ओषधं ददाति इत्यादि ॥ ८४९ ॥

**मृदस्तिकन् ॥ द५० ॥ अ० ५ । ४ । ३६ ॥**

मृत् शब्द से स्वार्थ में तिकन् प्रत्यय हो । जैसे—मृदेव मृत्तिका ॥ द५० ॥

**सत्त्वौ प्रशंसायाम् ॥ द५१ ॥ अ० ५ । ४ । ४० ॥**

प्रशंसा अर्थ में वर्तमान मृत् प्रतिपदिक से स्वार्थ में स और स्त्र प्रत्यय हों । जैसे—प्रशस्ता मृत् मृत्सा; मृत्सा ॥ द५१ ॥

**वहूल्पार्थच्छस्कारकादन्यतरस्याम् ॥ द५२ ॥ अ० ५ । ४ । ४२ ॥**

यहाँ शस् प्रत्यय की किसी सूत्र से प्राप्ति न होने से यह अप्राप्तिभाषा समझनी चाहिये ।

कारकवाची वहु अल्प और इनके अर्थ के शब्दों से विकल्प करके शल् प्रत्यय होवे ।

किसी कारक का यहाँ विशेष निर्देश नहीं किया, इससे कर्मादि सब कारकों का ग्रहण होता है । जैसे—वहूनि ददाति, वहूशो ददाति; अल्पं ददाति, अल्पशो ददाति; वहूभिर्ददाति, वहूशो ददाति; अल्पेन, अल्पशो ददाति; वहूभ्यः, वहूशः; अल्पशः; वहूनां वहूपु वा वहूशः; अल्पस्य, अल्पे वा अल्पशः । इनके अर्थ के—भूरिशो ददाति; स्तोकशो ददाति इत्यादि ।

यहाँ ‘वहु तथा अल्पार्थों का’ ग्रहण इसलिये है कि—गां ददाति; अश्वं ददाति इत्यादि से शस् प्रत्यय न होवे ॥ द५२ ॥

**वा०—वहूल्पार्थन्मङ्गलामङ्गलवचनम् ॥ द५३ ॥**

वहु और अल्प शब्दों से जो प्रत्यय विधान किया है, वहाँ वहु से मङ्गल और अल्प शब्द से अमङ्गल अर्थ में होवे ।

यह वार्तिक सूत्र का शेष है, इसलिये उक्त उदाहरण ही समझने चाहियें। अर्थात्—वहूशो ददाति, यह प्रयोग अनिष्ट के वहूत देने में न होवे । और—अल्पशो ददाति, वह भी इष्ट के देने में प्रयोग न किया जावे ॥ द५३ ॥

**प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ॥ द५४ ॥ अ० ५ । ४ । ४४ ॥**

कर्मप्रवचनीयसंश्लक प्रति शब्द के योग में जहाँ पञ्चमी विभक्ति की है, उस विभक्त्यंत प्राप्तिपदिक से तसि प्रत्यय होवे । जैसे—प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति; अभिमन्युर्जुनतः प्रति ।

यहाँ पूर्व से विकल्प की अनुवृत्ति चली आने से वासुदेवातः अर्जुनात् ऐसा भी प्रयोग होता है ॥ द५४ ॥

**वा०—तसिप्रकरणे आद्यादीनामुपसंख्यानम् ॥ द५५ ॥**

इस प्रकरण में आद्यादि शब्दों से तसि प्रत्यय कहना चाहिये । जैसे—आदी आदितः; मध्यतः; अन्ततः; पार्वतः; पृष्ठतः इत्यादि ॥ द५५ ॥

कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्त्तरि चिवः ॥ द५६ ॥ अ० ५ । ४ । ५० ॥

संपूर्वक पद धारु के कर्त्ता अर्थे में वर्तमान प्रातिपदिक से कृ, भू और अस्ति धारुओं के योग में चिव प्रत्यय होते ॥ ८६ ॥

### वा०-चिवविधावभूतद्वावग्रहणम् ॥ द५७ ॥

यह वार्तिक सूत्र का शेष समझना चाहिये । जो पदार्थ प्रथम कारण स्वर से अप्रसिद्ध हो, और पीछे कार्यस्त्रप से प्रकट किया जावे, उसको 'अभूतद्वाव' कहते हैं ।

इस अभूतद्वाव अर्थ में उक्त सूत्र से चिव प्रत्यय कहा है, सो होते । जैसे—अशुक्ल शुक्ल सम्पद्यते तं करोति शुक्लीकरोति, अर्थात् जो पदार्थ प्रथम से भलीन है, उसको शुद्ध करता है; शुक्लीभवति: शुक्लीस्यात्; कठिनीकरोति; कठिनीभवति; कठिनीस्यात्; वर्टीकरोति; वर्टीभवति; वर्टीस्यात् इत्यादि ।

प्रयोजन यह है कि जो पदार्थ अपनी प्रथमावस्था में जिस स्वरप से वर्तमान हो, उसी अवस्था के साथ इस प्रत्ययार्थी की विवज्ञा समझनी चाहिये । और इस प्रत्यय के विना लोक में सिद्ध पदार्थों का कहना बह सकता है, कि जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसे ही स्वरप से वर्णन करें ।

यहाँ 'अभूतद्वाव' ग्रहण इसलिये है कि—सम्पद्यन्ते ववाः; सम्पद्यन्ते शाक्यः, यहाँ चिव प्रत्यय न होते । 'अभूतद्वाव' धारुओं का योग इसलिये कहा है कि—अशुक्ल शुक्ल जायते, यहाँ न हो । और 'संपूर्वक पद धारु के कर्त्ता' का ग्रहण इसलिये है कि—गृहे संयुक्ते, यहाँ भी चिव प्रत्यय न होते ॥ ८७ ॥

### वा०-समीपादिभ्य उपसंख्यानम् ॥ द५८ ॥

समीप आदि शब्दों से सी पूर्वोक्त अर्थों में चिव प्रत्यय होते । जैसे—असमीपस्यं समीपस्यं भवति समीपीभवति; अस्याशीभवति; अन्तिकीभवति; सविधीभवति इत्यादि ।

यहाँ प्रकृति से विकार का होना नहीं है, इस कारण प्रत्यय की प्राति नहीं है ॥ ८८ ॥

### विभाषा साति कात्स्न्ये ॥ द५९ ॥ अ० ५ । ४ । ५२ ॥

यहाँ चिव प्रत्यय को छोड़ के पूर्व सूत्र से सब पदों की अनुवृत्ति आर्ती है ।

संपूर्वक पद धारु के कर्त्ता में वर्तमान प्रातिपदिकों से कृ भू और अस्ति धारु का योग हो, तो अभूतद्वाव अर्थे में संपूर्णता विदित होते, तो साति प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे—भलसाद्वति काष्ठम्, भलसाकरोति, भलसात्व्यात्, भलीभवति, भली-स्यात्, उद्कसाद्वति लवणम्, उद्कीभवति लवणम् इत्यादि । प्रकृति संपूर्ण विकार स्वर हो जावे ।

यह सूत्र चिव प्रत्यय का अपवाद और यहाँ अप्रातिभाषा है । पक्ष में चिव प्रत्यय भी हो जाता है । यहाँ 'संपूर्णता' ग्रहण इसलिये है कि—एकद्वयेन पटः शुल्कीभवति, यहाँ प्रत्यय न होते ॥ ८९ ॥

देवमनुष्यपुरुषपुरुषस्त्वेभ्यो द्वितीयासतस्योर्वहुलम् ॥ ८६० ॥  
अ० ५ । ४ । ५६ ॥

यद्यां से साति प्रत्यय निवृत्त हुआ, और वा प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है।

द्वितीया और सतर्मासमर्थ देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु और मर्त्य प्रातिपदिकों से वहुल करके स्वार्थ में वा प्रत्यय होते। जैसे—देवान् सत्करोति, देवता सत्करोति; देवेषु वसति, देवता वसति; मनुष्यान् गच्छति, मनुष्यता गच्छति; मनुष्येषु वसति, मनुष्यता वसति; पुरुषं ध्यायति, पुरुषता ध्यायति; पुरुषन् गृह्णाति, पुरुषता गृह्णाति; पुरुषु वसति, पुरुषता वसति; मर्त्यान् मर्त्येषु वा मर्त्यता इत्यादि।

यद्यां ‘वहुल’ शब्द के ग्रहण से अनुकूल शब्दों से भी वा प्रत्यय हो जाते। जैसे—वहुता जीवतो मतः इत्यादि ॥ ८६० ॥

अव्यक्तानुकरणाद्वयजवरार्द्धादनितो डाच् ॥ ८६१ ॥ अ० ५ । ४ । ५७ ॥

यद्यां कृ भू और अस्ति धातुओं के योग की अनुवृत्ति आती है। जिस घनि में अकारादि वर्ण पृथक् २ स्थृत नहीं जाते जाते उसको ‘अव्यक्त’ शब्द कहते हैं। उसी शब्द के अनुसार जो जनाया जाते कि वह अव्यक्त शब्द ऐसा हुआ, उसको ‘अव्यक्तानुकरण’ कहते हैं।

इति शब्द जिससे परे न हो, और जिसके एक अर्द्धभाग में दो अच्छौं, ऐसे अव्यक्तानुकरण प्रातिपदिक से कृ भू और अस्ति धातु के योग में डाच् प्रत्यय होते। जैसे— पटपटा करोति; पटपटा भवति; पटपटा स्यात्; दमदमा करोति; दमदमा भवति; दमदमा स्यात्; बलवला करोति; बलवला भवति; बलवला स्यात् इत्यादि।

यद्यां ‘अव्यक्तानुकरण’ ग्रहण इसलिये है कि—दृप्तकरोति, दृत्करोति इत्यादि में डाच् प्रत्यय न हो। ‘द्वयजवरार्द्ध’ ग्रहण इसलिये है कि—श्रत्करोति, यद्यां एकाच्च में न हो। और ‘अवर’ शब्द का ग्रहण इसलिये है कि—खरट खरट करोति, यद्यां अर्द्धभाग में तीन अच्छौं हैं, इससे डाच् प्रत्यय नहीं होता। और ‘इतिपरक का निपेध’ इसलिये है कि—पटिति करोति, यद्यां इति शब्द के परे डाच् प्रत्यय न हो।

( डाचि वहुल द्वे भवतः ) इस वाचिक में वियसतमी मान के डाच् प्रत्यय के होने की विवक्षा में ही द्विर्वचन हो जाता है, पश्चात् डाच् प्रत्यय होता है। जो कदाचित् ऐसा न समझें तो जिसके अवर अर्द्धभाग में दो अच्छौं, वह कहना ही न चाहे। डाच् प्रत्यय में डकार का लोप होकर डित् मान के दिलोप और चकार अनुवन्ध से अन्तोदात्तस्वर होता है ॥ ८६१ ॥

कुओ द्वितीयतृतीयशम्बवीजात्कृष्णौ ॥ ८६२ ॥ अ० ५ । ४ । ५८ ॥

यद्यां कृ भू धातु का ग्रहण भू और अस्ति धातु की निवृत्ति के लिये है।

द्वितीय तृतीय शम्भ और वीज प्रातिपदिक से खेती अर्थं अभियेय हो, तो कृज् धातु के योग में डाच् प्रत्यय होवे। जैसे—द्वितीया करोति, दूसरी बार खेत को जोतता है; तृतीया करोति, तीसरी बार जोतता है; शम्भा करोति, सीधा जोत के फिर तिरछा जोतता है; वीजा करोति, वीज बोने के साथ ही जोतता है।

यहां 'कृषि' ग्रहण इसलिये है कि—द्वितीयं करोति पादम्, यहां डाच् प्रत्यय न होवे॥८८॥

### संख्यायाश्च गुणान्तायाः ॥ ८८ ॥ अ० ५ । ४ । ५६ ॥

यहां कृज् धातु और कृषि अर्थं दोनों की अनुवृत्ति चली आती है।

गुण शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे संख्यावाची प्रातिपदिक से कृषि अर्थं में कृधातु के योग में डाच् प्रत्यय हो। जैसे—द्विगुणं विलेखनं द्वेष्ट्रस्य करोति द्विगुणा करोति क्षेत्रम्; त्रिगुणा करोति इत्यादि।

यहां 'कृषि' ग्रहण इसलिये है कि—द्विगुणं करोति रजुम्, यहां डाच् प्रत्यय न हो। पूर्व सूत्र में द्वितीय तृतीय शब्दों के साथ इस सूत्र का शब्दभेद ही ज्ञात होता है, अर्थभेद नहीं॥८८॥

### समयाच्च यापनायाम् ॥ ८९ ॥ अ० ५ । ४ । ६० ॥

यहां कृषि की अनुवृत्ति नहीं आती, परन्तु कृज् धातु की चली आती है।

करने योग्य कर्मों के अवसर मिलने को 'समय' कहते हैं, उस समय के यापना=अतिक्रमण अर्थं में समय शब्द से कृज् धातु के योग में डाच् प्रत्यय होवे। जैसे—समया करोति, कालज्ञेष करता है।

यहां 'यापना' ग्रहण इसलिये है कि—समयं करोति मेघः, यहां डाच् प्रत्यय न हो॥८९॥

### मद्रात्परिवापणे ॥ ९० ॥ अ० ५ । ४ । ६७ ॥

मङ्गलवाची मद्र शब्द से परिवापण=मुराडन अर्थं में कृज् धातु का योग होवे, तो डाच् प्रत्यय हो। [ जैसे— ] मङ्गलं मुराडनं करोति मद्राकरोति।

यहां 'परिवापण' इसलिये कहा है कि—मद्रं करोति, यहां डाच् प्रत्यय न हो॥९०॥

### वा०—भद्राच्च ॥ ९१ ॥

भद्र शब्द से भी परिवापण अर्थं में कृज् धातु का योग हो, तो डाच् प्रत्यय हो। जैसे—भद्रा करोति नापितः कुमारम्।

यहां भी परिवापण अर्थ से पृथक्—भद्रं करोति, यही प्रयोग होता है॥९१॥

—इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः॥

[ इति पञ्चमाध्यायः समाप्तः॥ ]

**नस्तद्विते ॥ ८६७ ॥ अ० ६ । ४ । १४४ ॥**

तद्वितसंब्रक प्रत्यय परे हों, तो नकारान्त भसंब्रक अङ्ग के टिभाग का लोप होवे । जैसे—अग्निशम्रणोऽपत्यमाग्निशम्भिः; औहुलोमिः इत्यादि, यदां अग्निशम्भन् आदि शब्दों का वाहादिगण में पाठ होने से इन् प्रत्यय हुआ है ।

यदां ‘नान्त’ का ग्रहण इसलिये है कि—सात्वतः, यदां तकारान्त के टिभाग का लोप न होवे । और ‘तद्वित’ ग्रहण इसलिये है कि—शम्भणा, शम्भणे इत्यादि प्रयोगों में लोप न हो ॥ ८६७ ॥

**वा०-नांतस्य टिलोपे सब्रह्मचारिषीठसर्पिकलापिकोथुमितैतिलिजाज-**  
**लिलाङ्गलिशिलालिशिखरिडसूकरसद्वसुपर्वणामुपसंख्यानम् । ८६८ ॥**

यदां इन्नन्त और अज्ञन्त शब्दों में आगामी सूत्रों से प्रकृतिभाव प्राप्त है, उसका पुरस्तात् अपवाद यह वार्चिक है ।

तद्वित प्रत्ययों के परे सब्रह्मचारिन् आदि भसंब्रक नकारान्त प्रातिपदिकों के टिभाग का लोप होवे । जैसे—सब्रह्मचारिण इमे छावाः सब्रह्मचाराः—यदां सब्रन्थसामान्य में शैषिक अणु प्रत्यय हुआ है; पीठसर्पिण इमे छावाः पैठसर्पाः—यदां भी पूर्व के समान अणु; कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः—यदां (कलापिनोऽणु) इस सूत्र से प्रोक्त अर्थ में अणु; कीथुमिना प्रोक्तमधीयते कीथुमाः—यदां भी पूर्ववत् अणु जानो ।

तैतिलिनामकं ग्रन्थमधीयते विदुर्वा तैतिलाः; जाजलाः; लाङ्गलाः; शैखण्डाः; सूकरसद्वना प्रोक्तमधीयते सौकरसद्वाः; सुपर्वणा प्रोक्तमधीयते सौपर्वाः—यदां तैतिलि आदि ग्रन्थवाची शब्दों से शैषिक प्रोक्त अर्थ में बुद्ध होने से छु प्रत्यय प्राप्त है, इसलिये अधीत वेद अर्थ में अणु समझना चाहिये । और सूकरसद्वन् तथा सुपर्वन् शब्दों से बृद्धसंघा के न होने से प्रोक्तार्थ अणु प्रत्यय होता है ॥ ८६८ ॥

**वा०-चर्मणः कोश उपसंख्यानम् ॥ ८६९ ॥**

कोश-तलवार का घर अर्थ हो, तो तद्वितसंब्रक प्रत्ययों के परे होते चर्मन् शब्द के टिभाग का लोप होवे । जैसे—चर्मणो विकारः कोशः चार्मः कोशः ।

जदां कोश अर्थ न हो वदां—चार्मणः, प्रयोग होगा ॥ ८६९ ॥

**वा०-अश्मनो विकार उपसंख्यानम् ॥ ८७० ॥**

विकार अर्थ में तद्वित प्रत्यय परे हों, तो पापाणवाची अश्मन् शब्द के टिभाग का लोप हो । जैसे—अश्मनो विकार आश्मः ।

जहां विकार अर्थ न हो वहां—आशमनः, ऐसा ही रहे ॥ ८७० ॥

### वा०-शुलः संकोच उपसंख्यानम् ॥ ८७१ ॥

कुत्ते के बाची श्वन् शब्द के टिभाग का लोप हो, संकोच अर्थ अभिधेय रहे तो । [जैसे—] संकुचितः श्वा शौबः । इस श्वन् शब्द का द्वारादिगण में पाठ होने से वकार से पूर्व ऐच् का आगम हो जाता है ।

और संकोच अर्थ से अन्यत्र—शौबः, ऐसा ही प्रयोग होगा ॥ ८७१ ॥

### वा०-अव्ययानां च सायम्प्रातिकाद्यर्थम् ॥ ८७२ ॥

तद्वितसंब्रक प्रत्ययों के परे सायम्प्रातिक आदि शब्दों के सिद्ध होने के लिये भसंब्रक अव्यय शब्दों के टिभाग का भी लोप कहना चाहिये । जैसे—सायम्प्रातर्भवः सायम्प्रातिकः; पौनःपुनिकः इत्यादि ।

यहां द्वन्द्वसंब्रक अव्ययों से उत्तर होता है । शाश्वतिक शब्द में निपातन मान के टिलोप नहीं होता । (येदां च विरोधः शाश्वतिकः) जिन अव्यय शब्दों में अविहिते टिलोप दीखता है, वहां वैसे ही अव्ययों में समझना चाहिये । क्योंकि शाश्वतम् इत्यादि में द्वन्द्व किये अव्यय और उत्तर प्रत्यय दोनों ही नहीं, इससे लोप नहीं होता ॥ ८७२ ॥

### अहृष्टखोरेव ॥ ८७३ ॥ अ० ६ । ४ । १४५ ॥

यह सूत्र नियमार्थ है । उ और ख इन्हीं दोनों प्रत्ययों के परे अहन् शब्द के टिभाग का लोप होते, अन्यत्र प्रकृतिभाव ही हो जाते । जैसे—द्वे अहनी समाहृते द्वच्यहः; त्यहां; यहां समासान्त टच् प्रत्यय हुआ है; द्वे अहनी अधीष्ठो भूतो भूतो भावी वा द्वच्यहीनः; त्यहीनः; अहां समूहोऽहीनः क्रतुः ।

यहां ‘टिलोप’ का नियम इसतिये है कि—अहा निर्वृत्तमाहिकम्, यहां नियम के होने से टिलोप न होते ॥ ८७३ ॥

### ओर्गुणः ॥ ८७४ ॥ अ० ६ । ४ । १४६ ॥

तद्वितसंब्रक प्रत्यय परे हो, तो उवर्णन्त भसंब्रक प्रातिपदिकों को गुण होते । जैसे—वश्चोर्गोत्रापत्यं वान्नव्यः; माएडव्यः; शङ्कवे द्वितं शङ्कव्यं दारु; पिचव्यः कार्पासः; कमरडलव्या मृत्तिका; परशव्यमयः; ओपगवः; कापटवः इत्यादि ।

पूर्वलिखित तद्वितप्रत्ययविधान प्रकरण में सर्वत्र गुण तथा अन्य कार्य जो २ यहां कहें, समझने चाहियें । और इस सूत्र को इसी ग्रन्थ के ३२ पृष्ठ में भी लिख चुके हैं, परन्तु विशेष व्याख्यानार्थ यहां लिखना आवश्यक समझा गया ॥ ८७४ ॥

दे लोपोऽक्रद्वाः ॥ ८७५ ॥ अ० ६ । ४ । १४७ ॥

तद्वितसंब्लक ह प्रत्यय परे हो, तो कहु शब्द को छोड़ के भसंज्ञक प्रातिपदिक के उवर्ण का लोप होवे । जैसे—कमण्डल्वा अपत्यं कामण्डलेयः; शैतिवाहेयः; जास्वेयः; माद्रवाहेयः इत्यादि ।

यहाँ ‘कहु शब्द का निषेध’ इसलिये है कि—काद्रवेय ऋषि, यहाँ लोप न हो, किन्तु पूर्व सूत्र से गुण हो जावे । और यह लोप मुण का ही अपवाद है ॥ ८७५ ॥

यस्येति च ॥ ८७६ ॥ अ० ६ । ४ । १४८ ॥

यहाँ तद्वित का अनुवृत्ति के लिये चकार पढ़ा है ।

तद्वितसंब्लक और ईकार प्रत्यय परे हों, तो इवर्णान्त अवर्णान्त भसंज्ञक प्रातिपदिक का लोप हो । जैसे—इवर्णान्त का लोप ईकार के परे—दक्षस्यापत्यं द्वी दाक्षी; साक्षी इत्यादि ।

यहाँ जो सर्वर्णदीर्घ एकादेश मान लेवे तो—हे दाक्षि, यहाँ सर्वर्णदीर्घ एकादेश वर्णकार्य से सम्बुद्धि में हस्त होना अहङ्कार्य बलवान् होने से प्रथम हो जाता है, फिर जो लोप न कहें तो ऐसे सर्वर्णदीर्घ एकादेश होकर सम्बुद्धि में भी दीर्घ ईकार बना रहे । इसलिये ईकार प्रत्यय के परे इवर्णान्त का लोप कहा है ।

इवर्णान्त का लोप तद्वितप्रत्ययों के परे—दुल्या अपत्यं दीज्ञेयः; वलि—वालेयः; अवि—आव्रेयः इत्यादि । अवर्णान्त का लोप ईकार प्रत्यय के परे—कुमारी; किशोरी; गोरी; जानपदी इत्यादि । तद्वितप्रत्यय के परे—दाक्षिः; साक्षिः; बलाकाया अपत्यं वालाकिः; सुमित्राया अपत्यं सोमिनः इत्यादि ।

यहाँ सर्वश लोप को आदेश मान के अन्त्य अत् इवर्ण और उवर्ण का लोप होता है । यह भी सूत्र ( ओर्गुणः ) इसी के समीप पूर्व लिख चुके हैं, परन्तु उसी का सा लिखना इसका भी जानो ॥ ८७६ ॥

वा०-यस्येत्यादौ श्यां प्रतिषेधः ॥ ८७७ ॥

( यस्येति च ) इत्यादि सूत्रों में ओ विभक्ति के स्थान में जो शी आदेश होता है, उस ईकार के परे इवर्ण अवर्ण के लोप का निषेध करना चाहिये । जैसे—काएङ्गे; सूङ्गे; यहाँ ज्व नपुंसक काएङ्ग और शृङ्ग शब्दों से परे ओ के स्थान में शी हो जाता है, तब अवर्ण का लोप प्राप्त है, सो न हो ।

ओर—कुड्ये; सौर्ये, यहाँ भी पूर्व के समान अवर्ण का लोप और आगामी सूत्र से उपधासंब्लक यकार का लोप प्राप्त है, सो न होवे ।

जैसे श्रियोः श्रियः; भ्रुवोः भ्रुवः इत्यादि में इयङ् उवङ् आदेश होते हैं, जैसे ही—वत्सान् प्रीणातीति वत्सप्रीः, लेखाभ्रूः, तस्या अपत्यं वात्सप्रेयः; लैखाभ्रेयः इत्यादि में भी इयङ् उवङ् आदेश प्राप्त हैं, परन्तु परविप्रतिपेष्ठ मान के इवर्ण उवर्ण का लोप हो जाता है ॥ द७७ ॥

### सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ॥ द७८ ॥ अ० ६।४।१४६॥

तद्वितसंब्रक और ईकार प्रत्यय परे हो, तो सूर्य, तिष्य, अगस्त्य और मत्स्य शब्दों के उपधाभूत भसंब्रक यकार का लोप हो जावे । और अवर्ण का लोप तो पूर्वसूत्र से हो ही जाता है ।

जैसे—सूर्येण एकदिक् सौरी वलांका, यहाँ उपधाग्रहण ज्ञापक से अवर्ण का लोप असिद्ध नहीं समझा जाता; तिष्येण युक्तः कालः तैपमद्वः; तैपी रात्री; अगस्त्यस्यापत्य कन्त्या—इस विश्रह में कृपिवाची अगस्त्य शब्द से अणु प्रत्यय हो जाता है=अगस्ती; आगस्तीयः । मत्स्य शब्द के गौरादि गण में होने से डीप् हो जाता है=मत्सी ।

‘उपधा’ ग्रहण इसलिये है कि—सूर्यचरी, यहाँ सूरी शब्द से भूतपूर्व अर्थ में चरट् प्रत्यय के परे पुंवद्भाव हुआ है । स्थानिवत् मान के यकार का लोप प्राप्त है, उपधा के न होने से नहीं होता, इत्यादि ॥ द७८ ॥

### वा०—मत्स्यस्य ड्याम् ॥ द७९ ॥

डीप् प्रत्यय के परे ही मत्स्य शब्द के उपधा यकार का लोप हो, अन्यत्र नहीं । जैसे—मत्सी । नियम होने से—मत्स्यस्य विकारो मात्स्यं मांसम्, यहाँ न हो ॥ द७९ ॥

### वा०—सूर्यागस्त्ययोश्छेच ॥ द८० ॥

छ और डीप् डीप् प्रत्यय के परे ही सूर्य और अगस्त्य शब्दों के यकार का लोप हो । जैसे—सौरीयः, सौरी, आगस्तीयः, आगस्ती ।

नियम होने से—सूर्यो देवताऽस्य सौर्यं हविः; अगस्त्यस्य गोत्रापत्यमागस्त्यः, यहाँ न होवे ॥ द८० ॥

### वा०—तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि ॥ द८१ ॥

यहाँ स्वरूपग्रहणपरिभाषा का आश्रय इसलिये नहीं होता जिसलिये वार्त्तिक पढ़ा है । अर्थात् स्वरूपग्रहण के न होने में वार्त्तिक ज्ञापक है ।

तद्वितसंब्रक और ईकार प्रत्यय परे हो, तो तिष्य और पुष्य शब्दों के उपधा यकार का लोप होवे, अन्य पर्यायवाची का नहीं । जैसे—तिष्यनक्षत्रेण युक्तः कालः तैपः; पौपः ।

नियम इसलिये है कि—सैव्यः, यहाँ लोप न हो ॥ द८१ ॥

## वा०-अन्तिकस्य तसि कादिलोपश्चाद्युदात्तश्च ॥ ८८२ ॥

अन्तिक शब्द से तसि प्रत्यय परे हो, तो कादि—स्वरसहित ककार—का लोप और आद्युदात्तस्वर होवे। जैसे—अन्तितो न दूरात् ।

तसि प्रत्यय को प्रत्ययस्वर होने से अन्तोदात्त होता, इसलिये आद्युदात्त कहा है। और अन्तिक शब्द से अपादान कारक में असि प्रत्यय होता है ॥ ८८२ ॥

## वा०-तमे तादेश्च ॥ दद३ ॥

यहां चकार ग्रहण से कादि की भी अनुवृत्ति आती है।

तम प्रत्यय परे हो, तो अन्तिक शब्द तादि—तिक—भाग तथा कादि—क—मांव का लोप होवे। जैसे—अतिशयेनान्तिकम् अन्तमः; अन्तिमः; अग्ने त्वज्ञो अन्तमः; अन्तितमे अवरोहति ।

यद्यपि इस वार्त्तिक में छन्दोग्रहण नहीं किया, तथापि वैदिक प्रयोगों में ही वहुधा इसकी प्रवृत्ति दीख पड़ती है। इससे पूर्व वार्त्तिक में जो तसि प्रत्यय का ग्रहण है, उसकी महामाघकार ने उपेक्षा की है कि—‘अन्तिके सीद्धिं अन्तिष्ठू’ इत्यादि प्रयोगों में भी कादिलोप हो जावे ॥ दद३ ॥

## हलस्तद्वितस्य ॥ दद४ ॥ अ० ६ । ४ । १५० ॥

हल् से परे जो तद्वितसंज्ञक प्रत्यय का उपधा यकार, उसका लोप होने, ईकार प्रत्यय परे हो तो । जैसे—गर्गस्यापत्यं कन्या गार्गी; वात्सी; शाकली इत्यादि ।

यहां ‘हल्’ ग्रहण इसलिये है कि—वैद्यस्य खी वैदी, यहां भी यकार का लोप न हो ॥ दद४ ॥

## आपत्यस्य च तद्वितेऽनाति ॥ दद५ ॥ अ० ६ । ४ । १५१ ॥

आकार जिसके आदि में न हो ऐसा तद्वितसंज्ञक प्रत्यय परे हो, तो हल् से परे अपत्याधिकारस्य प्रत्यय के उपधा यकार का लोप होवे ।

और इस सूत्र में किर ‘तद्वित’ ग्रहण से यह भी समझना चाहिये कि ईकार प्रत्यय परे हो, तो अपत्यसंज्ञक से भिन्न यकार का भी लोप हो जाता है। जैसे—गर्गाणां समूहो गार्गकम्; वात्सकम्; सोमो देवताऽस्य सौम्यं हविः; सोमी इष्टिः ।

‘आपत्य’ ग्रहण इसलिये है कि—सांकाशयकः; काम्पिल्यकः, यहां लोप न हो। ‘आकारादि का निषेध’ इसलिये है कि—गार्ग्यायणः; वात्स्यायनः, यहां लोप न हो। और ‘हल् से परे’ इसलिये कहा है कि—कारिकेयस्य युवापत्यं कारिकेयः, यहां भी लोप न होवे ॥ दद५ ॥

**क्यच्छ्योश्च ॥ दद६ ॥ अ० ६ । ४ । १५२ ॥**

क्य और चिंह प्रत्यय परे हों, तो भी हल् से परे अपत्यसंज्ञक यकार का लोप होवे । जैसे—गार्ग्य इवाचरति गार्गीयति; वात्स्य इवाचरति वात्सीयति; शाकलीयति; गार्गीयते; वात्सीयते; शाकलीयते इत्यादि । चिंह प्रत्यय के परं—गार्गीभूतः; वात्सीभूतः; शाकली-भूतः इत्यादि ।

यहाँ अपत्यसंज्ञक 'यकार' का प्रहण इसलिये है कि—सांकाश्यायते; सांकाश्यीभूतः; यहाँ लोप न हो । और 'हल् से परे' इसलिये कहा है कि—कारिकेयीयति; कारिकेयीभूतः; यहाँ भी यकार का लोप न होवे ॥ दद६ ॥

**विल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् ॥ दद७ ॥ अ० ६ । ४ । १५३ ॥**

( नडादीनां कुक् च ) इस सूत्र पर नडादिगण के अन्तर्गत विल्वादि शब्द पढ़े हैं । उनको कुक् का आगम होने से विल्वक आदि होते हैं ।

विल्वक आदि शब्दों से परे छ प्रत्यय का लुक् हो, तद्वितसंज्ञक प्रत्यय परे हों तो । जैसे—विल्वा अस्यां सन्तीति विल्वकीया—तस्यां भवाः वैल्वकाः; वैरुकीया—वैरुकाः; वैत्रकीयाः—वैत्रकाः इत्यादि ।

यहाँ 'छ' प्रत्यय का प्रहण इसलिये है कि—कुक् आगम का लुक् न होवे । अर्थात् ( सञ्चियोगशिष्टानां० ) इस परिभाषा से कुगागम के सहित लुक् प्राप्त है, सो न हो । और लोप की अनुवृत्ति चली आती है, फिर 'लुक्' प्रहण इसलिये किया है कि—संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो जावे । लुक् न कहते तो अन्त्य अल् के स्थान में होता ॥ दद७ ॥

**तुरिष्टेमेयस्सु ॥ दद८ ॥ अ० ६ । ४ । १५४ ॥**

पूर्व से यहाँ लुक् की अनुवृत्ति नहीं आती, किन्तु लोप की आती है । लुक् होने से अङ्गकार्य गुण का निषेध प्राप्त है । जो अन्त्य का लोप होवे, तो सूत्र ही व्यर्थ होवे, क्योंकि इ भाग का लोप तो अगले सूत्र से हो ही जाता ।

इषुन्, इमनिच् और ईयसुन् ये तद्वितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो तच् तन् प्रत्ययान्त शब्दों का लुक् होवे । प्रत्ययमात्र का लुक् कहा है, इसलिये सब का हो जाता है । जैसे—अतिशयेन कर्त्ता करिष्टः; भूशं विजेता विजिष्टः; वीढा विद्युषो वृपभः; दोहीयसी धेनुः इत्यादि । यहाँ इमनिच् प्रहण उत्तरार्थ है ॥ दद८ ॥

**टेः ॥ दद९ ॥ अ० ६ । ४ । १५५ ॥**

इषुन्, इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय परे हों, तो भसंज्ञक अङ्गों के टिभाग का लोप होवे । जैसे—अतिशयेन पदुः पटिष्ठः; लघिष्ठः; पटीयान्; लघीयान्; पटिमा; लघिमा इत्यादि ।

वह लोप गुण का अपचाव उवर्णान्त शब्दों में समझना चाहिये । अर्थात् गुण की प्राप्ति में लोपविधान किया है ॥ ८८६ ॥

## वा०-णाविष्टवत्प्रातिपदिकस्व पुंवद्भावरभावटिलोपयणादिपरप्रादि- विन्मतोर्लुक्कन्विध्यर्थम् ॥ ८६० ॥

ऐच् प्रत्यय के परे भस्त्रक प्रातिपदिकमात्र को इष्टवत् कार्य होवे, प्रयोजन यह है कि पुंवद्भाव, रभाव, टिलोप, यणादिपर, प्रादि आदेश, विन्मतोर्लुक्, और कन् प्रत्यय, ये विधि होने के लिये यह वार्तिक कहा है ।

जैसे—पुंवद्भाव—एनीमाचष्टे एतयति; श्येनीमाचष्टे श्येतयति । इष्टन् प्रत्यय के परे पुंवद्भाव कहा है, वैसे ही यहाँ ऐच् प्रत्यय के परे भी हो जाता है । इसी प्रकार सब कार्य जो इष्टन् के परे होते हैं, वे ऐच् प्रत्यय के परे भी समझना चाहिये ।

रभाव—पृथुमाचष्टे, प्रथयति; भ्रदयति । यहाँ ( रञ्जतो० ) इस आगामी सूत्र से इष्टन् के परे ऋक्कार को र आदेश कहा है, सो ऐच् के परे भी हो जाता है ।

टिलोप—पदुमाचष्टे पटयति; लशुमाचष्टे लघयति । यहाँ इसी ( दे० ) सूत्र से जो इष्टन् प्रत्यय के परे टिलोप कहा है, वह ऐच् प्रत्यय के परे भी हो जाता है ।

यणादिपर—स्यूलमाचष्टे स्यवयति; दूरमाचष्टे द्वयति इत्यादि । यहाँ अगले सूत्र से इष्टन् प्रत्यय के परे यत् को आदि लेके परभाग का लोप और पूर्व को गुणादेश कहा है, सो ऐच् प्रत्यय के परे भी हो जाता है ।

प्रादि—अगले सूत्र से इष्टन् प्रत्यय के परे प्रिय आदि शब्दों को प्र आदि आदेश कहे हैं, सो ऐच् प्रत्यय के परे भी हो जावे । जैसे—प्रियमाचष्टे प्रापयति; स्थिरमाचष्टे, स्यापयति । यहाँ प्रिय और स्थिर शब्दों को प्र, स्य आदेश होकर ( अचोऽन्धिगति ) सूत्र में अच् ग्रहण के होने से प्र, स्य को वृद्धि होकर पुगागम हो जाता है ।

विन्मतोर्लुक्—इस सूत्र से इष्टन् प्रत्यय के परे विन् और मतुप्रत्ययों का लुक् कहा है, सो ऐच् प्रत्यय के परे भी हो जावे । जैसे—ज्ञग्निवणमाचष्टे ज्ञजयति; वसुमन्तमाचष्टे वसयति । यहाँ वसु शब्द के उकार का भी लोप हो जाता है ।

कन्विधि—युव और अल्प शब्दों को इष्टन् प्रत्यय के परे कन् आदेश कह चुके हैं, सो ऐच् प्रत्यय के परे भी हो जावे । जैसे—युवानमाचष्टे—अल्पमाचष्टे कनयति; यवयति; अल्पयति इत्यादि ।

इस वार्तिक के उदाहरणों की गिनती नहीं करदी कि इतने ही स्थलों में इस का प्रयोजन है, किन्तु उदाहरणमात्र दिये हैं । और भी इसके बहुत प्रयोजन समझने चाहिये ॥ ८६० ॥

स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रकुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ॥८६१॥

अ० ६ । ४ । १५६ ॥

इष्टन्, इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय परे हों, तो स्थूल, दूर युव, हस्व, क्षिप्र और कुद्र शब्दों के यण् को आदि ले के परभाग का लोप और पूर्व को गुणादेश होवे ।

जैसे—अतिशयेन स्थूलः स्थविष्टः; स्थर्वीयान्; अत्यन्तं दूरं विष्टम्; दृष्टीयः । यहां स्थूल शब्द में त और दूर में र मात्र का लोप होजाता, और पूर्व लक्कार को गुण होकर अवादेश होता है । युवत्—अत्यन्तो युवा यवीयान्; यविष्टः । इन स्थूल आदि तीन शब्दों का पृथ्वादि गण में पाठ न होने से इमनिच् प्रत्यय नहीं होता ।

हस्व—हसिष्टः; हसीयान्; हसिमा । क्षिप्र—क्षेपिष्टः; क्षेपीयान्; क्षेपिमा; क्षोदिष्टः; क्षोदीयान्; क्षोदिमा । इन हस्व आदि तीन शब्दों का पृथ्वादिगण में पाठ होने से इमनिच् हो जाता है ।

यहां ‘पर’ ग्रहण इसलिये किया है कि—यण् को आदि ले के पूर्वभाग का लोप न हो जावे ॥ ८६१ ॥

प्रियस्थिरस्फरोहुच्छुलगुरुवृद्धतृप्रदीर्घवृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्वर्हि-  
र्गर्वर्धित्रच्छाधिवृन्दाः ॥ ८६२ ॥ अ० ६ । ४ । १५७ ॥

प्रिय, स्थिर, स्फर, उरु, वहुल, गुरु, वृद्ध, उप्र, दीर्घ और वृन्दारक शब्दों के स्थान में प्र, स्थ, स्फ, वर्, वंहि, गर्, वर्धि, वप्, द्राधि और वृन्द आदेश यथासंख्य करके होवें, इष्टन्, इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय परे हों तो ।

जैसे—प्रिय—प्र—अतिशयेन प्रियः प्रेष्टः; प्रेयान्; प्रियस्य भावः प्रेमा । स्थिर—स्थ—  
स्थेष्टः; स्थेयान् । स्फर—स्फ—स्फेष्टः; स्फेयान् । उरु—उर्—उरिष्टः; उरीयान्; उरिमा ।  
वहुल—वंहि—वंहिष्टः; वंहीयान्; वंहिमा । गुरु—गर्—गरिष्टः; गरीयान्; गरिमा । वृद्ध—  
वर्धि—वर्धिष्टः; वर्धीयान् । उप्र—उप्—उपिष्टः; उपीयान् । दीर्घ—द्राधि—द्राधिष्टः;  
द्राधीयान्; द्राधिमा । वृन्दारक—वृन्द—वृन्दिष्टः; वृन्दीयान् ।

प्रिय उरु गुरु वहुल और दीर्घ शब्द पृथ्वादि गण में पढ़े हैं, इस कारण उनसे इमनिच् प्रत्यय होता है, औरों से नहीं होता । इसीलिये उनसे इमनिच् प्रत्यय के उदाहरण भी नहीं दिये ॥ ८६२ ॥

वहालोंपो भू च वहोः ॥ ८६३ ॥ अ० ६ । ४ । १५८ ॥

वहु शब्द से परे जो इष्टन् इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय उनका लोप हो, और वहु शब्द को भू आदेश होवे ।

भू अनेकाल् आदेश होने से सध के स्थान में होता है। और (आदेश परस्य) इस परिभ्रापा सूच से पञ्चमीनिर्दिष्ट वहु शब्द से उत्तर को कहा लोपलप आदेश आदि अल के स्थान में होता है। जैसे—अतिशयेन वहुः भूयान्, भूयांसौ; भूयांसः; वहोभावः भूमा। वहु शब्द पृथ्वादिगण में पढ़ा है।

और इस सूच में वहु शब्द का दूसरी बार अहण इसलिये है कि—प्रत्ययों के स्थान में भू आदेश न हो जावे ॥ ८६३ ॥

इष्टन् प्रत्यय में विशेष यह है कि—

**इष्टस्य यित्रूच ॥ ८६४ ॥ अ० ६ । ४ । १५६ ॥**

वहु शब्द से परे जो इष्टन् प्रत्यय, उसको यित्रूका आगम और वहु शब्द को भू आदेश भी होवे। जैसे—अतिशयेन वहुः भूयिष्टः। यित्रू में से इत्रू मात्र का लोप हो जाता है। और यह आगम लोप का अपवाद है ॥ ८६४ ॥

**ज्यादादीयसः ॥ ८६५ ॥ अ० ६ । ४ । १६० ॥**

प्रशस्य और वृद्ध शब्द को जो ज्य आदेश कह चुके हैं, उससे परे ईयसुन् प्रत्यय के ईकार को आकारादेश होवे। जैसे—अतिशयेन प्रशस्यो वृद्धो वा ज्यायान्।

लोप की अनुवृत्ति यदां चली आती, तो आकारादेश कहना नहीं पड़ता, फिर वीच में यिडागम का व्यवधान द्वाने से नहीं आ सकती ॥ ८६५ ॥

**र चृतो हलादेलघोः ॥ ८६६ ॥ अ० ६ । ४ । १६१ ॥**

इष्टन्, इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय परे हों, तो हल् जिसके आदि में हो पेसे लघु-संघक हस्त ऋकार के स्थान में र आदेश हो। जैसे—अतिशयेन पृथुः प्रथिष्ठः; प्रथीयान्; पृथोभावः प्रथिमा; प्रदिष्टः; प्रदीयान्; प्रदिमा इत्यादि।

यदां ‘ऋकार’ का अहण इसलिये है कि—पटिष्ठः; पटीयान्; पटिमा, यदां र आदेश न हो। ‘हल् आदि में’ इसलिये कहा है कि—अतिशयेन ऋजुः ऋजिष्ठः; ऋजीयान्; ऋजिमा, यदां न हो। और ‘लघुसंघक’ विशेषण इसलिये दिया है कि—कृष्णिष्ठः; कृष्णीयान्; कृष्णिमा, यदां गुरुसंघक ऋकार को र आदेश न होवे ॥ ८६६ ॥

**वा०—पृथुमृदुभृशकृशद्वपरिवृढानामिति वक्तव्यम् ॥ ८६७ ॥**

इस वाचिक से परिगणन करते हैं कि पृथु, मृदु, भृश, कृश, द्वप और परिवृढ शब्दों के ऋकार को ही र आदेश हो, दूसरों को नहीं।

इस नियम के होने से—कृतमाचये कृतयति; मातरमाचये मातयति; भ्रातयति इत्यादि में ऋ के स्थान में र आदेश नहीं होता ॥ ८६७ ॥

**विभाषजोश्वन्दुसि ॥ ८६८ ॥ अ० ६ । ४ । १६२ ॥**

यहां अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि ऋजु शब्द के ऋकार को किसी से र आदेश प्राप्त नहीं है।

इष्टन्, इमनिच्च, और ईयस्तुन् प्रत्यय परे हो, तो वेदविषय में ऋजु शब्द के ऋकार को विकल्प करके र आदेश होते। जैसे—अतिशयेन ऋजुः रजिष्ठः, ऋजिष्ठो वा पन्थाः; रजीयान्, ऋजीयान् ऋजुमाचष्टे ऋजयति इत्यादि ॥ ८६८ ॥

**प्रकृत्यैकाच् ॥ ८६९ ॥ अ० ६ । ४ । १६३ ॥**

इष्टन्, इमनिच्च, और ईयस्तुन् प्रत्यय परे हो, तो भसंडक एकाच् जो शब्द है, वह प्रकृति करके रहे। जैसे—अतिशयेन ऋन्वा रजिष्ठः, रजीयान् स्त्रिवल्लमाचष्टे स्त्रयति; अतिशयेन ऋन्वान् चुचिष्ठः, चुर्चीयान् चुर्वन्तमाचष्टे चुत्रयति ।

यहां अजाहि प्रत्ययों के परे विन् और मनुप् का लुक् होने के पञ्चात् एकाच् शब्दों के द्विभाग का लोप प्राप्त है, सो प्रकृतिभाव के होने से नहीं होता। और द्विलोप का ही अपवाद् यह सूत्र है।

यहां ‘एकाच्’ प्रह्ला इसलिये है कि—अतिशयेन वसुमान् वसिष्ठः, यहां प्रकृतिभाव न होते, किन्तु द्विलोप ही होता है ॥ ८६९ ॥

**वा०-प्रकृत्याऽके राजन्यमनुष्ययुवानः ॥ ६०० ॥**

अक् प्रत्यय परे हो, तो राजन्य मनुष्य और युवन् शब्द प्रकृति करके रह जाते। जैसे—राजन्यानां समूहो राजन्यकम्; मानुष्यकम्, यहां (आपत्यस्य च तद्वितेऽनाति) इस लिखित सूत्र से यकार का लोप प्राप्त है, सो न होते।

यूनो मादः योशनिका, यहां इस युवन् शब्द का मतोद्वादिनाण में पाठ होने से डुब् प्रत्यय हुआ है, उस के नात द्विभाग का लोप प्राप्त है, सो नहीं होता ॥ ६०० ॥

**इनरायनपत्ये ॥ ६०१ ॥ अ० ६ । ४ । १६४ ॥**

अपत्यरद्वित शब्दों में अग् प्रत्यय परे हो, तो भसंडक इश्वत् अङ्ग प्रकृति करके रह जाते। जैसे—सांकृटिनम्; सारवणम्; सांमार्जिनम्; चार्गिरा इदं चारिलम् इत्यादि ।

यहां ‘अग्’ प्रत्यय का ग्रहण इसलिये है कि—दुरिडनां समूहो दारहम्, यहां अन् प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव न होते। और ‘अपत्य का निषेध’ इसलिये है कि—मेधा-विनोऽपत्यं मैथावः, यहां भी प्रकृतिभाव न होते ॥ ६०१ ॥

**गाथिविद्यथिकेशिगणिपरिणथ ॥ ६०२ ॥ अ० ६ । ४ । १६५ ॥**

यह सूत्र अपत्यसंडक अल् प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव होने के लिये है।

अपत्यसंब्रक अरण् प्रत्यय परे हो, तो गाथिन्, विदधिन्, केशिन्, गणिन्, पणिन् ये शब्द प्रकृति करके रहें। जैसे—गाथिनोऽपत्यं गाथिनः; विदधिनः; केशिनः; गणिनः; पणिनः॥ ६०२॥

### संयोगादिश्च ॥ ६०३ ॥ अ० ६ । ४ । १६६ ॥

अपत्यसंब्रक अरण् प्रत्यय परे हो, तो संयोग से परे इन्द्रभाग प्रकृति करके रहे। जैसे—शाङ्खिनोऽपत्यं शाङ्खिनः; माद्रिणः; वाञ्छिणः॥ ६०३॥

### अन् ॥ ६०४ ॥ अ० ६ । ४ । १६७ ॥

यहाँ अपत्य की अनुवृत्ति नहीं आती, किन्तु सामान्य विधान है।

अरण् प्रत्यय परे हो, तो भसंब्रक अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके रहे। जैसे—साम्नामयं मंत्रः सामनः; वैमनः; सौत्वनः; जैत्वनः इत्यादि॥ ६०४॥

### ये चाभावकर्मणोः ॥ ६०५ ॥ अ० ६ । ४ । १६८ ॥

भावकर्म अर्थों को छोड़ के अन्य अर्थों में विहित यकारादि तद्वित प्रत्यय परे हो, तो भसंब्रक अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके रह जावे। जैसे—सामसु साधुः सामन्यः; व्रह्मार्यः इत्यादि।

यहाँ ‘भावकर्म अर्थों का निषेध’ इसलिये है कि—राहो भावः कर्म वा राज्यम्। यद्य राज्य शब्द पुरोहितादिगण में पढ़ा है, इस कारण इससे यक् प्रत्यय हो जाता है॥ ६०५॥

### आत्माध्वानी खे ॥ ६०६ ॥ अ० ६ । ४ । १६९ ॥

तद्वितसंब्रक ख प्रत्यय परे हो, तो आत्मन् और अध्वन् शब्द प्रकृति करके रह जावे। जैसे—आत्मनीनः; अध्वानमलङ्घामी अध्वनीनः।

यहाँ ‘ख’ प्रत्यय का ग्रहण इसलिये है कि—प्रत्यात्मम्; प्राध्वम्, यहाँ प्रकृतिभाव न होवे। यहाँ आत्मन् अन्नन्त शब्द से समासान्त टच् और उपसर्ग से परे अध्वन् शब्द से अच् प्रत्यय हुआ है॥ ६०६॥

### न मंपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः ॥ ६०७ ॥ अ० ६ । ४ । १७० ॥

अपत्याधिकार में विहित अरण् प्रत्यय परे हो, तो वर्मन् शब्द को छोड़ के म जिसके पूर्व हो, ऐसा भसंब्रक अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके न रहे, किन्तु टिलोप होजावे। जैसे—सुप्यामणोऽपत्यं सौपामः; चान्द्रसामः; सुशङ्खोऽपत्यं सौदामः इत्यादि।

यहाँ ‘भकारपूर्व’ का ग्रहण इसलिये है कि—सौत्वनः, यहाँ टिलोप न हो। ‘अपत्य अर्थ’ इसलिये कहा है कि—चर्मण। परिवृतो रथश्वामैणः.. यहाँ प्रकृतिभाव हो जावे। और ‘वर्मन् शब्द का निषेध’ इसलिये किया है कि—भूपालवर्मणोऽपत्यं भौपालवर्मणः, यहाँ भी टिलोप न हो जावे॥ ६०७॥

**वा०-सपूर्वात् प्रतिषेधे वा हितनान्नः ॥ ६०८ ॥**

पूर्व सूत्र में मक्कार जिसके पूर्व हो उसको प्रकृतिभाव का निषेध किया है, सो हितनान्न शब्द को विकल्प करके प्रकृतिभाव हो। जैसे—हितनान्नोऽपत्यं हैतनान्नः; हैतनान्नः। यहां पक्ष में टिलोप हो जाता है ॥ ६०८ ॥

**ब्राह्मोऽजातौ ॥ ६०९ ॥ अ० ६ । ४ । १७१ ॥**

इस सूत्र का अर्थ नहमाल्कार ने ऐसा किया है कि—इस सूत्र का योगदिमाग करके दो वाक्यार्थी समझते चाहिये। ब्राह्म शब्द सामान्य अर्थों में अणुप्रत्ययान्त निपातन किया है। जैसे—ब्राह्मो गर्भः; ब्राह्मसञ्चमः; ब्राह्मं इविः; ब्राह्मो नारदः इत्यादि। यहां सर्वश ब्रह्मन् शब्द का टिलोप निपातन से किया है।

और अपत्यसंबंध अणुप्रत्यय परे हो, तो जाति अर्थ में ब्रह्मन् शब्द के टिमाग का लोप न होवे। जैसे—ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः।

यहां ‘अपत्य’ ब्रह्मण इसलिये है कि—ब्राह्मी ओषधिः, यहां निषेध न लगे ॥ ६०९ ॥

**कार्मस्ताच्छ्रीत्ये ॥ ६१० ॥ अ० ६ । ४ । १७२ ॥**

ताच्छ्रीत्य अर्थ में ए प्रत्यय परे हो, तो कर्मन् शब्द का टिलोप निपातन से किया है। जैसे—कर्मश्रीलः कार्मः। इस कर्मन् शब्द का छुब्रादिगण में पाठ होने से श्रील अर्थ में ए प्रत्यय होता है।

वह सूत्र वियमार्थ है कि—कर्मण इदं कार्मणम्, इत्यादि में टिलोप न होवे ॥ ६१० ॥

**आैक्षमनपत्ये ॥ ६११ ॥ अ० ६ । ४ । १७३ ॥**

अपत्याधिकार को छोड़ के अन्य अर्थों में अणुप्रत्यय परे हो, तो आैक्ष शब्द में टिलोप निपातन किया है। जैसे—उच्च इदं आैक्षम्।

‘अपत्य का निषेध’ इसलिये है कि—उच्चोऽपत्यमीक्षणः, यहां निषेध न होवे ॥ ६११ ॥

**दाणिडनायनहास्तिनायनार्थविणिकजैह्माशिनेयवासिनायनिभ्रौणह-**  
**त्यधैवत्यसारवैद्वाकमैत्रेयहिरण्यानि ॥ ६१२ ॥ अ० ६ । १७४ ॥**

इस सूत्र में दाणिडनायन, हास्तिनायन, आर्थविणिक, जैह्माशिनेय, वासिनायनि, भ्रौणहत्य, धैवत्य, सारव, ऐद्वाक, मैत्रेय और हिरण्यस्य इन शब्दों में तद्वितप्रत्ययों के परे टिलोप आदि कार्य निपातन से माने हैं।

दरिडन् और हस्तिन् शब्द नडादि गण में पढ़े हैं, इनसे फँक् प्रत्यय के परे प्रकृति-भाव निपातन से किया है। जैसे—दरिडनां गोत्रापत्यं दाणिडनायनः; हास्तिनायनः।

अथर्वन् शब्द वसन्तादि गण में पढ़ा है। उपचारोपाधि मान के अथर्वा ऋषि के वनायं प्रन्थ को भी 'अथर्वन्' कहते हैं। उससे पढ़ने ज नने अर्थों में ठक् प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव निपातन किया है। जैसे—अथर्वणमधीते वेच्चि वा आयर्वणिकः।

जिह्वाशिन् शब्द शुभ्रादि गण में पढ़ा है, उससे अपत्य अर्थ में ठक् प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव निपातन किया है। जैसे—जिह्वाशिनोऽपत्यं जिह्वाशिनेयः।

गोत्र संघारद्वित बृद्धसंघक वासिन् शब्द से अपत्य अर्थ में किन् प्रत्यय के परे टिलोप का निषेध निपातन किया है। जैसे—वासिनोऽपत्यं वासिनायनिः।

भूणहन् और धीवन् शब्दों से ध्यञ् प्रत्यय के परे इनके नकार को तकारादेश निपातन किया है। जैसे—भ्रौणम्नो भावः भ्रौणहत्यम्; धीवनो भावो धीवत्यम्। भूणहन् शब्द से ध्यञ् प्रत्यय के गित् होने से (हनस्तोऽचिरण्णलोः) इस स्रुत से नकारादेश हो जाता, किर निपातन नियमार्थ है कि अन्य तद्वित प्रत्ययों के परे इसको तकारादेश न होवे। जैसे—भूणम्नोऽपत्यं भ्रौणङ्गः; व्रावद्मः, यदां अण् प्रत्यय हुआ है।

सरयू शब्द से श्रैपिक अण् प्रत्यय के परे अय् भाग का लोप निपातन किया है। जैसे—सरयां भवं सारवमुदकम्। ऊकार को गुण होकर अवादेश हो जाता है।

जनपद के समान क्षत्रियवाची इच्छाकु शब्द से अपत्य और तद्राज अर्थों में अञ् प्रत्यय के परे ऊकार का लोप निपातन किया है। जैसे—इच्छाकोरपत्यमिच्छाकूनां राजा वा ऐच्छाकः।

मित्रयु शब्द गृष्णादि गण में पढ़ा है, उससे ढञ् प्रत्यय के परे इय आदेश का अपवाद यु शब्द का लोप निपातन किया है। जैसे—मित्रयोरपत्यं मैत्रेयः।

हिरण्य शब्द से मयद् प्रत्यय के परे य मात्र का लोप निपातन किया है। जैसे—हिरण्यस्य विकारः हिरण्यमयः ॥ ६१३ ॥

ऋत्यवास्त्वयवास्त्वमाध्वीहरणयानि छन्दसि ॥ ६१३ ॥

अ० ६ । ४ । १७५ ॥

ऋत्य, वास्त्व, वास्त्व, माध्वी और हिरण्य, ये शब्द वेदविषय में तद्वितप्रत्ययान्त निपातन किये हैं।

जैसे—ऋतो भवम्, ऋत्यम्; वास्ती भवं वास्त्वयम्, यदां ऋतु और वास्तु शब्दों को यकारादि यत् प्रत्यय के परे यणादेश निपातन किया है।

वस्तु शब्द से अण् प्रत्यय के परे गुण का अपवाद यणादेश निपातन किया है—वस्तूनि भवं वास्त्वम्। मधुशब्द से खीलङ्ग में अण् प्रत्यय के परे यणादेश निपातन किया है। जैसे—मधुन इमा माध्वीर्तः सन्त्वोपधीः।

हिरण्य शब्द से परे मयदृ के म मात्र का लोप निपातन से किया है। जैसे—हिरण्यस्य  
दिक्षादोऽहिरण्यम् ॥ ६१३ ॥

**तद्वितेष्वचामादेः ॥ ६१४ ॥ अ० ७ । २ । ११७ ॥**

जित्, णित् तद्वितसंशक प्रत्यय परे हों, तो अङ्ग के अचों में आदि-अच् को वृद्धि  
हो। जैसे—जित्—गर्गस्य गोभ्रापत्यं गार्ग्यः; वात्स्यः; दात्त्विः; लात्त्विः इत्यादि। णित्—  
उपगोरपत्यम् औपगवः; कापटवः; सौम्यं हविः इत्यादि ॥ ६१४ ॥

**किति च ॥ ६१५ ॥ अ० ७ । २ । ११८ ॥**

कित्संशक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो भी अङ्ग के अचों में आदि-अच् को वृद्धि  
होवे। जैसे—फक्—नाडायनः; चारायणः; रेवत्या अपत्य-रैवतिकः इत्यादि ॥ ६१५ ॥

**देविकार्शिंशपादित्यवाहुर्दीर्घस्त्रश्रेयसामात् ॥ ६१६ ॥ अ० ७ । ३ । १ ॥**

यहाँ जित्, णित् और कित् तद्वितप्रत्ययों तथा अचों के आदि-अच् इन सब की  
अनुवृत्ति चली आती है।

जित्, णित् और कित् तद्वितसंशक प्रत्यय परे हों, तो देविका, शिशपा, दित्यवाद,  
दीर्घसंत्रोऽर्थात् श्रेयस्, इन अङ्गों के आदि-अच् को वृद्धि प्राप्त है, उस को बाध के  
आकारादेश होवे।

जैसे—देविकायां भवं दाविकमुदकम्—देविका नाम किसी नदीविशेष का है;  
देविकाकूले भवाः “देविका” शालयः; पूर्वदेविका नाम है प्राचीनों के ग्राम का—पूर्वदेविका  
यां भवः पूर्वदेविकः, यहाँ भी (प्राचीन ग्राम) इस आगामी सूत्र से उत्तरपदवृद्धि  
प्राप्त है, उसका अपवाद-अपकार ही हो जाता है।

शिशपादा विकारः शांशपश्चमसः, यह शिशपा शब्द शीर्षो वृक्ष का नाम है। उसके  
अनुदात्तादि होने से, विकार अर्थ में अच् प्रत्यय होता है। शिशपास्यले भवाः शांश-  
पास्यला ॥ और पूर्वशिशपा शब्द प्राचीनग्राम की संज्ञा है, उसको भी पूर्वोक्त प्रकार से  
उत्तरपदवृद्धि हो जाती है। जैसे—पूर्वशिशपायां भवः पूर्वशांशपः।

दित्यवाद्—दित्योहै इदं दात्यौहम्, यहाँ शैषिक अण् प्रत्यय हुआ है; दीर्घसंत्र—  
दीर्घसंत्रे भवं दार्घसंत्रम्; श्रेयसि भवं श्रायसम् ॥ ६१६ ॥

**वा०—वहानरस्येद्वचनम् ॥ ६१७ ॥**

नित्, णित् और कित् तद्वितसंशक प्रत्यय परे हों, तो वहीनर शब्द के आदि-अच्  
को इकारादेश होवे। जैसे—वहीनरस्यापत्यं वैहीनरिः, यहाँ इकारादेशवृद्धि की प्राप्ति में  
नहीं कहा, इसी से वृद्धि का बाधक नहीं होता है। आदेश किंये इकार को वृद्धि हो जाती है।

और किन्होंने वृष्टि लोगों का इस विषय में यह अभिप्राय है कि—‘विहीनर’ शब्द से ही प्रत्यय होता है। अर्थात् यह ऐसा ही शब्द है। कामभोगाभ्यां विहीनो नरः विहीनरः। यहां पृष्ठोदरादि भाग के एक नकार का लोप हो जाता है। जिनके भत में ‘विहीनर’ शब्द है, उनके भत में वार्तिक नहीं करना चाहिये ॥ ८१७ ॥

**केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरिथः ॥ ६१८ ॥ अ० ७ । ३ । २ ॥**

केकय, मित्रयु और प्रलय शब्दों के यकारादि भाग को इय् आदेश होवे, जित् खित् कित् तद्वित प्रत्यय परे हों तो, और आदि अच् को वृद्धि तो पूर्व सूखों से सिद्ध ही है।

जैसे—केकयस्यापत्यं केकयानां राजा वा कैकेयः, यहां जनपद ऋत्रियवाची केकय शब्द से अज् प्रत्यय हुआ है; मित्रयुभावेन श्लाघते मैत्रेयिकया श्लाघते, यहां गोत्रवाची मित्रयु शब्द से श्लाघा अर्थ में बुज् प्रत्यय हुआ है; प्रलयादागतं प्रालेयमुदकम्, यहां आगत अर्थ में अण् प्रत्यय हुआ है ॥ ६१८ ॥

**न यवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच् ॥ ६१९ ॥ अ० ७ । ३ । ३ ॥**

जित् खित् और कित् संक्षक तद्वितप्रत्यय परे हों, तो यकार वकार से परे अचों के आदि अच् के स्थान में वृद्धि न हो, किन्तु उन यकार वकार से पूर्व ऐच् का आगम हो, अर्थात् यकार से पूर्व ऐकार और वकार से पूर्व आ॒कार आदेश होवे।

जैसे—द्याकरणमर्थीते वेद वा वैयाकरणः; न्यायमर्थीते नैयायिकः; व्यसने भवें वैय-सत्तम् इत्यादि; स्वश्वस्यापत्यं सौवश्वः; सौवर्गः; स्वराणां व्याख्यानो ग्रन्थः सौवरः इत्यादि।

यहां ‘यकार वकार से पूर्व’ इसलिये कहा है कि—ब्रर्थस्याऽपत्यं वार्थिः, यहां रेफ से पूर्व ऐच् का आगम न हो। ‘पदान्त’ विशेषण इसलिये है कि—यष्टिः प्रहरणमस्य याप्तीकः, यहां यकार से पूर्व ऐच् का आगम भी न होवे। और जहां यकार वकारों से उत्तर वृद्धि की प्राप्ति न हो, वहां उनसे पूर्व ऐच् का आगम भी न हो। जैसे—दध्यभ्व-स्यापत्यं दाध्यश्विः ॥ ६१९ ॥

**द्वारादानाच्च ॥ ६२० ॥ अ० ७ । ३ । ४ ।**

द्वारादि शब्दों के यकार वकार से उत्तर अचों के आदि अच् को वृद्धि न हो, किन्तु उन यकार वकारों से पूर्व तो ऐच् का आगम हो जावे।

जैसे—द्वारे नियुक्तः दौवारिकः; द्वारपालस्यापत्यं दौवारपालम्; स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सौवरः; सौवरोऽध्यायः; स्वाध्यायः प्रयोजनमस्य सौवाध्यायिकः; व्यल्कशे भवः वैयल्कशः; स्वस्तीत्याह सौवस्तिकः; स्वर्गमनं प्रयोजनमस्य सौवर्गमनिकः; स्फैयकृतस्याऽपत्यं स्फैयकृतः; स्वादुमृदु भक्तिरस्य सौवादुमृदवः; शुन इदं शौवनम्—यहां पूर्वलिङ्गित ‘अन्) सूख से अण् प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव हो जाता है, शुनो विकारः शौवनं मांसम्; श्वदंप्यायां

भवः शोबादंष्ट्रो भणिः; स्वस्येदमैश्वर्यं सोवम्: स्वग्रामे भवः सौवप्रामिकः—स्वग्राम शब्द से अध्यात्मादि गण में मान के ठज् प्रत्यय होता है।

पूर्व सूत्र में पदान्त यकार बकार से पूर्व ऐच् का आगम कहा है, यहां द्वारादि शब्दों में पदान्त नहीं, इसलिये फिर अलग करके कहा। स्वाध्याय शब्द इस द्वारादि गण में पढ़ा है, इसका दो प्रकार से निर्वचन होता है—सुष्ठु वा अध्ययनं स्वाध्यायः, शोभनं वा अध्ययनं स्वाध्यायः, अथवा समध्ययनं स्वाध्यायः। इनमें से किसी प्रकार का निर्वचन समझो, स्वाध्याय शब्द सर्वथा योगिक ही है।

और द्वारादि शब्द सब अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं। इसीलिये यह सूत्र कहा है। सो जो 'सु+अध्याय' ऐसा विश्रह करें, तब तो पदान्त बकार से पूर्व प्रथम सूत्र से ही ऐच् का आगम हो जावेगा। और जब 'स्व+आध्याय' ऐसा निर्वचन करें तो भी सब शब्द इसी गण में पढ़ा है। तो अगले सूत्र में केवल शब्द के ज्ञापक से इस प्रकार एसे तदादिविधि होती है। फिर स्वशब्द जिसके आदि में हो ऐसे स्वाध्याय शब्द से इसी सूत्र करके ऐच् का आगम हो जावेगा। फिर स्वाध्याय शब्द को इस गण में पढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं। यह महामाघकार का आशय है॥ ६२० ॥

न्यग्रोधस्य च केवलस्य ॥ ६२१ ॥ अ० ७ । ३ । ५ ॥

केवल न्यग्रोध शब्द के यकार से परे, अच्चों के आदि अच् के स्थान में वृद्धि न हो, किन्तु यकार से पूर्व ऐच् का आगम हो जावे। जैसे—न्यग्रोधस्य विकारो नैयग्रोधश्चमसः।

यहां 'केवल' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि—न्यग्रोधमूले भवाः न्याग्रोधमूलाः शालयः, यहां ऐच् का आगम न होवे।

इस 'न्यग्रोध' शब्द का ग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष में नियमार्थ है कि पदान्त यकार से पूर्व के केवल न्यग्रोध शब्द को ही ऐच् का आगम हो, अन्य शब्दों को तदादि होने से भी हो जावे। और अव्युत्पत्तिपक्ष में विधान ज्ञापकार्थ है॥ ६२१ ॥

न कर्मव्यतिहारे ॥ ६२२ ॥ अ० ७ । ३ । ६ ॥

कर्मव्यतिहार अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक के यकार बकार से पूर्व ऐच् का आगम न होवे। जैसे—व्यावक्तोर्णी; व्यावलेखी; व्यावहासी इत्यादि।

यहां कर्मव्यतिहार अर्थ में कुदन्त राच् प्रत्यय और तदन्त से खीलिङ्गस्वार्थ में तद्वितसंबंधक अन् प्रत्यय हुआ है॥ ६२२ ॥

स्वागतादीनां च ॥ ६२३ ॥ अ० ७ । ३ । ७ ॥

नित खित कित संबंधक तद्वितप्रत्यय परे हों, तो गणपटित स्वागतादि शब्दों के यकार बकार से पूर्व ऐच् का आगम न होवे।

जैसे—स्वागतमित्याह स्वागतिकः; स्वव्वरेण चरति स्वाध्वरिकः; स्वाङ्गस्यापत्यं स्वाङ्गिः; व्यङ्गस्यापत्यं व्याङ्गिः; व्यडस्यापत्यं व्याडिः; व्यवहारः प्रयोजनमस्य व्यावहारिकः—यहाँ व्यवहार शब्द कर्मव्यवहार अर्थ में नहीं, किन्तु लौकिक कार्यों का बाची है; खपती साधुः स्वापत्तेयः ।

स्वागतादि सब यौगिक शब्द हैं, उनमें तो पदान्त वकार वकार से पूर्व ऐच् का आगम प्राप्त है, और खपति शब्द में यह बात नहीं, सो सब शब्द द्वारादि गण में पढ़ा है, वहाँ तदादि से ऐच् का आगम प्राप्त है, इन सबका निषेध समझना चाहिये ॥ ६२३ ॥

### श्वादेरिजि ॥ ६२४ ॥ अ० ७ । ३ । ८ ॥

तद्वितसंब्रक इच् प्रत्यय परे हो, तो किसी शब्द के आदि में वर्तमान शब्द के वकार से पूर्व ऐच् का आगमन नहीं। जैसे—श्वभव्यस्यापत्यं श्वाभिः; श्वादंप्तिः इत्यादि ।

श्वन् शब्द द्वारादिगण में पढ़ा है, इस कारण इसको तदादिविधि मान कर वकार से पूर्व ऐच् प्राप्त है, उसका प्रतिपेध किया है ॥ ६२४ ॥

### वा०—इकारादिग्रहणं च श्वागणिकाद्यर्थम् ॥ ६२५ ॥

सूत्र में तद्वितसंब्रक इच् प्रत्यय के परे ऐज्ञागम का निषेध किया है, सो सामान्य इकारादि प्रत्यय के परे करना चाहिये। जैसे—श्वगणेन चरति श्वागणिकः; श्वायूथिकः इत्यादि । यह वार्तिक सूत्र का शेष है ॥ ६२५ ॥

### वा०—तदन्तस्य चान्यन्न प्रतिपेधः ॥ ६२६ ॥

और इच् प्रत्यय से भिन्न कोई प्रत्यय परे हो, तो आदि में वर्तमान शब्द के वकार से पूर्व ऐच् का आगम न हो। जैसे—श्वाभिः स्वं श्वाभन्नम् इत्यादि ॥ ६२६ ॥

### पदान्तस्यान्यतरस्याम् ॥ ६२७ ॥ अ० ७ । ३ । ९ ॥

पद शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे श्व शब्द के वकार से पूर्व ऐच् का आगम विकल्प करके होवे। जैसे—श्वापदस्येदं श्वापदम्, शौश्वापदम् इत्यादि ॥ ६२७ ॥

### उत्तरपदस्य ॥ ६२८ ॥ अ० ७ । ३ । १० ॥

यह अधिकार सूत्र है। यदां से आगे जो कार्य विद्यान करें, सो (हनस्तो०) इस सूत्र पर्यन्त सामान्य करके उत्तरपद को होगा ॥ ६२८ ॥

### अव्यवहारतोः ॥ ६२९ ॥ अ० ७ । ३ । ११ ॥

नित रित और कित् संब्रक तद्वितप्रत्यय परे हों, तो अव्यवहारती से परे जो ऋतु-बाची उत्तरपद उसके अंत्रों में आदि अच् को वृद्धि होवे।

जैसे—पूर्ववर्षा सु भवं पूर्ववार्षिकम्; पूर्वहैमनम्; अपरवार्षिकम्; अपरहैमनम् इत्यादि । यहां पूर्व शब्द का वर्षा और हेमन्त शब्द के साथ एकदेशी समास होता, और वर्षा शब्द से शैयिक ठक्, हेमन्त से अल्प प्रत्यय और हेमन्त शब्द के तकार का लोप हुआ है ।

यहां ‘अवयव’ शब्द का ग्रहण इसलिये है कि—पूर्वासु वर्षासु भवं पौर्ववार्षिकम्, यहां अवयविसमास के न होने से उत्तरपदवृद्धि न हुई । यहां वर्षा और हेमन्त शब्दों के पूर्व और अपर शब्द अवयव हैं ॥ ६२६ ॥

**सुसर्वार्द्धाज्ञनपदस्य ॥ ६३० ॥ अ० ७ । ३ । १२ ॥**

जित् खित् और कित् संहक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो सु, सर्व और अर्द्ध शब्दों से परे जो जनपद देशवाची उत्तरपद, उसके अर्चों में आदि अच् के स्थान में वृद्धि होते ।

जैसे—सुपञ्चालेषु भवः सुपञ्चालकः; सर्वपञ्चालकः; अर्द्धपञ्चालकः इत्यादि । यहां शैयिक बुज् प्रत्यय होता है ॥ ६३० ॥

**दिशोऽमद्राणाम् ॥ ६३१ ॥ अ० ७ । ३ । १३ ॥**

जित् खित् और कित् संहक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो दिशावाची शब्दों से परे जो मद्र शब्द को छोड़ के जनपद देशवाची उत्तरपद, उसके अर्चों में आदि अच् के स्थान में वृद्धि होते ।

जैसे—पूर्वेषपञ्चाला निवासोऽस्य पूर्वपञ्चालकः; अपरपञ्चालकः; दक्षिणपञ्चालकः इत्यादि । यहां भी शैयिक बुज् प्रत्यय होता है ।

यहां ‘दिशावाची’ का ग्रहण इसलिये है कि—पूर्वः पञ्चालानां पूर्वपञ्चालः पूर्वपञ्चालेषु भवः पौर्वपञ्चालकः; आपरपञ्चालकः, यहां एकदेशी समास में पूर्व तथा अपर शब्द दिशावाची नहीं, किन्तु अवयववाची हैं, इस कारण उत्तरपदवृद्धि नहीं होती । ‘मद्रशब्द का निषेध’ इसलिये है कि—पूर्वमद्रेषु भवः पौर्वमद्रः; आपरमद्रः, यहां शैयिक अच् प्रत्यय के परे उत्तरपदवृद्धि नहीं होती ॥ ६३१ ॥

**प्राचां ग्रामनगराणाम् ॥ ६३२ ॥ अ० ७ । ३ । १४ ॥**

जित् खित् और कित् संहक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो प्राचीन आचार्यों के मत में दिशावाची शब्दों से परे जो ग्राम और नगरवाची उत्तरपद, उसके अर्चों में आदि अच् के स्थान में वृद्धि हो ।

जैसे—ग्राम—पूर्वेषुकामशस्यां भवः पूर्वेषुकामशमः; अपरैषुकामशमः; पूर्वेषुकार्णसृच्चिकः; अपरकार्णसृच्चिकः । नगरों से—पूर्वमयुरायां भवः पूर्वमयुरः; अपरमयुरः; पूर्वमौग्नः; दक्षिणमौग्नः इत्यादि ॥ ६३२ ॥

संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च ॥ १३३ ॥ अ० ७ । ३ । १५ ॥

जित् लित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों से परे जो संवत्सर और संख्यावाची उच्चरपद, उसके अर्थों में आदि अच् के स्थान में वृद्धि होते।

जैसे—द्विसंवत्सरगवंधीष्ठो भूतो भूतो भावी वा, द्विसांवत्सरिकः; द्वे पश्ची अधीष्ठो भूतो भूतो भावी वा द्विषाणिकः; द्विसाततिकः; द्वयाशीतिकः इत्यादि।

यहाँ संवत्सर के ग्रहण से उत्तर सूत्र में परिमाणान्तग्रहण में कालपरिमाण का ग्रहण नहीं होता, इससे—द्वैशमिकः; द्वैशमिकः, यहाँ उच्चरपदवृद्धि नहीं होती। द्विवर्षा; त्रिवर्षा, यहाँ परिमाणवाची से कहा ढीपू प्रत्यय भी नहीं होता ॥ १३४ ॥

वर्षस्याभविष्यति ॥ १३४ ॥ अ० ७ । ३ । १६ ॥

यहाँ संख्यावाची की अनुवृत्ति आरी है।

भविष्यत् अर्थ को छोड़ के अन्य अर्थों में स्थित जित् लित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों से परे जो वर्ष उच्चरपद, उसके अर्थों में आदि अच् को वृद्धि हो। जैसे—द्विवर्ष अधीष्ठो भूतो भावी द्विवार्षिकः; त्रिवार्षिकः इत्यादि।

यहाँ ‘भविष्यत् अर्थ का निषेध’ इसलिये किया है कि—बीलि वर्षाणि भावी त्रैवर्षिकम्; यहाँ उच्चरपदवृद्धि न होते।

अर्धाष्ट और भूत अर्थों में भी भविष्यत् का न होता है। परन्तु यहाँ भविष्यत् का निषेध नहीं लगता, क्योंकि उत अर्थों में जो भविष्यत् आ सकता है, वह तद्वित प्रत्यय का अर्थ नहीं है। जैसे—द्वे वर्षे अर्धाष्टो भूतो वा कर्म करिष्यतीति द्विवार्षिको ममुष्यः ॥ १३५ ॥

परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ॥ १३५ ॥ अ० ७ । ३ । १७ ॥

जित् लित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों से परे जो संज्ञाविषय में और शाल उच्चरपद को छोड़ के अन्य परिमाणान्त उच्चरपद, उसके अर्थों में आदि अच् को वृद्धि होते।

जैसे—द्वा कुडवी प्रयोजनमस्य द्विकौडविकः; द्वाभ्यां सुवृत्तिभ्यां क्रीतं द्विसौवर्णिकम्; द्वाभ्यां निष्काम्यां क्रीतं द्विनैष्टिकम्; त्रिनैष्टिकम् इत्यादि। यहाँ ठंग् प्रत्यय हुआ है।

यहाँ ‘संज्ञाविषय में निषेध’ इसलिये किया है कि—पञ्च लोहित्यः परिमाणमस्य पाञ्चतोहितिकम्; पाञ्चकपालिकम्, यहाँ संज्ञा में उच्चरपदवृद्धि न हो। और ‘शाल उच्चरपद के परे निषेध’ इसलिये है कि—द्वाभ्यां शालाभ्यां क्रीतं द्वैशालम्; त्रैशालम्, यहाँ क्रीत अर्थ में अर्थे प्रत्यय के परे उच्चरपद को वृद्धि न होते ॥ १३६ ॥

## जे प्रोष्ठपदानाम् ॥ ६३६ ॥ अ० ७ । ३ । १८ ॥

यहाँ जे शब्द से जात अर्थ का वोध होता है। जात अर्थ में विद्वित जित् शित् और कित् संज्ञक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो प्रोष्ठपदा नामक नक्षत्र में उत्तरपद के आदि अच् को वृद्धि होवे।

जैसे—प्रोष्ठपदासु जातः प्रोष्ठपदो माणवकः, यहाँ नक्षत्रवाची से सामान्य काल अर्थ में विद्वित अण् प्रत्यय का लुप् होकर फिर नक्षत्रवाची से जात अर्थ में अण् प्रत्यय होता है।

यहाँ 'जे' ग्रहण इसलिये है कि—प्रोष्ठपदासु भवः प्रोष्ठपदः, यहाँ वृद्धि न हो। और इस सूत्र में वहुवचन निर्देश से प्रोष्ठपदा के पर्यायवाचियों का भी ग्रहण समझना चाहिये। जैसे—भद्रपदासु जातो भद्रपादः ॥ ६३६ ॥

## हृष्टगसिन्धवन्ते पूर्वपदस्य च ॥ ६३७ ॥ अ० ७ । ३ । १९ ॥

जित् शित् और कित् संज्ञक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो हृद्, भग, सिन्धु ये जिनके अन्त में हों, ऐसे पूर्वपदों और उत्तरपदों के अचों में आदि अच् के स्थान में वृद्धि हो।

जैसे—सुहृदयस्येदं सौहार्दम्; सुहृदयस्य भावः सौहार्दम्; सुभगस्य भावः सौभाग्यम्; दीर्भाग्यम्; सुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः; दीर्भागिनेयः।

और 'सुभग' शब्द उद्घातादि गण में भी पढ़ा है, उससे वेद में ही अज् प्रत्यय होता है। परन्तु उभयपदवृद्धि नहीं होती, क्योंकि 'महते सौभगाय' ऐसा ही प्रयोग वेद में आता है। सो वेद में सब कार्यों का विकल्प होने से पूर्वपदवृद्धि हो जाती है ॥ ६३७ ॥

## अनुशतिकादानां च ॥ ६३८ ॥ अ० ७ । ३ । २० ॥

यहाँ पूर्व सूत्र से पूर्वपद की भी अनुवृत्ति चली आती है।

जित् शित् और कित् संज्ञक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो अनुशतिकादिगण पठित शब्दों में पूर्व और उत्तर दोनों पदों के आदि अचों के स्थान में वृद्धि होवे।

जैसे—अनुशतिकस्येदम् आनुशतिकम्; अनुहोडेन चरति आनुहृडिकः; अनुसंवरणे दीयते आनुसांवरणम्; अनुसंवत्सरेण दीयते आनुसंवत्सरिकः; अङ्गारवैणवः; असिहृत्ये भवम् असिहृत्यम्; अस्यद्वृत्यशब्दोऽसिन्धध्ययेऽस्ति आस्यहृत्यः; अस्यहृतिः प्रथोजनस्य आस्यहृतिकः; वध्योगस्यापत्यं वाध्योगः; पुष्करसतोऽपत्यं पोष्करसादिः; अनुहरतोऽपत्यम् आनुहरतिः; कुरुकतस्यापत्यं कौरुकात्यः; कुरुपञ्चालेषु भवः कौरुपञ्चालः; उदकशुद्धस्यापत्यम् औदकशोऽद्विः।

इह लोके भवं ऐहलौकिकम्; परलोके भवं पारलौकिकम् लोकोत्तरपद प्रातिपदिकों से उज् प्रत्यय कह चुके हैं; सर्वलोके विद्वितः सार्वलौकिकः पुरुषः; सर्वपुरुषस्येदं कर्म

सार्वपौरुषम्; सर्वभूमेर्निमित्तं संयोग उत्पातो वा सार्वभौमः; प्रयोगे भवं प्रायोगिकम्; परस्तिया अपत्यं पारस्तैरेयः—परब्री शब्द कल्याणयादिगण में पढ़ा है, वहां इन्द्र आदेश हो जाता है; राजपुरुष शब्द को स्वत्र प्रत्यय के परे उभयपदवृद्धि होती है—राजपुरुषस्य कर्म राजपौरुष्यम्।

स्वत्र प्रत्यय का नियम इसलिये है कि—राजपुरुषस्यापत्यं राजपुरुषायणिः, यहां उत्तरादेशीय आचारयों के मत में गोव्रसंज्ञारहित वृद्धिसंज्ञक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में किन् प्रत्यय होता है; शतकुम्भे भवः शातकोम्भः; सुव्रशयनं पृच्छ्वाति सौक्षशयनिकः; परदारान् गच्छ्वाति पारदारिकः; सूक्ष्मडस्यापत्यं सौक्ष्माङ्गिः; अभिगममर्हति आभिगांगिकः; अधिदेवे भवमाधिदेविकम्; आधिभौतिकम्; आध्यात्मिकम्—अध्यात्मादि शब्दों से भवार्थ में उभयपदवृद्धि हो जाते हैं।

यह आकृतिगण इसलिये समझना चाहिये कि अन्य अपठित शब्दों को भी उभयपदवृद्धि हो जाते। जैसे—चतुर्व एव विद्याः चातुर्वैद्यम्; चातुराश्रम्यम् इत्यादि में भी उभयपदवृद्धि हो जाते ॥ ६३६ ॥

**देवताद्वन्द्वे च ॥ ६३६ ॥ अ० ७ । ३ । २१ ॥**

जित् लित् और कित् संज्ञक वद्धित प्रत्यय परे हो, तो देवतावाची शब्दों के द्वन्द्वसमास में पूर्व और उत्तर दोनों पदों के अर्चों में आदि अच् के स्थान में वृद्धि होते। जैसे—आश्चिवारुणी; आश्चिमार्द्दो मन्त्रः।

परन् तु यहां सूक्त ऋचा मन्त्र और द्विष्ट पदार्थ सम्बन्धी देवतावाची शब्दों का द्वन्द्वसमास हो, वहां उभयपदवृद्धि हो। और—स्कन्दविशास्त्री देवते अस्व स्कान्दविशासं कर्म; व्राह्मप्रजापत्यम्, यहां उभयपदवृद्धि न होते ॥ ६३६ ॥

**नेन्द्रस्य परस्य ॥ ६४० ॥ अ० ७ । ३ । २२ ॥**

देवतावाची शब्दों के द्वन्द्वसमास में उत्तरपद में जो इन्द्र शब्द आवे, तो उसको वृद्धि न हो। पूर्वसूक्त से प्राप्त है, उसका निषेध किया है। जैसे—सोमेन्द्रौ देवते अस्य सोमेन्द्रः; आशेन्द्रः इत्यादि।

यहां ‘पर’ ग्रहण इसलिये है कि—ऐन्द्राक्षं चर्वं निर्वपेत्, यहां पूर्वपद में निषेध न होते। इन्द्र शब्द में दो खर हैं। उनमें से अन्य अकार का तद्धित प्रत्यय के परे लोप, और पूर्व इकार का दूसरे वर्ण के साथ एकादेश होने से उत्तरपदवृद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, फिर निषेध करने से यह ज्ञापक होता है कि अन्तरङ्ग भी एकादेश को बाध के प्रथम पूर्वोत्तरपदवृद्धि ही होती है।

इस ज्ञापक का अन्यत्र फल यह है कि—पूर्वपुकामशमः, यहां उत्तरपद में इसु शब्द के इकार की वृद्धि प्रथम ही हो जाती है, पीछे एकादेश होता है ॥ ६४० ॥

**दीर्घच्च वर्णणस्य ॥ ६४१ ॥ अ० ७ । ३ । २३ ॥**

‘दीर्घ वर्ण से परे जो वर्ण उत्तरपद उसके आदि अच् को वृद्धि न हो ।

यहाँ भी देवता के दन्दसमास में पूर्वसूत्र से प्राप्ति है, उसका प्रतिषेध समझना चाहिये । जैसे—दन्दावर्णो देखते अस्ता ऐन्द्रावरुणम्, मैत्रावरुणम् इत्यादि ।

‘दीर्घ वर्ण से परे’ इसलिये कहा है कि—आश्चिवारणी, यहाँ निषेध न होजावे ॥ ६४१ ॥

**प्राचां नगरान्ते ॥ ६४२ ॥ अ० ७ । ३ । २४ ॥**

प्राचीनों के देश में चित् शित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो नगरान्त अङ्ग में उभयपद के आदि अच् को वृद्धि हो । जैसे—सुक्षनगरे भवः सौक्षनगरः, पौरद्रौनगरः इत्यादि ।

यहाँ ‘प्राचां’ ग्रहण इसलिये है कि—मद्रनगरे भवः माद्रनगरः, यहाँ उत्तरदेशीय नगरान्त में न होवे ॥ ६४२ ॥

**जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुक्तरम् ॥ ६४३ ॥ अ० ७ । ३ । २५ ॥**

चित् शित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो जङ्गल, धेनु, वलज ये शब्द जिसके अन्त में हों, वस समुदाय के उत्तरपद के आदि अच् को विकल्प करके, और पूर्वपंद के आदि अच् को नित्य वृद्धि होवे ।

जैसे—कुरुजङ्गलेषु भवं कौरुजङ्गलम्, कौरुजङ्गलम्, वैश्वधेनवम्, वैश्वधेनवम्, सौवर्णवलजः, सौवर्णवलजः, यहाँ शैयिक अण् प्रत्यय हुआ है ॥ ६४३ ॥

**अर्द्धतिपरिमाणस्य पूर्वस्य तु वा ॥ ६४४ ॥ अ० ७ । ३ । २६ ॥**

चित् शित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो अर्द्ध शब्द से परे जो परिमाणवाची उत्तरपद, उसके अचों में आदि अच् को नित्य और पूर्वपद के आदि अच् को विकल्प करके वृद्धि होवे । जैसे—अर्द्धद्रोणेन कीतमार्द्धद्रौणिकम्, अर्द्धद्रौणिकम्, अर्द्धकौडविकम्, अर्द्धकौडविकम् ।

यहाँ ‘परिमाण’ ग्रहण इसलिये किया है कि—अर्द्धकौशः प्रयोजनमस्य आर्द्धकौशिकम्, यहाँ पूर्वपद को विकल्प और उत्तरपद को नित्य वृद्धि न होवे ॥ ६४४ ॥

**नातः परस्य ॥ ६४५ ॥ अ० ७ । ३ । २७ ॥**

‘चित् शित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो अर्द्ध शब्द से परे परिमाणवाची उत्तरपद के आदि अकार को वृद्धि न हो, और पूर्वपद को विकल्प

करके द्वों। जैसे—अर्द्ध प्रस्तेन क्रीतमार्द्ध प्रस्थिकम्, अर्द्ध प्रस्थिकम्; आर्द्धकंसिकः; अर्द्धकंसिकः।

यहां 'अकार' का ग्रहण इसलिये है कि—आर्द्ध कौडविकः; यहां वृद्धि का निषेध न होते। और 'अकार में तपरकण' इसलिये है कि—अर्द्ध खार्यं भवा आर्द्ध खारी, यहां खारी शब्द उत्तरपद के आदि में द्वीर्घ आकार है।

यद्यपि वृद्धि द्वोने न होने में कुछ विशेष नहीं दीखता, तो भी—आर्द्धकारी भार्या अस्य आर्द्धकारीभार्यः; यहां वृद्धि के निमित्त तद्वित प्रत्यय के परे पुंवद्धाव का निषेध नहीं पावेगा। क्योंकि जिस तद्वित प्रत्यय के परे वृद्धि का निषेध है, वह वृद्धि का निमित्त नहीं हो सकता कि जैसे—वैयाकरणी भार्या अस्य वैयाकरणभार्यः, यहां पुंवद्धाव हो जाता है, वैसे उसमें भी हो जावेगा ॥ ६४५ ॥

**प्रवाहणस्य दे ॥ ६४६ ॥ अ० ७ । ३ । २८ ॥**

तद्वितसंश्लक ह प्रत्यय परे हो, तो प्रवाहण शब्द के उत्तरपद के आदि अच् को वृद्धि हो और पूर्वपद के आदि अच् को विकल्प करके द्वों।

जैसे—प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणेयः, प्रवाहणेयः। प्रवाहण शब्द का शुभ्रादिगण में पाठ होने से ढक् प्रत्यय हो जाता है ॥ ६४६ ॥

**तत्प्रत्ययस्य च ॥ ६४७ ॥ अ० ७ । ३ । २६ ॥**

जित् गित् और कित् संश्लक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो ढक् प्रत्ययान्त प्रवाहण शब्द में उत्तरपद के आदि अच् को नित्य और पूर्वपद के अच् को विकल्प करके वृद्धि हो।

जैसे—प्रवाहणेयस्य युवापत्यं प्रावाहणेयिः, प्रवाहणेयिः इत्यादि, अपत्य अर्थ में इच् प्रत्यय हुआ है। दूसरे प्रत्यय के आश्रय जो वृद्धि है, सो ढक् प्रत्यय को मान के विकल्प से नहीं हो सकती, इसलिये यह सूत्र कहा है ॥ ६४७ ॥

**. नञः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम् ॥ ६४८ ॥ अ० ७ । ३ । ३० ॥**

जित् गित् और कित् संश्लक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो नञ् से परे जो शुचि, ईश्वर, द्वेत्रव, कुशल और निरुण उत्तरपद उसके अचों में आदि अच् को नित्य और पूर्वपद को विकल्प करके वृद्धि हो।

जैसे—शुचि—अगुचेभावः आशीचम्, अशीचम्; ईश्वर—अनीश्वरस्य भावः आनैश्वर्यम्, अनैश्वर्यम्; द्वेत्रव—आद्वेत्रवश्यम्, अद्वेत्रवश्यम्; कुशल—अकुशलस्य भावः आकौशलम्, अकौशलम्; निरुण—आनेपुणम्, अनेपुणम् ॥ ६४८ ॥

यथातथयथापुरयोः पर्यायेण ॥ ६४६ ॥ अ० ७ । ३ । ३१ ॥

जित् शित् और कित् संब्रक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो नज् से परे जो यथातथ और यथातुर उसके अचों में आदि अच् को पर्याय से बुद्धि हो। अर्थात् जब पूर्वपद को हो हो तब उत्तरपद को नहीं, और जब उत्तरपद को हो हो तब पूर्वपद को नहीं होवे।

जैसे—अयथातथा भावः आयथातथम्, अयथातथम्; आयथापुर्यम्, अयथा-पुर्यम्। अयथातथा और अयथापुर ये दोनों शब्द व्राह्मणादि गण में पढ़े हैं, इससे यज् प्रत्यय होता है ॥ ६४६ ॥

इति श्रीमत्स्वामिद्यानन्दसरस्वतीव्याख्यातोऽष्टाध्यार्थां  
खैण्टाद्वितोऽयं ग्रन्थः समाप्तः ॥

वसुरामाङ्कचन्द्रेऽज्ज्वे मार्गशीर्षे सिते दले ।  
पञ्चमीशनिवारेऽयं ग्रन्थः पूर्ति गतः शुभः ॥

संवत् १६३८ मार्गशीर्ष शुक्ल ५ शनिवार के दिन यह खैण्टाद्वित ग्रन्थ श्रीयुत दयानन्द सरस्वतीजी ने पूरा किया ॥

